



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18—सितम्बर 24, 2010 (भाद्रपद 27, 1932)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18—SEPTEMBER 24, 2010 (BHADRA 27, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2010

एकीकृत मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

प्रशासन निदेशालय (सिव)

सं. 479, दिनांक 28 जुलाई 2010--सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत उनके नामों के आगे उल्लिखित समयावधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी वर्ग 'ख' (राजपत्रित) के रूप में वेतनमान पीबी-2 (रु. 9,300--34,800/-) एवं ग्रेड पे रु. 4,800/- में नियुक्त किया जाता है :--

श्री वी आर शर्मा, 29 मई 2009 से 20 अगस्त 2009

श्री विनोद कुमार, 29 मई 2009 से 20 अगस्त 2009

श्री दर्शन कुमार, 29 मई 2009 से 20 अगस्त 2009

श्रीमती इन्द्राणी गुप्ता, 29 मई 2009 से 20 अगस्त 2009

श्रीमती प्रोमिला जग्गी, 29 मई 2009 से 20 अगस्त 2009

श्री नरेन्द्र सिंह, 29 मई 2009 से 20 अगस्त 2009

श्री अमृत लाल, 27 नवम्बर 2009 से 26 मई 2010

श्री चांदी राम, 27 नवम्बर 2009 से 26 मई 2010

श्री अशोक शारदा, 27 नवम्बर 2009 से 26 मई 2010

श्री जे सी बिष्ट, 27 नवम्बर 2009 से 26 मई 2010

श्रीमती शशी अलघ, 27 नवम्बर 2009 से 26 मई 2010

श्री एम नन्दनन, 31 दिसम्बर 2009 से 26 मई 2010

श्रीमती शैलेन्द्र कपूर, 19 अप्रैल 2010 से 18 अक्टूबर 2010

श्री चनश्याम सिंह, 19 अप्रैल 2010 से 18 अक्टूबर 2010

यह नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर रद्द की जा सकती है।

ए के लारोइया

उप मुद्रा (ए)

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 480, दिनांक 28 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

मेजर से ले कर्नल

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा पदोन्नति की तारीख
 ले कर्नल गीता रानी (एनआर-19657एम), 30 सितम्बर 2009
 ले कर्नल जेस्सीमोल मैथ्यू (एनआर-19658पी), 30 सितम्बर 2009
 ले कर्नल एस एब्राहम (एनआर-19661पी), 30 सितम्बर 2009
 ले कर्नल गीता पांजा (एनआर-19662एक्स), 30 सितम्बर 2009
 ले कर्नल रेनु भाटिया (एनआर-19664एन), 30 सितम्बर 2009
 ले कर्नल रजनी भंडारकर (एनआर-19665एल), 30 सितम्बर 2009
 ले कर्नल श्रीलता पी एस (एनआर-19667डब्ल्यू), 30 सितम्बर 2009
 ले कर्नल मैत्रेयी दास (एनआर-19668वाई), 30 सितम्बर 2009
 ले कर्नल मोनी सीटी (एनआर-19675पी), 30 सितम्बर 2009
 ले कर्नल अन्नुफिलिप (एनआर-17677ए), 30 सितम्बर 2009

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एमएनएस

सेना शाखा

सं. 481, दिनांक 28 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग

कप्तान से मूलत्व मेजर के रैंक में

कप्तान संतोष एम (बीएस-1089के), आरबीसी, 13 मार्च 2008
 कप्तान अमित (बीएस-1091एफ), आरबीसी, 13 मार्च 2009
 कप्तान कृष्णेनदू कुण्डू (बीएस-1107एफ), आरबीसी, 20 दिसम्बर 2009
 कप्तान राहुल बाबूलाल डागे (बीएस-1123वाई), आरबीसी, 20 दिसम्बर 2009

ए वी बागुर
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 482, दिनांक 29 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले से कप्तान

आईसी सं., नाम तथा आर्मी

(आईसी-72151) इकबालजीत सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-72152) प्रणय दीप, ईएमई
 (आईसी-72153) अभिमन्यु समयाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-72154) श्रीनिवास एन के, ईएमई
 (आईसी-72156) रूपिन्द्र सिंह भामरा, सिग्नल्स
 (आईसी-72157) प्रदीप सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-72158) प्रवीन कुमार, ईएमई
 (आईसी-72159) अभिमन्यु राठी, इंजीनियर्स
 (आईसी-72160) विक्रम बलहारा, सिग्नल्स
 (आईसी-72161) जय शंकर मित्रा, इंजीनियर्स
 (आईसी-72162) इनोक डैनीयल ग्नानाओलिवु, इंजीनियर्स
 (आईसी-72163) एस राजा दुरई, सिग्नल्स
 (आईसी-72164) गुरसिमरन दीप सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-72165) गणेश बहादुर क्षेत्री, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72166) ललित किशोर चहाली, इंजीनियर्स
 (आईसी-72167) चेतन नन्दा, ईएमई
 (आईसी-72168) गौरव कुमार, ईएमई
 (आईसी-72169) नवीन शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-72171) राहुल तोमर, सिग्नल्स
 (आईसी-72172) ई यातिपलौंग थोंगनी, इंजीनियर्स
 (आईसी-72173) शिवेन्द्र सिंह अत्री, इंजीनियर्स
 (आईसी-72174) पीयूष शर्मा, ईएमई
 (आईसी-72175) सुशील सिंह, ईएमई
 (आईसी-72176) अनिबर्न बासु, इंजीनियर्स
 (आईसी-72177) रंजीत के आर, इंजीनियर्स
 (आईसी-72178) अमित आर्य, इंजीनियर्स
 (आईसी-72179) कृष्णा प्रसाद, इंजीनियर्स
 (आईसी-72180) सुनील भक्त, सिग्नल्स

आईसी सं., नाम तथा आर्म

- (आईसी-72181) अमर कुमार, ईएमई
 (आईसी-72182) आलोक अवस्थी, सिग्नल्स
 (आईसी-72184) पवन के वी, ईएमई
 (आईसी-72185) भूपेन्द्र चरक, सिग्नल्स
 (आईसी-72186) गोविन्द एस, सिग्नल्स
 (आईसी-72187) राजेश सेमवाल, ईएमई
 (आईसी-72188) आदित्य कुमार भनोट, इंजीनियर्स
 (आईसी-72189) राम सी, इंजीनियर्स
 (आईसी-72191) जी योगेन्द्र कुमार रेड्डी, ईएमई
 (आईसी-72193) कृष्ण कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-72194) हरमिन्दर सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-72195) नवीन कुमार मिश्रा, इंजीनियर्स
 (आईसी-72196) जीवनदीप सिंह त्रेहन, इंजीनियर्स
 (आईसी-72197) भानु शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-72198) ऋषि राज तिवारी, ईएमई

--12 दिसम्बर 2009

- (आईसी-66180) आशीष अग्रवाल, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66183) रविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66186) सम्राट कौशल, आर्टी
 (आईसी-66270) मिलिन्द शर्मा, आर्टी
 (आईसी-66294) सर्वजीत सिंह, आर्टी
 (आईसी-66298) अमन कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66317) अशिक ऋषभ, मैक इन्फैन्ट्री

--17 अप्रैल 2007

- आईसी सं., नाम, आर्म तथा कप्तान दिनांक से
 (आईसी-66055) सरफराज सिंह संघेरा, इन्फैन्ट्री, 20 अक्टूबर 2006
 आईसी सं., नाम तथा आर्म
 (आईसी-66150) अनुपम शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-66151) दिनेश कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-66153) एन अशोक, ईएमई
 (आईसी-66154) आलोक कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-66156) गौरव ठाकुर, सिग्नल्स
 (आईसी-66157) ओम प्रकाश यादव, सिग्नल्स
 (आईसी-66158) गौरव मौदगिल, सिग्नल्स
 (आईसी-66159) सौरभ लोहानी, सिग्नल्स
 (आईसी-66161) अगाशे बिपिन विनय, इंजीनियर्स

(आईसी-66163) अलंकार विलास उमदेकर, सिग्नल्स

(आईसी-66165) विनय कुमार शर्मा, सिग्नल्स

(आईसी-66166) देशमुख योगेन्द्र अनिल, ईएमई

(आईसी-66167) महेश बीए, इंजीनियर्स

(आईसी-66168) संदीप बी जी, ईएमई

(आईसी-66173) अनंथाकेशव बीएन, सिग्नल्स

--16 दिसम्बर 2004

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यूएसईएसओ)

लेफ्टि से कप्तान

डब्ल्यूएस सं, नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि तथा कप्तान दिनांक से

(01280) अनुप्रेक्षा रावत, सिग्नल्स, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01283) नेहा जैन, एएडो, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01285) प्रियंका कंडपाल, एओसी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01287) दीपिका सैनी, एससी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01297) आशा कुनतल, एओसी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01299) शैलजा डोगरा, ईसी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 सितम्बर 2007, 17 सितम्बर 2009

(01303) अमनप्रीत कौर, एओसी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01313) चारुल भट्ट, जेएजी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01314) सुजाता चौधरी, ईसी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 सितम्बर 2007, 17 सितम्बर 2009

(01321) सौमिता गांगुली, ईसी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 सितम्बर 2007, 17 सितम्बर 2009

(01322) संगीता, एससी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01323) वैशाली शर्मा, जेएजी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01330) बेबी पद्मजा थोटा, एओसी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01331) रितिका शर्मा, एओसी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01343) रीतू सोलंकी, एएससी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

(01344) हिमानी लुथरा, आईसी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 सितम्बर 2007, 17 सितम्बर 2009

(01350) उपासना यादव, एएससी, 17 मार्च 2007, डब्ल्यूएसईएसओ-29(एनटी), 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2010

डब्ल्यूएस सं., नाम तथा आम

(01282) चारु शर्मा, सिग्नल्स

(01286) तानिया पॉल चौधरी, सिग्नल्स

(01288) निधि चंडेल, इंजीनियर्स

(01290) सुमन कुमारी, सिग्नल्स

(01291) षोडके माधुरी दत्तात्रेय, सिग्नल्स

(01294) सयेदा फिरासातुन्निसा बेगम, सिग्नल्स

(01295) भावना कुमारी, ईएमई

(01296) दिपाली नेगी, सिग्नल्स

(01302) कामिणी पोखरिया, ईएमई

(01308) शिवानी गर्ग, इंजीनियर्स

(01309) सुमुखी मिसरी, ईएमई

(01316) स्नेहा सुसानिट्टी, सिग्नल्स

(01318) मनदीप कौर मन्न, ईएमई

(01319) पी एन सिरिशा, सिग्नल्स

(01320) जाया मेहता, ईएमई

(01324) रूचिका, ईएमई

(01326) आरती पराशर, इंजीनियर्स

(01334) प्रार्थना सिंह, ईएमई

(01336) रीतिका मल्होत्रा, सिग्नल्स

(01338) मेघा गुप्ता, ईएमई

(01340) मेनन सुनिता रामदास, इंजीनियर्स

(01342) मुंशी नताशा रियाज अहमद, सिग्नल्स

(01345) पूनम शर्मा, सिग्नल्स

(01347) प्रज्ञा शुक्ला, सिग्नल्स

(01349) अमृता सिंह, इंजीनियर्स

(00998) अर्शप्रीत, एएससी

(00999) रीनू तनवर, सिग्नल्स

(01022) मंजू शर्मा, एओसी

(01023) रीति, इंटी

(01025) आशा मेहरा, एओसी

(01031) रीतू परमार, एएससी

(01033) निरजा ओझा, आईसी

(01037) शिखा चौहान, एएडी

(01048) तरुणा ठाकुर, आईसी

(01052) जसमिन सांगवान, इंजीनियर्स

(01056) मीनाक्षी लखेरा, आईसी

(01062) गार्गी प्रियदर्शनी सैकिया, आईसी

--19 मार्च 2010

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक
एमएस-8सी

थल सेना विभाग

सं. 483, दिनांक 29 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-146782पी), 01 मई 2010

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार कलाम सिंह (जेसी-488846पी), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार मेवा सिंह (जेसी-841469एम), 01 मई 2010

नायब सूबेदार करना बहादुर थापा (जेसी-841471के), 01 मई 2010

नायब सूबेदार बालक्रिशनन के (जेसी-841479डब्ल्यू), 01 मई 2010

नायब सूबेदार राम सिंह तोमर (जेसी-145448एफ), 01 मई 2010

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-418111एन), 01 मई 2010

नायब सूबेदार विजय कुमार पान्डे (जेसी-255301एन), 01 मई 2010

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-256863एक्स), 01 मई 2010

--20 मार्च 2010

नायब सूबेदार राजेश्वर सिंह (जेसी-220933ए), 01 मई 2010

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-498657वाई), 01 मई 2010

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 484, दिनांक 29 जुलाई 2010---राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कोर ऑफ सिग्नल्स

स्थायी सूबेदार मेजर (वाई ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार रहमत हुसैन (जेसी-369560डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार जे पदिनहरे वीडू (जेसी-369564एम), 01 जनवरी 2010

सूबेदार यू के के वीत्तिल (जेसी-369874एक्स), 01 जनवरी 2010

सूबेदार सत्यावीर (जेसी-369883वाई), 04 जनवरी 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

सूबेदार तेजवीर सिंह (जेसी-369884एफ), 01 जनवरी 2010

सूबेदार सहदेव प्रसाद (जेसी-370166एक्स), 01 जनवरी 2010

सूबेदार शिशर कुमार गुहा (जेसी-370172एल), 06 फरवरी 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

स्थायी सूबेदार मेजर (एफ ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार हरे राम झा (जेसी-368528पी), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार प्रेम पाल सिंह (जेसी-367959पी), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार राम स्वरूप (जेसी-367966एल), 04 दिसम्बर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार सगट सिंह नेगी (जेसी-368552एल), 01 जनवरी 2010

सूबेदार चक्को ए डी (जेसी-368564ए), 01 जनवरी 2010

सूबेदार राम रतन (जेसी-368565एच), 01 फरवरी 2010

सूबेदार पूनमा राम बिश्नोई (जेसी-368568डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

सूबेदार घीसा राम (जेसी-368570एन), 01 मार्च 2010

सूबेदार एम चक्रापानी रेड्डी (जेसी-368578ए), 01 मार्च 2010

सूबेदार प्रकाश चन्द (जेसी-368579एच), 01 अप्रैल 2010

स्थायी सूबेदार मेजर (ओ पी साईफर) के रैंक में

सूबेदार एस आतक्कंद (जेसी-372362डब्ल्यू), 23 दिसम्बर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार डी एस यादव (जेसी-372495एम), 07 दिसम्बर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार तोमर रनधीर सिंह (जेसी-372521एच), 01 जनवरी 2010

सूबेदार ए अरुणा चलम (जेसी-372613पी), 01 फरवरी 2010

सूबेदार निलकांता दास (जेसी-372732एल), 01 अप्रैल 2010

स्थायी सूबेदार मेजर (ओएसएस) के रैंक में

सूबेदार जयन के एन (जेसी-371647डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

सूबेदार सतपाल शर्मा (जेसी-371653के), 01 जनवरी 2010

सूबेदार हरबंस सिंह (जेसी-371751के), 01 फरवरी 2010

सूबेदार कंचल जया प्रकाश (जेसी-371512पी), 01 मार्च 2010

स्थायी सूबेदार मेजर क्लर्क (एसडी) के रैंक में

सूबेदार ओमकार सिंह (जेसी-370781पी), 01 अप्रैल 2010

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार एल वी कोकते (जेसी-371848पी), 01 फरवरी 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार अलख नाथ सिंह (जेसी-371881एम), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार कृष्णा प्रसाद सिंह (जेसी-371884ए), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार प्रेम नारायण सिंह (जेसी-371889वाई), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार राम पॉल शर्मा (जेसी-371896पी), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार ब्रह्म प्रकाश (जेसी-372090एफ), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार भूप सिंह (जेसी-372088के), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-372089एम), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार देश राज (जेसी-372092एम), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-372105वाई), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार राज कुमार (जेसी-372108एम), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार हरि नारायण (जेसी-372109पी), 03 दिसम्बर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-371480एक्स), 03 दिसम्बर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-371659एल), 01 जनवरी 2010

सूबेदार रंग नाथ कुअर (जेसी-371874डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

सूबेदार ए के मिश्रा (जेसी-371875वाई), 01 जनवरी 2010

सूबेदार करम सिंह (जेसी-372119वाई), 01 फरवरी 2010

सूबेदार वेद प्रकाश यादव (जेसी-372120एन), 01 फरवरी 2010

सूबेदार श्री राम (जेसी-372127एक्स), 01 फरवरी 2010

सूबेदार सूरज भान यादव (जेसी-372129एच), 03 मार्च 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

सूबेदार प्रेमन के वी (जेसी-372132एच), 07 फरवरी 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

सूबेदार के सुब्रामण्यन (जेसी-372136वाई), 01 फरवरी 2010

सूबेदार राम अवतार (जेसी-372139एम), 01 फरवरी 2010

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-372242एक्स), 02 मार्च 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

सूबेदार विजय कुमार (जेसी-372245एल), 01 मार्च 2010

सूबेदार ब्रह्मा नन्द (जेसी-372247डब्ल्यू), 01 मार्च 2010

सूबेदार विजय कुमार कुजुर (जेसी-372249एफ), 01 मार्च 2010

सूबेदार मेथ्यू के एस (जेसी-372534ए), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार परब सुभाष बक्लो (जेसी-372556वाई), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार रनधीर सिंह (जेसी-372559एम), 01 अप्रैल 2010

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार चम्पा राम नायक (जेसी-375772एक्स), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार बिरेंद्र कुमार सिंह (जेसी-375773ए), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार छोटन महतो (जेसी-375774एच), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार राम बहादुर (जेसी-375776एन), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार रबीन्द्र प्रसाद (जेसी-375777डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार राज देओ वर्मा (जेसी-375780डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार टेक चन्द (जेसी-375798एम), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार रंग लाल सिंह (जेसी-375812एन), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार दर्शन कुमार (जेसी-375813डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार रूमेल सिंह (जेसी-375815एफ), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार भागवत दयाल (जेसी-375816के), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार गंगा प्रसाद (जेसी-375818पी), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार शिवा कान्त ओझा (जेसी-375819एक्स), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार मायाधर बेहेर (जेसी-375820एम), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-375822एक्स), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार गुलजार सिंह (जेसी-375823ए), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार अलख नारेन (जेसी-375824एच), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार मधुसुदानन के (जेसी-375826एन), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार राम विनोद सिंह (जेसी-375827डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार आनन्द सिंह बिष्ट (जेसी-375829एफ), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार परमेश्वर तिवारी (जेसी-375832एफ), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार रवीन्द्रन नायर पी के (जेसी-375833के), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-375834एम), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार ए एन प्रसाद (जेसी-375835पी), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार सेहदेव सिंह (जेसी-375838एच), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-375839एल), 28 फरवरी 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सागर मल (जेसी-375840ए), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार राम सेवक (जेसी-375841एच), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-375842एल), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार राम बाबू कुशवाहा (जेसी-375843एन), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार काश्मीर सिंह (जेसी-375844डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

- नायब सूबेदार राम प्रकाश (जेसी-375915एम), 01 फरवरी 2008
- नायब सूबेदार कृष्ण लाल (जेसी-375874एन), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार राम चन्द्र दारा (जेसी-375875डब्ल्यू), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-375876वाई), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार विशम्भर दयाल (जेसी-375877एफ), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार बचासपति शर्मा (जेसी-375878के), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार पदमा नन्द झा (जेसी-375884एक्स), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार जे पी पान्डे (जेसी-375885ए), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार गुलाब सिंह (जेसी-375886एच), 07 मार्च 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम खुशी (जेसी-375888एन), 10 मार्च 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-375889डब्ल्यू), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार डी एन तिवारी (जेसी-375891एन), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार सुदामा रॉय (जेसी-375892डब्ल्यू), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार रघवीर सिंह (जेसी-375895के), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार आर के बिश्नोई (जेसी-375896एम), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार रामनाथ यादव (जेसी-375897पी), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार सत्येन्द्र सिंह (जेसी-375899ए), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार बी एस जी राव (जेसी-375900के), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार लल्लन पान्डे (जेसी-375901एम), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-375902पी), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार हरगोविंद सिंह (जेसी-375903एक्स), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-375904ए), 02 मार्च 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार ऋषि मुनि शर्मा (जेसी-376592एफ), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार बिंदेश्वर प्रसाद (जेसी-375906एल), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार हीरा लाल (जेसी-375907एन), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार फूल सिंह (जेसी-375908डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-375911डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार भोला सिंह (जेसी-375913एफ), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-375912वाई), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार बेअंत सिंह (जेसी-375914के), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-375969एन), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार मनी राम (जेसी-375967एच), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार सी बी त्रिपाठी (जेसी-375968एल), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार पोकर टी एम (जेसी-375970एच), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार बिन्दर पाल (जेसी-375971एल), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-375973डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-376001पी), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार जुनाश पुर्त्य (जेसी-375976के), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार सुरेश दिगम्बर एम (जेसी-375977एम), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार दिनेश सिंह (जेसी-375978पी), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार ज्योति प्रकाश मंडल (जेसी-375979एक्स), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार ख्याली राम (जेसी-375980एम), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार विजेन्द्र कुमार (जेसी-375981पी), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार डी पी विजय कुमार (जेसी-375982एक्स), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार ब्रह्म पाल सिंह (जेसी-375984एच), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-375985एल), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार तरसेम लाल (जेसी-375986एन), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार डी पी दास (जेसी-375987डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार शशी एन ए (जेसी-375988वाई), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार थुलाशीधरण के (जेसी-375989एफ), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार गौतम चक्रवर्ती (जेसी-375990डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार सरवर सिंह (जेसी-375991वाई), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार शशीधरा कुरूप एन आर (जेसी-375994एम), 08 अप्रैल 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

- नायब सूबेदार बाले राम (जेसी-375995पी), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-375996एक्स), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार मनधिर सिंह (जेसी-375997ए), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार डी एस खेतवाल (जेसी-375998एच), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार जगमेल सिंह (जेसी-376000एम), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार राम जन्म सिंह (जेसी-376035एच), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार सोहेन्द्र सिंह (जेसी-376036एल), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार नरेश चन्द्र सिंह (जेसी-376041डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार यशवंत सिंह (जेसी-376042वाई), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार डी बहादुर प्रधान (जेसी-376043एफ), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार सुब्राता कुमार के ई एस (जेसी-376044के), 01 जून 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-376047एक्स), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार टोम प्रकाश (जेसी-376048ए), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार राजेश्वर तिवारी (जेसी-376049एच), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार फट्टा राम भाकर (जेसी-376069डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार केदार नाथ पान्डे (जेसी-376075के), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार वाई केदार ईश्वर (जेसी-376077पी), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार याद राम (जेसी-376080पी), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार जगदीश (जेसी-376081एक्स), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-376084एल), 12 अप्रैल 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार गुरबचन सिंह (जेसी-376085एन), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार प्रेमा नंदन वी (जेसी-376086डब्ल्यू), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-376087वाई), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-376088एफ), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार अमी लाल (जेसी-376089के), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार अरविन्द सिंह (जेसी-376218वाई), 13 मई 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार गुरभजन सिंह (जेसी-376140वाई), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-376141एफ), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार एस सी एस कुशवाह (जेसी-376142के), 15 मई 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार मुरलीधरण के एम (जेसी-376145एक्स), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार निल रतन बाला (जेसी-376147एच), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार सत्या कुमार (जेसी-376150एच), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार जगदीश गिल (जेसी-376151एल), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार पी के साहू (जेसी-376153डब्ल्यू), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार एम डी मण्डेजुद्दीन (जेसी-376155एफ), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-376156के), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार धमेन्द्र सिंह (जेसी-376159एक्स), 18 मई 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार सुलेन्द्र सिंह (जेसी-376160एम), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जेसी-376161पी), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार श्री कुमार के के (जेसी-376162एक्स), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार रामानुज वर्मा (जेसी-376163ए), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार आर के सिंह चौहान (जेसी-376164एच), 15 मई 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-376165एल), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार सत्या पाल (जेसी-376166एन), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-376167डब्ल्यू), 01 मई 2008

- नायब सूबेदार जयवीर सिंह (जेसी-376168वाई), 05 मई 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार एस डी सिंह चौहान (जेसी-376170डब्ल्यू), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद (जेसी-376171वाई), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार मधुरेश कुमार (जेसी-376172एफ), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार मधुसुदन चन्दा (जेसी-376146ए), 02 नवम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार नेक मोहम्मद (जेसी-376148एल), 02 नवम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार देवेन्द्र प्रकाश (जेसी-375665डब्ल्यू), 02 मई 2008
- नायब सूबेदार मकबूल अहमद (जेसी-375684एफ), 02 मई 2008
- नायब सूबेदार एम डी नूरमोहम्मद अली (जेसी-375744एल), 02 मई 2008
- नायब सूबेदार मोहिंदर पाल सिंह (जेसी-375795वाई), 05 मई 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम सिंह दहिया (जेसी-375828वाई), 02 मई 2008
- नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-375831वाई), 03 मई 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार धरमवीर सिंह (जेसी-375836एक्स), 06 मई 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-375837ए), 02 मई 2008
- नायब सूबेदार जगरूप सिंह (जेसी-375882एम), 02 मई 2008
- नायब सूबेदार एल वेलू (जेसी-375893वाई), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार सोमन के (जेसी-375972एन), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार धुबा शाहा (जेसी-375983ए), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार राजेन्द्र लाल चंदेल (जेसी-376073वाई), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार हिशाम सिंह (जेसी-376154वाई), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार जय भगवान (जेसी-376158पी), 02 जून 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम कनवर नरवाल (जेसी-376173के), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार रिखी पाल (जेसी-376174एम), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार राम चंद्रा सरोज (जेसी-376175पी), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार कन्हैया लाल राम (जेसी-376177ए), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-376178एच), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार आर प्रताप कुमार (जेसी-376180ए), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार उमेश लाल सिंह (जेसी-376182एल), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार सुन्दा राम (जेसी-376183एन), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार साहिब सिंह (जेसी-376184डब्ल्यू), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार जे के पाठक (जेसी-376197एन), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-376198डब्ल्यू), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार सोना राम कुराश्रा (जेसी-376200एच), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार राम निवास वैष्णव (जेसी-376201एल), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार जगवीर सिंह (जेसी-376202एन), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार प्रमोद कुमार (जेसी-376204वाई), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार रक्षपाल सिंह (जेसी-376205एफ), 04 जून 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-376206के), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार जिले सिंह दारा (जेसी-376207एम), 05 जून 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार अरविन्द कुमार सिंह (जेसी-376208पी), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार राधे श्याम पान्डे (जेसी-376209एक्स), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार सतवीर सिंह (जेसी-376210एम), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार रामा शंकर यादव (जेसी-376211पी), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार नफे सिंह (जेसी-376212एक्स), 02 जून 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

- नायब सूबेदार हरदम सिंह (जेसी-376214एच), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार मोहन दास (जेसी-376215एल), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार योगेन्द्र सिंह (जेसी-376216एन), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार एस के ईशाक अली (जेसी-376236एफ), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार सत्यापाल (जेसी-376237के), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-376238एम), 01 जून 2008
- नायब सूबेदार मिथिलेश कुमार (जेसी-376239पी), 03 जुलाई 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-376240के), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार अबदुर रहमान एस के (जेसी-376241एम), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार राम चन्द सिंह (जेसी-376242पी), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार गणेशजी ओझा (जेसी-376246एल), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार सिद्धार्थ चलावौडी (जेसी-376247एन), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-376283वाई), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार बी खातिर वेलु (जेसी-376284एफ), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-376285के), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार राज कुमार गुर्जर (जेसी-376288एक्स), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार पलविन्दर सिंह (जेसी-376289ए), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार तेज कुमार (जेसी-376290पी), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-376291एक्स), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-376292ए), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार बलवीर गिरी (जेसी-376293एच), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार पारस राम (जेसी-376294एल), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-376295एन), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार आर सी चौबे (जेसी-376297वाई), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार ओम कनवर (जेसी-376298एफ), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार दिलबाग (जेसी-376299के), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार रमेश प्रसाद गुप्ता (जेसी-376300एन), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार गुरदीप सिंह (जेसी-376301डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-376316वाई), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार श्रीकान्त नायर बी (जेसी-376318के), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार बेलप्पा कजागर (जेसी-376319एम), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार लक्ष्मी नारेन (जेसी-376320एफ), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार राकेशधर (जेसी-376321के), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-376324एक्स), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार एच सी मिश्रा (जेसी-376325ए), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार एन पी त्रिपाठी (जेसी-376326एच), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-376327एल), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार डी एस रावत (जेसी-376328एन), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार के एस चौहान (जेसी-376329डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार टोडामल विजय के एल (जेसी-376330एल), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार यू सी अग्निहोत्री (जेसी-376331एन), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार संग्राम सिंह (जेसी-376332डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार देओनारायण सिंह (जेसी-376334एफ), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-376335के), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार विनचनकर अरूण (जेसी-376336एम), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार अमरजीत (जेसी-376347वाई), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार ओमकार पटेल (जेसी-376348एफ), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार ओम प्रकाश सिहाग (जेसी-376349के), 02 अगस्त 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-376352के), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार टी एस भाऊ (जेसी-376353एम), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार उमेश चन्द (जेसी-376354पी), 01 अगस्त 2008

- नायब सूबेदार शंकरा नारायण के (जेसी-376357एच), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार कृष्णा कुमार द्विवेदी (जेसी-376396एफ), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार विजय प्रताप (जेसी-376397के), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-376401एफ), 02 नवम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार आशिनि कान्ता डेका (जेसी-376403एम), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार शिव राम (जेसी-376248डब्ल्यू), 29 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-376404पी), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-376406एच), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार तारा चन्द (जेसी-376407एच), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-376408एल), 02 नवम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राजिन्दर चन्द कटोच (जेसी-376410एच), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार सुधीर डी (जेसी-376411एल), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार एम के शर्मा (जेसी-376412एन), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार अजय कुमार राय (जेसी-376414वाई), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार सुदेश कुमार (जेसी-376415एफ), 08 सितम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राज पाल (जेसी-376417एम), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-376418पी), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार एस एस शनिग्राही (जेसी-376419एक्स), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार नरवदेशवर पान्डे (जेसी-376420एम), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार के एस शेखावत (जेसी-376421पी), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार रवीन्द्र कुमार (जेसी-376422एक्स), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-376423ए), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-376425एल), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार रवि सिंह (जेसी-376426एन), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार दुनी चन्द (जेसी-376427डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार अंग्रेज सिंह (जेसी-376428वाई), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार कृष्ण कुमार वर्मा (जेसी-376431वाई), 01 सितम्बर 2008
- नायब सूबेदार अनंताभ मिश्रा (जेसी-376432एफ), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-376433के), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार बुद्धी सिंह (जेसी-376434एम), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार सत्या नन्द यादव (जेसी-376451एम), 02 अक्टूबर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-376456एल), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार राम भरोसे लाल (जेसी-376457एन), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार महादिक शाहजी के (जेसी-376458डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार धरम राज (जेसी-376460एन), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार उमेश चन्द्र बर्मन (जेसी-376461डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार श्री भगवान (जेसी-376462वाई), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार उदय वीर सिंह (जेसी-376463एफ), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जेसी-376464के), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार आर पी चौधरी (जेसी-376465एम), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार विष्णु कुमार थापा (जेसी-376466पी), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार रघुनाथ सिंह (जेसी-376467एक्स), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार एस एस नारायण राव (जेसी-376468ए), 01 अक्टूबर 2008

- नायब सूबेदार जगदीश कुमार (जेसी-376469एच), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार जे पी सिंह (जेसी-376470एक्स), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार जय किशन (जेसी-376471ए), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार अनिमेष बिश्वास (जेसी-376475डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार इन्द्रा नारेन सिंह (जेसी-376476वाई), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार लखमी चन्द (जेसी-376478के), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-376479एम), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार फूल कुमार (जेसी-376480एफ), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार शशी कुमार पाठक (जेसी-376482एम), 06 जनवरी 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम प्रभात त्रिपाठी (जेसी-376509वाई), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार गौधन सिंह (जेसी-376510एन), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार वरिन्दर कुमार (जेसी-376511डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-376512वाई), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार एस एन सिंह (जेसी-376513एफ), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार राधा पति यादव (जेसी-376514के), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार चन्द्र भान शर्मा (जेसी-376515एम), 01 अक्टूबर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार भगवान राम मोथस्रा (जेसी-376516पी), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार पारितोष पॉल (जेसी-376517एक्स), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार खिलु राम (जेसी-376518ए), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार लखमी चन्द (जेसी-376519एच), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार हरीश चन्द्र सिंह (जेसी-376520एक्स), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार सुधीर कुमार झा (जेसी-376521ए), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार राम प्रवेश प्रसाद (जेसी-376522एच), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार राम फूल सिंह (जेसी-376523एल), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम कुमार सिंह (जेसी-376524एन), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-376525डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार बी के सिंह (जेसी-376526वाई), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार सुब्राता सिन्हा (जेसी-376527एफ), 03 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार शेर दीन (जेसी-376528के), 01 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार दिगर सिंह (जेसी-376529एम), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-376530एफ), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-376532एम), 01 दिसम्बर 2008
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

- नायब सूबेदार लक्ष्मण एस (जेसी-376533पी), 01 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-376534एक्स), 01 दिसम्बर 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार साधु राम पुनडीर (जेसी-376535ए), 01 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार सुलोचन कुमार (जेसी-376536एच), 01 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार प्रीतम चन्द (जेसी-376537एल), 01 दिसम्बर 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम बिलास सिंह (जेसी-376539डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार नरेश चन्द्र (जेसी-375881के), 12 नवम्बर 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम फल (जेसी-376169एफ), 02 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार ब्रजेन्द्र सिंह (जेसी-376176एक्स), 02 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार चरण सिंह (जेसी-376282डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार बजरंग (जेसी-376317एफ), 02 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार राघवेन्द्र (जेसी-376322एम), 10 नवम्बर 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार वर्गीश कुरियन (जेसी-376351एफ), 02 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार जे के दोहारे (जेसी-376355एक्स), 02 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार शिव प्रसाद (जेसी-376356ए), 02 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार सत्या नारेन शर्मा (जेसी-376399पी), 02 नवम्बर 2008
- नायब सूबेदार ए के शर्मा (जेसी-376413डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008
- नायब सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-376416के), 01 दिसम्बर 2008
- नायब सूबेदार राजिन्द्र कुमार (जेसी-376429एफ), 01 दिसम्बर 2008
- नायब सूबेदार धारा सिंह (जेसी-376481के), 12 दिसम्बर 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार एम सुब्रमण्यन (जेसी-376538एन), 01 दिसम्बर 2008
- नायब सूबेदार मुन्ना लाल (जेसी-376540एल), 16 दिसम्बर 2008
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार अबदुर रहमान (जेसी-376541एन), 01 दिसम्बर 2008
- नायब सूबेदार रामाशीष चौधरी (जेसी-376542डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008
- नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-376543वाई), 01 दिसम्बर 2008
- नायब सूबेदार एस मुथू मरियाअप्पन (जेसी-376545के), 01 दिसम्बर 2008
- नायब सूबेदार विश्वा कर्मा (जेसी-376546एम), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार बी एस कसवान (जेसी-376547पी), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार उदय शंकर सिंह (जेसी-376568एल), 30 जनवरी 2009
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार छेदी लाल (जेसी-376569एन), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-376570एच), 14 जनवरी 2009
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार शुभान डे (जेसी-376571एल), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार विद्याधर बर्मन (जेसी-376572एन), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार विश्वानाथ पान्डे (जेसी-376573डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-376574वाई), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार रोहतास सिंह (जेसी-376575एफ), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार राजबीर (जेसी-376576के), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार जेएनएस नखत सिंह (जेसी-376577एम), 10 जनवरी 2009
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार अनूप सिंह (जेसी-376579एक्स), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार श्री भगवान (जेसी-376580एम), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार भास्कर सिंह (जेसी-376581पी), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार अजय कुमार खैन (जेसी-376582एक्स), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-376583ए), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार दिनेश कुमार सिंह (जेसी-376584एच), 01 फरवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रनवीर (जेसी-376585एल), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार चन्द्रजीत सिंह (जेसी-376586एन), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-376588वाई), 13 फरवरी 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के सी साहू (जेसी-376589एफ), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार पदमा कुमार ए (जेसी-376590डब्ल्यू), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार दया प्रसाद सिंह (जेसी-376591वाई), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-376609के), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार राधे श्याम कुम्हार (जेसी-376610वाई), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार सदानन्दन के (जेसी-376611एफ), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार सुल्तान सिंह यादव (जेसी-376612के), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-376613एम), 22 फरवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रामहित (जेसी-376615एक्स), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार बीआरएसएस सिंह (जेसी-376634एच), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार एस के तिवारी (जेसी-376636एन), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार नारायण दत्त शर्मा (जेसी-376638वाई), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-376640डब्ल्यू), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार सत्या नारायण गुप्ता (जेसी-376641वाई), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार कुरियन एन्टोनी (जेसी-376642एफ), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-376643के), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार ओम प्रकाश तिवारी (जेसी-376644एम), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार जयवीर (जेसी-376645पी), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार सुन्दर लाल (जेसी-376548एक्स), 15 मार्च 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जगेन्द्र सिंह (जेसी-376646एक्स), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार बी एस रोतेला (जेसी-376647ए), 03 मार्च 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार पाली (जेसी-376648एच), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार एम अनवर आलम (जेसी-376649एल), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार लौदू राम (जेसी-376650ए), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार सरवन कुमार (जेसी-376653एन), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-376654डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-376656एफ), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार डी एल चलोत्रा (जेसी-376657के), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार खिम सिंह चौहान (जेसी-376660के), 25 मार्च 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-376662पी), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार जय प्रकाश राय (जेसी-376663एक्स), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-376664ए), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार सिंह (जेसी-376665एच), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार एल एस कुशवाहा (जेसी-376667एन), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-376668डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-376669वाई), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-376711एम), 09 अप्रैल 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-376712पी), 01 अप्रैल 2009

- नायब सूबेदार महिमा सिंह (जेसी-376713एक्स), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार राधा मोहन सिंह (जेसी-376715एच), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार योगेन्द्र कुमार (जेसी-376719वाई), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार विजयन पी टी (जेसी-376720एन), 08 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार गीता राम सती (जेसी-376721डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार शंभू नाथ शर्मा (जेसी-376723एफ), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार पूरना चन्द्रा बिस्वाल (जेसी-376724के), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार जॉर्ज ई जे (जेसी-376725एम), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-376728ए), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार टी श्रीनिवास (जेसी-376729एच), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार रमेश पाल सिंह (जेसी-376730एक्स), 08 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-376731ए), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार वासु देव (जेसी-376733एल), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार सरजीवन परमार (जेसी-376735डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार सतीश चंद्रा पाल (जेसी-376788पी), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार लालासाब फकीरसाब इडिजिनल (जेसी-376790एन), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार अमेन्द्रा किशोर (जेसी-376791पी), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार सत्या पाल सिंह (जेसी-376793ए), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार बालकरण सिंह (जेसी-376794एच), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार लक्ष्मन सिंह (जेसी-376795एल), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार राम नरेश सिंह (जेसी-376796एन), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार केवल सिंह (जेसी-376797डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार उपेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-376798वाई), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार एस सी श्रीवास्तव (जेसी-376800एल), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-376802डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार विपिन चन्द्र (जेसी-376803वाई), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार हरे राम सिंह (जेसी-376804एफ), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-376805के), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार भूमि देव (जेसी-376806एम), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार अशोक कुमार शर्मा (जेसी-376807पी), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार जयवीर सिंह (जेसी-376808एक्स), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार सोनोने शंकर नाथू (जेसी-376810पी), 06 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार रंजीत कुमार मण्डल (जेसी-376844एच), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार शिंदे शंकर महिपत (जेसी-376846एन), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार यादव अशोक लक्ष्मन (जेसी-376847डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-376849एफ), 28 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार थानजावुरू एस गणेश (जेसी-376850डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार गिरीधारी सिंह (जेसी-376851वाई), 01 मई 2009
- नायब सूबेदार सुजीत कुमार देवनाथ (जेसी-376852एफ), 01 मई 2009
- नायब सूबेदार राजन सिंह (जेसी-376853के), 17 मई 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार बिकाश चंद्रा भंडारी (जेसी-376855पी), 01 मई 2009
- नायब सूबेदार जे पी गुप्ता (जेसी-376854एम), 12 मई 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार बिर सिंह (जेसी-376856एक्स), 01 जून 2009

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-376857ए), 01 जून 2009
 नायब सूबेदार राम अशीष राम (जेसी-376859एल), 01 जून 2009
 नायब सूबेदार सुनील कुमार सिंह (जेसी-376861एच), 01 जून 2009
 नायब सूबेदार रविन्द्र पाल सिंह (जेसी-376863एन), 01 जून 2009
 नायब सूबेदार अशोक कुमार घोष (जेसी-376864डब्ल्यू), 01 जून 2009
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-376865वाई), 01 जून 2009
 नायब सूबेदार मन मोहन टिक्कू (जेसी-376866एफ), 09 जून 2009
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)
 नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-376869पी), 01 जून 2009
 नायब सूबेदार देवी दयाल वर्मा (जेसी-376870के), 01 जून 2009
 नायब सूबेदार उत्तम कुमार मलिक (जेसी-376881डब्ल्यू), 01 जून 2009
 नायब सूबेदार तुकेश्वर गोगोई (जेसी-376882वाई), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार राम सजीवन मिश्रा (जेसी-376884के), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जेसी-376885एम), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार के डी चौहान (जेसी-376886पी), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार लोक नाथ महाराणा (जेसी-376887एक्स), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार शिव पूजन (जेसी-376888ए), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार प्रशांता मंडल (जेसी-376889एच), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार रामानंद (जेसी-376890एक्स), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार उमेश चौहान (जेसी-376891ए), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार जीत सिंह (जेसी-376892एच), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार त्रिलोक चंद (जेसी-376893एल), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार नेत राम (जेसी-376894एन), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-376895डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009
 नायब सूबेदार निशान सिंह (जेसी-376896वाई), 01 जुलाई 2009

सेना वायु रक्षा कोर

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार बलकार सिंह (सं. 14387068के अब जेसी-300811के),
 22 जून 2008/08 जून 2008*

बीएचएम दिवान सिंह (सं. 14386252एच अब जेसी-300812एम),
 17 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008*
 बीएचएम देव दासन एम (सं. 14394910वाई अब जेसी-300813पी),
 23 फरवरी 2009/01 दिसम्बर 2008*
 बीएचएम बलकार सिंह (सं. 14390212वाई अब जेसी-300814एक्स),
 22 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009*
 हवलदार सुगिथ कुमार आर एस (सं. 14405581डब्ल्यू अब जेसी-300815ए), 09 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009*
 हवलदार डोन्नर शिवाजी विठोबा (सं. 14408666एक्स अब जेसी-300816एच), 17 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009*
 हवलदार एम चंद्रा मोहना रेड्डी (सं. 13979079एच अब जेसी-300817एल), 25 मार्च 2009/24 फरवरी 2009*
 हवलदार जया कुमार एस (सं. 14386208वाई अब जेसी-300818एन),
 04 मार्च 2009/01 मार्च 2009*
 बीएचएम राजेंद्र सिंह (सं. 14389751एच अब जेसी-300819डब्ल्यू),
 04 मार्च 2009/01 मार्च 2009*
 बीएचएम नारा सिंह यादव (सं. 14371648पी अब जेसी-300820एन),
 30 मार्च 2009/05 मार्च 2009*
 बीएचएम जय प्रकाश (सं. 15101840एन अब जेसी-300821एन),
 01 अप्रैल 2009/01 जनवरी 2009*
 हवलदार नायका नारन भाई छगन भाई (सं. 14385005एच अब जेसी-300822डब्ल्यू), 09 मार्च 2009/02 फरवरी 2009*
 हवलदार जिलेदार सिंह (सं. 14388279वाई अब जेसी-300823वाई),
 12 फरवरी 2009/07 फरवरी 2009*
 हवलदार पुक्कला राजा राव (सं. 13979400एफ अब जेसी-300824एफ),
 25 मार्च 2009
 आरएचएम राम सिया (सं. 14393019एक्स अब जेसी-300825के),
 11 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009*
 बीएचएम करतार सिंह (सं. 14383508पी अब जेसी-300826एम),
 09 मार्च 2009/01 मार्च 2009*
 हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 14392820वाई अब जेसी-300827पी),
 21 मार्च 2009/01 मार्च 2009*
 हवलदार महीपाल सिंह (सं. 14392223के अब जेसी-300828एक्स),
 12 मार्च 2009/01 मार्च 2009*
 हवलदार सुरिंदर सिंह (सं. 15100763एक्स अब जेसी-300829ए),
 04 मार्च 2009/01 मार्च 2009*
 आरएचएम दुर्विजय सिंह (सं. 15103741के अब जेसी-300830पी),
 04 मार्च 2009/01 मार्च 2009*
 बीएचएम सोम नाथ (सं. 14390354डब्ल्यू अब जेसी-300831एक्स),
 06 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009*

- हवलदार सुखचैन सिंह (सं. 14386598एम अब जेसी-300832ए),
06 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *
- हवलदार ए अरोसिकिया डेविड (सं. 14403788एक्स अब जेसी-300833एच), 04 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *
- हवलदार राजब्रत सिंह तोमर (सं. 15105214एफ अब जेसी-300834ए),
12 मई 2009/01 जुलाई 2008 *
- आरएचएम हरीश चंद्र जोशी (सं. 15767708एल अब जेसी-300835एन),
05 मई 2009/01 मई 2009 *
- आरएचएम पर्वारि (सं. 14410026एम अब जेसी-300836डब्ल्यू),
07 मई 2009/01 मई 2009 *
- आरएचएम सुबाश चंद्र रोडल (सं. 14412413ए अब जेसी-300837वाई),
07 मई 2009/01 मई 2009 *
- बीएचएम जगजित सिंह (सं. 15110024वाई अब जेसी-300838एफ),
07 अप्रैल 2009
- बीएचएम नारायण ढाबले (सं. 14387299ए अब जेसी-300839के),
08 अगस्त 2008
- बीएचएम वीर सिंह बैनीवाल (सं. 14384290ए अब जेसी-300840वाई),
06 फरवरी 2009
- हवलदार राम कृष्णा द्विवेदी (सं. 14386186एच अब जेसी-300841एफ),
21 अप्रैल 2009
- हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 15100317डब्ल्यू अब जेसी-300842के),
14 मार्च 2009
- हवलदार लाल चंद (सं. 15105109एल अब जेसी-300843एम),
29 मार्च 2009
- हवलदार प्रकाश भूजेल (सं. 14387477एक्स अब जेसी-300844पी),
20 अप्रैल 2009
- हवलदार राम अवतार (सं. 14388044एम अब जेसी-300845एक्स),
01 अप्रैल 2009
- बीएचएम बिनोद कुमार (सं. 14379903एल अब जेसी-300846ए),
01 अप्रैल 2009
- बीएचएम दंडापानी डी (सं. 14383533एन अब जेसी-300847एच),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार केवल सिंह (सं. 14387137पी अब जेसी-300848एल),
02 अप्रैल 2009
- हवलदार राम कुमार तमांग (सं. 14404769वाई अब जेसी-300849एन), 01 अप्रैल 2009
- बीएचएम कृष्ण मोहन पांडे (सं. 14384902एम अब जेसी-300850एच), 29 अप्रैल 2009
- बीएचएम सुभाष चंद (सं. 14388781एन अब जेसी-300851एल),
5 मई 2009/01 अक्टूबर 2008 *
- आरएचएम विजेंदर सिंह (सं. 14383411के अब जेसी-300852एन),
01 जनवरी 2009
- हवलदार अमर नाथ तिवारी (सं. 14393659एफ अब जेसी-300853डब्ल्यू), 01 जून 2009/01 मार्च 2009 *
- हवलदार कुलदीप चंद ठाकुर (सं. 14388254एम अब जेसी-300854वाई), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार मुन्ना लाल (सं. 14391693एच अब जेसी-300855एफ),
13 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *
- हवलदार हरजिंदर सिंह (सं. 14396287एम अब जेसी-300856के),
03 मई 2009/11 अप्रैल 2009 *
- आरएचएम ओम प्रकाश खुशवाहा (सं. 14379208डब्ल्यू अब जेसी-300857एम), 01 मई 2009
- हवलदार सूर्य नारायण साह (सं. 14393239एफ अब जेसी-300858पी),
01 मई 2009
- आरएचएम भाग सिंह (सं. 14401345एक्स अब जेसी-300859एक्स),
01 जून 2009
- बीएचएम ए पी कृष्णन (सं. 14494780डब्ल्यू अब जेसी-300860एम),
01 जून 2009
- बीएचएम गुलाब चंदर सिंह खुशवाहा (सं. 15101674एल अब जेसी-300861पी), 01 जून 2009
- हवलदार राजेश कुमार शर्मा (सं. 14396474एल अब जेसी-300862एक्स), 01 अक्टूबर 2008
- हवलदार अभंग संजय विठ्ठल (सं. 15106809एल अब जेसी-300863ए), 01 जून 2009
- हवलदार राधा कृष्णन ए (सं. 15104570पी अब जेसी-300864एच),
20 मई 2009
- हवलदार अटकरे विजय ज्ञानोबा (सं. 14402922एल अब जेसी-300865एल), 01 जुलाई 2009
- हवलदार भगवान दास (सं. 14400569एल अब जेसी-300866एन),
01 जुलाई 2009
- आरएचएम कृष्णा गोपाल विश्वास (सं. 15767075एच अब जेसी-300867डब्ल्यू), 08 जून 2009
- हवलदार अफसर अली मोण्डल (सं. 15113025एम अब जेसी-300868वाई), 19 जून 2009
- हवलदार रेघु के एन (सं. 15103547पी अब जेसी-300869एफ),
07 जुलाई 2009
- आरएचएम नवीन कुमार शर्मा (सं. 15766270एन अब जेसी-300870डब्ल्यू), 07 जुलाई 2009
- हवलदार मोहम्मद हनीफ (सं. 14388758ए अब जेसी-300871वाई),
01 मई 2009/01 सितम्बर 2008 *

हवलदार उपेंद्र सिंह (सं. 13978469वाई अब जेसी-300872एफ),
01 जनवरी 2009/20 नवम्बर 2008 *

हवलदार गजेंद्र जोशी (सं. 14402820पी अब जेसी-300873के),
07 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

बीएचएम रघवीर सिंह (सं. 14399334के अब जेसी-300874एम),
23 मई 2009/11 मार्च 2009 *

बीएचएम कृष्ण प्रताप सिंह (सं. 14378472एक्स अब जेसी-300875पी),
20 जून 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 15114780एच अब जेसी-300876एक्स),
25 मई 2009/04 अप्रैल 2009 *

बीएचएम गोकुल चंद्र सामंता (सं. 14400792पी अब जेसी-300877ए),
25 मई 2009/26 अप्रैल 2009 *

बीएचएम महाजन वासुदेव गंगाराम (सं. 14388656के अब जेसी-300878एच), 10 जून 2009/20 मई 2009 *

बीएचएम बिजया कुमार साहू (सं. 14382899वाई अब जेसी-300879एल), 01 जून 2009

हवलदार जगदीश चंद जाट (सं. 14388705एफ अब जेसी-300880ए),
08 जून 2009/01 जून 2009 *

बीएचएम सोमा सुंदरन एम (सं. 14386856एफ अब जेसी-300881एच), 02 जून 2009/01 जून 2009 *

धर्मशिक्षक अजय कुमार (सं. 3002129पी अब जेसी-300882एल),
06 सितम्बर 2008

*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

हवलदार संदीप थापा (सं. 14387034डब्ल्यू अब जेसी-300735एच),
23 दिसम्बर 2008/16 नवम्बर 2008 *

हवलदार स्वराज शर्मा (सं. 14392516पी अब जेसी-300736एल),
04 दिसम्बर 2008/17 नवम्बर 2008 *

हवलदार बाबाजी चरन साहू (सं. 13978427एम अब जेसी-300737एन), 18 दिसम्बर 2008/20 नवम्बर 2008 *

आरएचएम बलवीर सिंह (सं. 14386529डब्ल्यू अब जेसी-300738डब्ल्यू), 29 दिसम्बर 2008/25 नवम्बर 2008 *

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 14388353पी अब जेसी-300739वाई),
27 दिसम्बर 2008/25 नवम्बर 2008 *

हवलदार नारायण सिंह दासिला (सं. 14396120एच अब जेसी-300740एन), 01 जनवरी 2009/25 नवम्बर 2008 *

हवलदार ओम प्रकाश यादव (सं. 14380035डब्ल्यू अब जेसी-300741डब्ल्यू), 05 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

बीएचएम राउत सन्तोष शेषराव (सं. 15105252एक्स अब जेसी-300742वाई), 07 जनवरी 2009/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार मोहम्मद महबूब सूभानि (सं. 14394577एल अब जेसी-300743एफ), 19 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

बीएचएम अश्वनि कुमार (सं. 14389278एच अब जेसी-300744के),
29 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार दुर्गेश पाण्डे (सं. 14386028डब्ल्यू अब जेसी-300745एम),
05 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार बलविंदर सिंह (सं. 14404912ए अब जेसी-300746पी),
23 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

बीएचएम तम्मीनानी हरीनाद (सं. 15100448एफ अब जेसी-300747एक्स), 01 जनवरी 2009

आरएचएम जी एन मनिगंदन (सं. 14412018एम अब जेसी-300748ए), 21 जनवरी 2009/14 जनवरी 2009 *

हवलदार देवेंद्र पाल (सं. 14401799एल अब जेसी-300749एच),
14 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *

बीएचएम रोहतास सिंह (सं. 14385646पी अब जेसी-300750एक्स),
13 अक्टूबर 2008/07 सितम्बर 2008 *

हवलदार करुणा गरन वी (सं. 14401102एम अब जेसी-300751ए),
18 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

आरएचएम बिक्रम सिंह (सं. 15100749एल अब जेसी-300752एच),
12 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

आरएचएम मिर्जा रिआजुद्दीन (सं. 14392681ए अब जेसी-300753एल), 19 दिसम्बर 2008/18 नवम्बर 2008 *

बीएचएम मोहम्मद इश्तीयादु मोहम्मद अमीन (सं. 15107940पी अब जेसी-300754एन), 29 दिसम्बर 2008/30 नवम्बर 2008 *

आरएचएम सनम श्रीनीवासुल रेड्डी (सं. 14387349ए अब जेसी-300755डब्ल्यू), 17 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

बीएचएम हरी नारायण राठौर (सं. 14392486एच अब जेसी-300756वाई), 26 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 14392207एम अब जेसी-300757एफ),
17 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

बीएचएम रोशन लाल (सं. 14394400एक्स अब जेसी-300758के),
10 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

आरएचएम नरेश कुमार (सं. 14384057एम अब जेसी-300759एम),
24 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार नरेन्द्र प्रसाद पाठक (सं. 15105118एम अब जेसी-300760एफ), 29 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार सत्यविर सिंह (सं. 14399833एन अब जेसी-300761के),
22 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

बीएचएम जयपाल सिंह (सं. 14394022के अब जेसी-300762एम),
01 जनवरी 2009

- बीएचएम दामू अदि नारायण (सं. 14492642डब्ल्यू अब जेसी-300763पी), 01 जनवरी 2009
- बीएचएम धर्मेन्द्र कुमार (सं. 14391706पी अब जेसी-300764एक्स), 01 जनवरी 2009
- हवलदार जी जगन्नाथ (सं. 14405178के अब जेसी-300765ए), 04 जनवरी 2009
- हवलदार दया राम (सं. 14390574ए अब जेसी-300766एच), 01 जनवरी 2009
- हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 14384762एल अब जेसी-300767एल), 24 जनवरी 2009
- हवलदार पी एम माने (सं. 14396637एन अब जेसी-300768एन), 15 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *
- आरएचएम मदन लाल यादवा (सं. 14411721एन अब जेसी-300769डब्ल्यू), 19 जनवरी 2009/14 जनवरी 2009 *
- हवलदार रमेश कुमार (सं. 14390459ए अब जेसी-300770एल), 13 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- हवलदार दीपक कुमार (सं. 2887480डब्ल्यू अब जेसी-300771एन), 13 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- हवलदार चंद्र पाल सिंह ठाकुर (सं. 14401817एच अब जेसी-300772डब्ल्यू), 12 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- आरएचएम सुशील कुमार (सं. 15761898एम अब जेसी-300773वाई), 14 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- आरएचएम राम कुमार (सं. 14394048वाई अब जेसी-300774एफ), 13 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- आरएचएम सेल्वामूर्थी एस (सं. 14412927एक्स अब जेसी-300775के), 16 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- हवलदार एल फोनि भुसन सिंगा (सं. 15109008पी अब जेसी-300776एम), 07 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *
- हवलदार रामनिरंजन पटेल (सं. 14397150एम अब जेसी-300777पी), 01 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *
- हवलदार भगवान सहाय (सं. 14378992एच अब जेसी-300778एक्स), 09 सितम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 *
- बीएचएम हरीश चंद्र (सं. 14375252एच अब जेसी-300779ए), 30 दिसम्बर 2009/30 नवम्बर 2009 *
- हवलदार कमलन टी (सं. 14386026एल अब जेसी-300780पी), 17 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *
- हवलदार राम सिंह (सं. 15104893एक्स अब जेसी-300781एक्स), 30 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *
- हवलदार ललित सिंह (सं. 14388257ए अब जेसी-300782ए), 22 जनवरी 2009/05 दिसम्बर 2008 *
- बीएचएम कलांली मारवेन (सं. 14388920एम अब जेसी-300783एच), 09 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *
- बीएचएम कृष्ण लाल कुमार (सं. 14383897ए अब जेसी-300784एल), 09 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *
- बीएचएम बिलाट प्रसाद सिंह (सं. 14379178के अब जेसी-300785एन), 01 जनवरी 2009
- बीएचएम उन्नी कृष्णन टी (सं. 14392334एफ अब जेसी-300786डब्ल्यू), 20 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *
- बीएचएम जी मधु (सं. 13978393के अब जेसी-300787वाई), 05 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *
- हवलदार जयबीर सिंह (सं. 14387526पी अब जेसी-300788एफ), 01 जनवरी 2009
- हवलदार सतबीर सिंह (सं. 14388066एल अब जेसी-300789के), 15 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *
- आरएचएम बिशन सिंह (सं. 15102087एम अब जेसी-300790वाई), 07 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- हवलदार सत्य पाल (सं. 15100768डब्ल्यू अब जेसी-300791एफ), 10 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- आरएचएम डी देवराजन (सं. 14391515ए अब जेसी-300792के), 18 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- बीएचएम गिरधारी लाल (सं. 14395705के अब जेसी-300793एम), 11 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- आरएचएम मुन्ना सिंह (सं. 14394482एल अब जेसी-300794पी), 10 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- बीएचएम आजाद सिंह (सं. 14394536पी अब जेसी-300795एक्स), 10 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- हवलदार मधुसूदन एम के (सं. 14394546एल अब जेसी-300796ए), 12 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- हवलदार धर्म पाल (सं. 14405372वाई अब जेसी-300797एच), 10 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- हवलदार बिजय बहादुर (सं. 14392151एल अब जेसी-300798एल), 17 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *
- आरएचएम अमर नाथ (सं. 14409107ए अब जेसी-300799एन), 24 जनवरी 2009/14 जनवरी 2009 *
- हवलदार मंगू मुरमु (सं. 15105910वाई अब जेसी-300800एक्स), 12 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *
- आरएचएम प्रदीप कुमार बेहरा (सं. 14413668एम अब जेसी-300801ए), 02 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *
- हवलदार अर्जुन कुमार तिवारी (सं. 14390336एन अब जेसी-300802एच), 26 मार्च 2009/01 मई 2008 *

हवलदार मनोहर लाल (सं. 14402341एन अब जेसी-300803एल),
01 अप्रैल 2009

हवलदार अलंकार शर्मा (सं. 15113976के अब जेसी-300804एन),
01 अप्रैल 2009

हवलदार सथ्यम ए (सं. 15105784एक्स अब जेसी-300805डब्ल्यू),
20 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार जाधव रामचंद्र मानसिंग (सं. 14402994पी अब जेसी-
300806वाई), 01 अप्रैल 2009

आरएचएम दीपक कुमार घोराई (सं. 15764009पी अब जेसी-
300807एफ), 09 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

आरएचएम श्रवण सिंह (सं. 15765580एम अब जेसी-300808के),
09 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

आरएचएम शिवा पेरुमल पी (सं. 15763980ए अब जेसी-
300809एम), 17 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार रन्नावरे सुनील पंडरीनाथ (सं. 15106940एच अब जेसी-
300810एफ), 01 मई 2009

ए वी बागुर
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 485, दिनांक 30 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति
करते हैं :--

नियमित सेवा

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर तथा पदोन्नति दिनांक

सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-826178पी), 01 मार्च 2010

प्रीत पाल सिंह
अवर सचिव

सेना मुख्यालय/जनरल स्टाफ शाखा

अपर महानिदेशालय प्रादेशिक सेना/प्रादेशिक सेना-3

सं. 486, दिनांक 30 जुलाई 2010--

प्रादेशिक सेना में नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति

रैंक, नाम, सं., वर्तमान टीजे सं., यूनिट तथा कब से

हवलदार मंगलानन्दा पाणिकर टी एस (10359406) (टीजे-5641),
106 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा, 12 मई 2008

हवलदार राजी के (10359412) (टीजे-5642), 106 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना पैरा, 12 मई 2008

हवलदार रामाधर तिवारी (10420810) (टीजे-5644), 108 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना महार, 01 जुलाई 2008

हवलदार राजपाल सिंह (12690257) (टीजे-5646), ज. अस्पताल
प्रादेशिक सेना पटियाला, 21 मई 2008

हवलदार पी एस रौथन (12835310) (टीजे-5647), 811 इंजीनियर
रेजीमेंट ओएनजीसी प्रादेशिक सेना, 23 मई 2008

हवलदार रोमन बोरा (12835371) (टीजे-5648), 811 इंजीनियर
रेजीमेंट ओएनजीसी प्रादेशिक सेना, 23 मई 2008

हवलदार आर के नन्दावाल (12835400) (टीजे-5649), 811
इंजीनियर रेजीमेंट ओएनजीसी प्रादेशिक सेना, 23 मई 2008

हवलदार ए एम पवार (12835436) (टीजे-5650), 811 इंजीनियर
रेजीमेंट ओएनजीसी प्रादेशिक सेना, 23 मई 2008

हवलदार चंद्रकान्ता हजरिका (10245238) (टीजे-5651), 166 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) आसाम, 30 मई 2008

हवलदार सुशील बोरडोली (10245308) (टीजे-5652), 166 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) आसाम, 30 मई 2008

हवलदार रच्छपाल कुमार (10362025) (टीजे-5653), 126 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ, 05 जून 2008

हवलदार रमेश कुमार (10135226) (टीजे-5654), 150 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना पंजाब, 06 जून 2008

हवलदार राज कुमार (10466660) (टीजे-5655), 150 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना पंजाब, 06 जून 2008

हवलदार शिवानन्द साजने (101359425) (टीजे-5657), 106 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा, 19 जून 2008

हवलदार मनी यलमो (10374169) (टीजे-5658), 107 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना 11 जीआर, 01 जुलाई 2008

हवलदार अरविन्द कुमार मिश्रा (10374257) (टीजे-5659), 107
पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना 11 जीआर, 01 जुलाई 2008

हवलदार रनवीर सिंह (10302781) (टीजे-5661), 123 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना ग्रिनेडियर, 16 जुलाई 2008

हवलदार कुलदीप सिंह (10198036) (टीजे-5662), 112 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना डोगरा, 16 जुलाई 2008

हवलदार एन सुब्रमनियन (10452548) (टीजे-5663), 117 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड, 25 जुलाई 2008

हवलदार रनजीत तमना (10245312) (टीजे-5669), 166 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) आसाम, 21 अगस्त 2008

हवलदार नौरंगलाल (12377304) (टीजे-5670), 1031 रेलवे ई.जी.
रेजिमेन्ट प्रादेशिक, 27 अगस्त 2008

हवलदार शिवमंगल गौतम (12388837) (टीजे-5671), 1031 रेलवे
ई.जी. रेजिमेन्ट प्रादेशिक, 27 अगस्त 2008

हवलदार विक्रम सिंह (10182117) (टीजे-5675), 111 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना कुमाऊं, 19 सितम्बर 2008

हवलदार रनधीर सिंह (10302825) (टीजे-5677), 123 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना ग्रेनेडियर, 19 सितम्बर 2008

हवलदार हीरालाल (10361912) (टीजे-5678), 155 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना जैक रिफ, 18 सितम्बर 2008

हवलदार काशी मिस्त्री (12375724) (टीजे-5679), 969 रेलवे
इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट प्रादेशिक, 23 सितम्बर 2008

हवलदार प्रमोद कुमार सिंह (12059660) (टीजे-5680), 969 रेलवे
इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट प्रादेशिक, 23 सितम्बर 2008

हवलदार कुलवन्त सिंह (10479913) (टीजे-5681), 103 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना सिख लाई, 19 सितम्बर 2008

हवलदार पवन कुमार (10480001) (टीजे-5682), 103 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना सिख लाई, 19 सितम्बर 2008

हवलदार टेवल खान (10479884) (टीजे-5683), 103 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना सिख लाई, 19 सितम्बर 2008

हवलदार हरी पवन सिंह (10480101) (टीजे-5684), 103 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई, 19 सितम्बर 2008

हवलदार अकबर सिंह (10480129) (टीजे-5685), 103 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना सिख लाई, 19 सितम्बर 2008

हवलदार कुलवन्त सिंह (10480141) (टीजे-5686), 103 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना सिख लाई, 19 सितम्बर 2008

हवलदार रमेश कुमार (10480119) (टीजे-5687), 103 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना सिख लाई, 19 सितम्बर 2008

हवलदार रामफल (10480174) (टीजे-5688), 103 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना सिख लाई, 19 सितम्बर 2008

हवलदार/एसएस विनय कुमार गुप्ता (12377429) (टीजे-5689),
1031 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट, 30 सितम्बर 2008

हवलदार/एसएस एस एस राठौर (12208121) (टीजे-5690), 1031
रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट, 30 सितम्बर 2008

हवलदार/झाईवर श्रवण लाल (12311979) (टीजे-5691), 1031 रेलवे
इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट, 30 सितम्बर 2008

हवलदार/झाईवर राजू राजपूत (12377235) (टीजे-5692), 1031 रेलवे
इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट, 30 सितम्बर 2008

हवलदार प्रह्लाद मीना (12377406) (टीजे-5693), 1031 रेलवे
इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट, 30 सितम्बर 2008

हवलदार उदयवीर सिंह (10135125) (टीजे-5694), 105 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना राज रिफ, 14 अक्टूबर 2008

हवलदार विरेन्द्र सिंह (10466495) (टीजे-5695), 156 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) पंजाब, 13 अक्टूबर 2008

हवलदार सुदेश कुमार (10198127) (टीजे-5696), 153 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना डोगरा, 13 अक्टूबर 2008

हवलदार दबेन्द्र दत्त (10191814) (टीजे-5697), 153 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना डोगरा, 13 अक्टूबर 2008

हवलदार सतीश कुमार (10198319) (टीजे-5698), 153 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना डोगरा, 13 अक्टूबर 2008

हवलदार धीरज पी (12208011) (टीजे-5699), 1031 रेलवे
इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट प्रादेशिक सेना, 13 अक्टूबर 2008

हवलदार/गार्ड हितेन्द्र के चाशिया (12379168) (टीजे-5700), 1031
रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट प्रादेशिक सेना, 21 अक्टूबर 2008

हवलदार एन मारीकन्नन (10166421) (टीजे-5702), 110 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास, 31 अक्टूबर 2008

हवलदार नाबाचंद्र सिन्हा (10245199) (टीजे-5703), 119 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम, 31 अक्टूबर 2008

हवलदार/झाईवर इकबाल एम (12216795) (टीजे-5701),
1031 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट प्रादेशिक सेना, 13 अक्टूबर 2008

हवलदार प्रद्योत किशोरी सिन्हा (10212584) (टीजे-5704),
113 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना राजपूत, 03 नवम्बर 2008

हवलदार ददन सिंह (10212487) (टीजे-5705), 113 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक सेना राजपूत, 03 नवम्बर 2008

हवलदार विश्वजीत खटूआ (10212975) (टीजे-5706), 113 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना राजपूत, 03 नवम्बर 2008

हवलदार बसप्पा बरबल्ली (10420876) (टीजे-5707), 115 पैदल
वाहिनी प्रादेशिक सेना महार, 01 नवम्बर 2008

हवलदार पाटील प्रकाश शंकर (10437062) (टीजे-5708),
116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना, पैरा, 24 अक्टूबर 2008

हवलदार हिरे दत्तात्रय जिभाऊ (10437082) (टीजे-5709), 116
पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा, 24 अक्टूबर 2008

हवलदार लवंकुश प्रसाद शर्मा (10389945) (टीजे-5711),
108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार, 01 नवम्बर 2008

हवलदार गोकुल प्रसाद साहू (10420819) (टीजे-5712),
151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट, 21 नवम्बर 2008

हवलदार रघुवीर शरण विश्वकर्मा (10389971) (टीजे-5713),
151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट, 21 नवम्बर 2008

हवलदार भीम सिंह (12363579) (टीजे-5714), 1032 रेलवे
इंजीनियरिंग रेजिमेन्ट प्रादेशिक सेना, 28 नवम्बर 2008

हवलदार बिजय कुमार सतपथी (10260308) (टीजे-5715),
120 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार, 01 दिसम्बर 2008

हवलदार/क्लर्क मारकड साईनाथ (10119995) (टीजे-5717),
101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक मराठा लाई, 18 दिसम्बर 2008

हवलदार कबाल सिंह (10362088) (टीजे-5718), 126 पैदल वाहिनी
प्रादेशिक जैक रिफ, 01 जनवरी 2009

- हवलदार बेगाराम रेवाड (10302905) (टीजे-5719), 123 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रिनेडियर, 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार चरेश कुमार (10262012) (टीजे-5723), 126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ, 01 जनवरी 2009
- हवलदार सिंघनाथ मिश्रा (10260322) (टीजे-5724), 166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) आसाम, 01 जनवरी 2009
- हवलदार पवित्रन पी के (10290988) (टीजे-5725), 122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास, 01 जनवरी 2009
- हवलदार यसवराज मुनवल्लि (10420984) (टीजे-5726), 115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार, 01 फरवरी 2009
- हवलदार फूल सिंह (10135064) (टीजे-5727), 105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना राज रिफ, 16 जनवरी 2009
- हवलदार अंजनी प्रसाद पाण्डेय (10182182) (टीजे-5729), 111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊं, 09 फरवरी 2009
- हवलदार परस राम (10198122) (टीजे-5730), 159 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा, 09 फरवरी 2009
- हवलदार लखविंदर सिंह (10198162) (टीजे-5731), 159 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा, 09 फरवरी 2009
- हवलदार सुरजीत सिंह (10198202) (टीजे-5732), 159 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा, 09 फरवरी 2009
- हवलदार बैद्यनाथ यादव (10245255) (टीजे-5734), 119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम, 20 फरवरी 2009
- हवलदार ज्यूधिष्ठिर कंवर (10245256) (टीजे-5735), 119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम, 20 फरवरी 2009
- हवलदार परशुराम बंगयाई (10245229) (टीजे-5736), 119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम, 20 फरवरी 2009
- हवलदार दिपल बी चावन (12378817) (टीजे-5737), 1031 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट, 24 फरवरी 2009
- हवलदार बिनोद सिन्हा (10245189) (टीजे-5738), 165 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) आसाम, 09 मार्च 2009
- हवलदार अशोक कुमार (10198237) (टीजे-5739), 159 पैदल वाहिनी प्रादेशिक (एच एंड एच) डोगरा, 26 मार्च 2009
- हवलदार सतपाल (10314893) (टीजे-5740), 124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख, 31 मार्च 2009
- हवलदार/क्लर्क अशोक कुमार कंटक (10436824) (टीजे-5742), 116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा, 22 अप्रैल 2009
- हवलदार गुरुमेल सिंह (10198157) (टीजे-5743), 112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा, 27 अप्रैल 2009
- हवलदार अर्जन सिंह (10198155) (टीजे-5744), 112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा, 27 अप्रैल 2009
- हवलदार चीतापुरे इस्मैल (10119840) (टीजे-5749), 101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई, 14 मई 2009
- हवलदार राजीव कुमार द्विवेदी (10405385) (टीजे-5750), 114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट, 15 मई 2009
- हवलदार गोविन्द पी तिवारी (10389979) (टीजे-5755), 108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार, 01 जून 2009
- हवलदार धरमपाल (12031382) (टीजे-5756), 1101 रेलवे इंजी रेजिमेंट प्रादेशिक, 29 मई 2009
- हवलदार हरिंदर सिंह (12052607) (टीजे-5757), 1101 रेलवे इंजी रेजिमेंट प्रादेशिक, 29 मई 2009
- हवलदार जे पी उप्पल (12371535) (टीजे-5758), 1101 रेलवे इंजी रेजिमेंट प्रादेशिक, 29 मई 2009
- हवलदार मेंबर सिंह (12024436) (टीजे-5759), 1101 रेलवे इंजी रेजिमेंट, 29 मई 2009
- हवलदार दिनेश चंद्र (12024365) (टीजे-5760), 1101 रेलवे इंजी रेजिमेंट, 29 मई 2009
- हवलदार उमेश मशाली (10359440) (टीजे-5762), 106 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा, 25 जून 2009
- हवलदार सुभाष चंद (10466706) (टीजे-5764), 102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पंजाब, 02 जुलाई 2009
- हवलदार राजा शाकर रेड्डी (10329019) (टीजे-5765), 125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड, 07 जुलाई 2009
- हवलदार नियाज अली (10466715) (टीजे-5766), 102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पंजाब, 01 अगस्त 2009
- हवलदार इंदर पुरी (10466718) (टीजे-5767), 102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पंजाब, 01 अगस्त 2009
- हवलदार प्रभुजीत सिंह राजपूत (12383353) (टीजे-5768), 1105 रेलवे इंजी रेजिमेंट, 29 अप्रैल 2009
- हवलदार सी एच दिवाकर (12383470) (टीजे-5769), 1105 रेलवे इंजी रेजिमेंट, 29 अप्रैल 2009
- हवलदार सुबोध मित्रा (12384826) (टीजे-5770), 1105 रेलवे इंजी रेजिमेंट, 29 अप्रैल 2009
- हवलदार के लिंगना गौड (12384789) (टीजे-5771), 1105 रेलवे इंजी रेजिमेंट, 29 अप्रैल 2009
- हवलदार गोपाल सिंह (12052672) (टीजे-5772), 1101 रेलवे इंजी रेजिमेंट, 23 जुलाई 2009
- हवलदार विजय कुमार उप्पल (12085315) (टीजे-5773), 1101 रेलवे इंजी रेजिमेंट, 31 जुलाई 2009
- हवलदार राजेन्द्र भावे (12372914) (टीजे-5774), 1101 रेलवे इंजी रेजिमेंट, 31 जुलाई 2009

- हवलदार राजकुमार शर्मा (12052569) (टीजे-5775), 1101 रेलवे इंजी रजिमेंट, 31 जुलाई 2009
- हवलदार करन सिंह (12017608) (टीजे-5776), 1101 रेलवे इंजी रजिमेंट, 31 जुलाई 2009
- हवलदार हरीश कुमार (12372941) (टीजे-5777), 1101 रेलवे इंजी रजिमेंट, 31 जुलाई 2009
- हवलदार जगतार सिंह (10480216) (टीजे-5783), 152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख, 26 अगस्त 2009
- हवलदार रोसदेव नायक (10260159) (टीजे-5784), 154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार, 26 अगस्त 2009
- हवलदार नरेश कुमार (10362415) (टीजे-5785), 155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना राज रिफ, 04 सितम्बर 2009
- हवलदार अशोक कुमार (12031403) (टीजे-5794), 1101 रेलवे इंजी रजिमेंट, प्रादेशिक, 10 सितम्बर 2009
- हवलदार रमेश चन्द्र माथुर (10405422) (टीजे-5795), 114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट, 05 अक्टूबर 2009
- हवलदार सुदर्शन देब (10245259) (टीजे-5796), 165 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम, 01 नवम्बर 2009
- हवलदार प्रशांत कुमार दास (10274579) (टीजे-5797), 121 पैदल वाहिनी, प्रादेशिक सेना, गार्ड रिफ, 13 अक्टूबर 2009
- हवलदार रामाचन्द्रन वी (10452640) (टीजे-5798), 117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड, 26 अक्टूबर 2009
- हवलदार पी पुनीआमूर्ती (10452682) (टीजे-5799), 117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड, 26 अक्टूबर 2009
- हवलदार गणेशन टी (10452577) (टीजे-5800), 117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड, 26 अक्टूबर 2009
- हवलदार ए नाणदुराई (10452677) (टीजे-5801), 117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड, 26 अक्टूबर 2009
- हवलदार राज कपूर सिंह (10182198) (टीजे-5802), 111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊं, 05 नवम्बर 2009
- हवलदार अभय राज (10182204) (टीजे-5803), 111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊं, 05 नवम्बर 2009
- हवलदार रविकान्त (10198148) (टीजे-5804), 112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा, 05 नवम्बर 2009
- हवलदार श्री शेर सिंह बघेल (10390074) (टीजे-5805), 151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट, 12 नवम्बर 2009
- हवलदार सोभ राज (10198208) (टीजे-5806), 153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा, 12 अक्टूबर 2009
- हवलदार राजीव कुमार (10135430) (टीजे-5807), 153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा, 12 अक्टूबर 2009
- हवलदार संतोष कुमार कटरे (10227886) (टीजे-5809), 118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनेडियर, 12 नवम्बर 2009
- हवलदार राज कुमार (10479990) (टीजे-5808), 103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई, 12 नवम्बर 2009
- हवलदार लालजी यादव (10182226) (टीजे-5810), 111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊं, 12 नवम्बर 2009
- हवलदार राम प्रसाद याल्मो (10374262) (टीजे-5811), 107 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना 11 जीआर, 16 नवम्बर 2009
- हवलदार करन सिंह (10135184) (टीजे-5812), 105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना राज रिफ, 16 नवम्बर 2009
- हवलदार प्रदीप दास (10212879) (टीजे-5813), 113 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना राजपूत, 01 जनवरी 2010
- हवलदार पवन कुमार (10466703) (टीजे-5816), 102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पंजाब, 01 जनवरी 2010
- हवलदार मंगत लाल (10198259) (टीजे-5817), 159 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच डोगरा, 01 जनवरी 2010
- हवलदार सुभाष सिंह (10135191) (टीजे-5818), 105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना राज रिफ, 06 जनवरी 2010
- हवलदार अरून कुमार एन (10291087) (टीजे-5819), 122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास, 08 जनवरी 2010
- हवलदार डोनवडे महादेव मलाप्पा (10150025) (टीजे-5820), 109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई, 08 जनवरी 2010
- हवलदार जी बाबू (10328982) (टीजे-5821), 125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना, गार्ड, 05 फरवरी 2010
- हवलदार रविनाथ पाल (10182275) (टीजे-5822), 111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊं, 02 फरवरी 2010
- हवलदार शमशेर मसिह (10198186) (टीजे-5823), 112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा, 03 फरवरी 2010
- हवलदार कपूर सिंह (10135212) (टीजे-5824), 105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना राज रिफ, 03 फरवरी 2010
- हवलदार बसप्पा बी इनगी (10420977) (टीजे-5825), 115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार, 08 जनवरी 2010
- हवलदार निगप्पा गानगी (10420987) (टीजे-5826), 115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार, 08 जनवरी 2010
- हवलदार जगजीत सिंह (10480132) (टीजे-5827), 103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई, 08 जनवरी 2010
- हवलदार स्वर्ण कुमार (10480155) (टीजे-5828), 155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ, 12 फरवरी 2010
- हवलदार मोहन लाल (10362216) (टीजे-5829), 155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ, 12 फरवरी 2010

हवलदार कदम महादेव (10119849) (टीजे-5830), 101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई, 06 जनवरी 2010

हवलदार पाटील बबन नारायण (10150072) (टीजे-5831), 109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई, 25 फरवरी 2010

हवलदार मनोहरण योदुयन (10291063) (टीजे-5832), 122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास, 18 फरवरी 2010

हवलदार दिव्या सिंह जेना (10260208) (टीजे-5833), 120 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार, 09 मार्च 2010

हवलदार धरमबीर (10466538) (टीजे-5834), 150 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पंजाब, 09 मार्च 2010

हवलदार बाबू लाल गुर्जर (10315062) (टीजे-5835), 124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख, 09 मार्च 2010

हवलदार निरीपन हजारिका (10245307) (टीजे-5836), 119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम, 09 मार्च 2010

हवलदार लक्ष्य कुमार सेकीया (10245322) (टीजे-5837), 119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम, 09 मार्च 2010

हवलदार करन चन्द (10362060) (टीजे-5838), 162 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक लाई, 17 मार्च 2010

हवलदार गोविन्दा सिन्हा (10245283) (टीजे-5839), 119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम, 17 मार्च 2010

हवलदार श्री सन्त कुमार पाण्डेय (10390016) (टीजे-5840), 151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट, 01 अप्रैल 2010

हवलदार अरविन्द सिंह चौहान (10405620) (टीजे-5841), 151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट, 01 अप्रैल 2010

हवलदार बबन सिंह (10260132) (टीजे-5842), 164 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) नागा, 30 मार्च 2010

हवलदार महा सिंह (10466724) (टीजे-5843), 102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पंजाब, 01 मई 2010

हवलदार मदन लाल जाट (10302952) (टीजे-5844), 123 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रिनेडियर, 15 अप्रैल 2010

हवलदार भवानी सिंह (10303000) (टीजे-5845), 123 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रिनेडियर, 15 अप्रैल 2010

हवलदार गुरुनैब सिंह (10480213) (टीजे-5846), 103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई, 26 अप्रैल 2010

हवलदार शेख बाबूलाल बुधान (10437141) (टीजे-5847), 116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा, 26 अप्रैल 2010

हवलदार तोराबने किशोर नवलराव (10437155) (टीजे-5848), 116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा, 26 अप्रैल 2010

हवलदार एस नटराजन (10166579) (टीजे-5849), 110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास, 10 मई 2010

जयराज
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 487, दिनांक 30 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैंट्री

डोगरा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार परशोत्तम सिंह (सं. 3987024डब्ल्यू अब जेसी-521097एम), 30 जनवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 नवम्बर 2009 से)

हवलदार पवन सिंह (सं. 3987051ए अब जेसी-521098पी), 30 जनवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2009 से)

हवलदार विश्व जीत (सं. 3987941ए अब जेसी-521099एक्स), 18 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से)

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 3989416ए अब जेसी-521100एफ), 29 जनवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी 2010 से)

हवलदार किशोरी लाल (सं. 3987694एक्स अब जेसी-521101के), 17 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जनवरी 2010 से)

हवलदार रतन चन्द (सं. 3988511ए अब जेसी-521102एम), 31 जनवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जनवरी 2010 से)

हवलदार रघुपाल सिंह (सं. 3986914के अब जेसी-521103पी), 19 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जनवरी 2010 से)

हवलदार अश्वनी कुमार शर्मा (सं. 3988135ए अब जेसी-521104एक्स), 01 फरवरी 2010

हवलदार खेम दास (सं. 3988661वाई अब जेसी-521105ए), 01 फरवरी 2010

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 3989717एम अब जेसी-521106एच),
03 मार्च 2010+

पंजाब रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 2010 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) नवदीप सैकिया (सं. 3988787वाई अब जेसी-521107एल), 01 फरवरी 2010

जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार अली अख्तर हुसैन शाह (सं. 9095760वाई अब जेसी-593826ए), 03 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 27 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 9088433एल अब जेसी-593827एच),
13 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुबाश चन्द्र शर्मा (सं. 9088444एक्स अब जेसी-593828एल), 07 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 9088276के अब जेसी-593829एन),
15 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार/लिपिक रैंक में 11 जनवरी 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद मुस्ताक (सं. 9089043पी अब जेसी-593830एच),
06 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 14 जनवरी 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार कुलदीप कुमार (सं. 9088090ए अब जेसी-593831एल),
08 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 28 जनवरी 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार नाम सागर (सं. 9088302ए अब जेसी-593832एन),
09 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुबाश चन्द्र पस्सूला (सं. 9088355डब्ल्यू अब जेसी-593833डब्ल्यू), 09 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार नंद लाल (सं. 9088308एम अब जेसी-593834वाई),
01 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार लयाकत अली (सं. 9089237एक्स अब जेसी-593835एफ), 13 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 2478868एम अब जेसी-430623एम),
01 फरवरी 2010

हवलदार गुरमुख सिंह (सं. 2478867के अब जेसी-430624पी),
01 फरवरी 2010

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 2478891ए अब जेसी-430625एक्स),
01 फरवरी 2010

हवलदार बिनोद कुमार (सं. 2479610एल अब जेसी-430626ए),
01 फरवरी 2010

हवलदार नरिन्द्र सिंह (सं. 2479634पी अब जेसी-430627एच),
01 फरवरी 2010

हवलदार तरसेम लाल (सं. 2480179के अब जेसी-430628एल),
01 फरवरी 2010

हवलदार मलकीत सिंह (सं. 2479544एन अब जेसी-430629एन),
01 फरवरी 2010

हवलदार मान सिंह (सं. 2479430एच अब जेसी-430630एच),
12 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार तेजपाल सिंह (सं. 2479585एक्स अब जेसी-430631एल),
01 फरवरी 2010

हवलदार मोहिन्दर लाल (सं. 2480190एच अब जेसी-430632एन),
11 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार करम चन्द (सं. 2480210एल अब जेसी-430633डब्ल्यू),
01 फरवरी 2010

हवलदार नायब सिंह (सं. 2479487एक्स अब जेसी-430617वाई),
14 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार बीर सिंह सदयाल (सं. 2479632के अब जेसी-430618एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार सोदागर सिंह (सं. 2480159डब्ल्यू अब जेसी-430619के),
01 जनवरी 2010

हवलदार रजनीश कुमार (सं. 2480538एम अब जेसी-430620वाई),
01 जनवरी 2010

महार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दर्विंदर कुमार थकियाल (सं. 4559318डब्ल्यू अब जेसी-570429पी), 09 जुलाई 2009@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 30 मार्च 2009)

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 4559605ए अब जेसी-570430के), 09 जुलाई 2009#

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2009)

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 4559774एफ अब जेसी-570431एम), 13 जुलाई 2009\$

\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 30 अप्रैल 2009)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 10389902एक्स अब जेसी-570432पी), 20 जुलाई 2009%

% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 14 मई 2009)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 4564923एन अब जेसी-570433एक्स), 16 नवम्बर 2009&

& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 फरवरी 2009)

हवलदार विध्या नंद यादव (सं. 4560893के अब जेसी-570434ए), 23 नवम्बर 2009*

* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2009)

हवलदार राम रतन यादव (सं. 4561514पी अब जेसी-570435एच), 11 दिसम्बर 2009@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 25 नवम्बर 2009)

हवलदार धनविज बंडु रामा (सं. 4558989एन अब जेसी-570436एल), 18 दिसम्बर 2009##

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 नवम्बर 2009)

हवलदार विश्वानाथ सरकार (सं. 4561275एल अब जेसी-570437एन), 01 जनवरी 2010

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 4561288एच अब जेसी-570438डब्ल्यू), 04 जनवरी 2010\$\$

हवलदार अजीत सिंह (सं. 4560250एम अब जेसी-570439वाई), 04 जनवरी 2010\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2010)

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार यशवंत सिंह (सं. 2682424के अब जेसी-450800एच), 28 सितम्बर 2008

हवलदार इकबाल हुसैन (सं. 2680809एच अब जेसी-450801एल), 10 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009)

हवलदार चन्द्र भान (सं. 2884385वाई अब जेसी-450802एन), 05 मार्च 2009

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 2681299वाई अब जेसी-450803 डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009

हवलदार हस्तीमल जाट (सं. 2682345पी अब जेसी-450804वाई), 23 जुलाई 2009

हवलदार जयबीर (सं. 2681554ए अब जेसी-450805एफ), 27 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009)

हवलदार राठौर अशोक कुमार भाया भाई (सं. 2685693एफ अब जेसी-450806के), 01 अगस्त 2009

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2680754के अब जेसी-450807एम), 01 अगस्त 2009

हवलदार अमन सिंह राठौर (सं. 2682212वाई अब जेसी-450808पी), 12 अगस्त 2009

हवलदार चन्द्रा सिंह (सं. 2681253डब्ल्यू अब जेसी-450809एक्स), 20 अगस्त 2009

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 2681358ए अब जेसी-450810एम), 23 अगस्त 2009

हवलदार नरेन्द्र सिंह गिल (सं. 2681840एफ अब जेसी-450811पी), 01 सितम्बर 2009

हवलदार कन्हारिया पोपट भीखा (सं. 2685823वाई अब जेसी-450812एक्स), 01 सितम्बर 2009

हवलदार मुख्तार अहमद (सं. 2680412डब्ल्यू अब जेसी-450813ए), 01 सितम्बर 2009

हवलदार चून सिंह (सं. 2678627डब्ल्यू अब जेसी-450814एच), 02 सितम्बर 2009

हवलदार राज कुमार नरेश (सं. 2682397एल अब जेसी-450815एल), 03 सितम्बर 2009

हवलदार हाकम अली खान (सं. 2683156एक्स अब जेसी-450816एन), 06 सितम्बर 2009

हवलदार सरवर खान (सं. 2683319ए अब जेसी-450817डब्ल्यू), 07 सितम्बर 2009

हवलदार कृष्ण चन्द (सं. 2681091डब्ल्यू अब जेसी-450818वाई), 07 सितम्बर 2009

- हवलदार आराम सिंह (सं. 2681256के अब जेसी-450819एफ) 08 सितम्बर 2009
- हवलदार लियाकत अली (सं. 2680172के अब जेसी-450820डब्ल्यू) 09 सितम्बर 2009
- हवलदार रामवीर (सं. 2681925एक्स अब जेसी-450821वाई) 10 सितम्बर 2009
- हवलदार महाबीर सिंह (सं. 2681609वाई अब जेसी-450822एफ) 10 सितम्बर 2009
- हवलदार पटेल विनोद कुमार धर्मा भाई (सं. 2684895डब्ल्यू अब जेसी-450823के) 13 सितम्बर 2009
- हवलदार पुन्ज राज सिंह (सं. 2682332एक्स अब जेसी-450824एम) 13 सितम्बर 2009
- हवलदार विनोद कुमार (सं. 2680704वाई अब जेसी-450825पी) 13 सितम्बर 2009
- हवलदार निसारुद्दीन अंसारी (सं. 2677917एफ अब जेसी-450826एक्स) 14 सितम्बर 2009
- हवलदार करन सिंह (सं. 2681304वाई अब जेसी-450827ए) 15 सितम्बर 2009
- हवलदार इब्राहीम खान (सं. 2682976एक्स अब जेसी-450828एच) 01 अक्टूबर 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2009)
- हवलदार अशोक कुमार (सं. 2680777एल अब जेसी-450829एल) 17 सितम्बर 2009
- हवलदार राम स्वरूप (सं. 2682560ए अब जेसी-450830ए) 18 सितम्बर 2009
- हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 2682147के अब जेसी-450831एच) 22 सितम्बर 2009
- हवलदार बचितर सिंह (सं. 2680591एफ अब जेसी-450832एल) 22 सितम्बर 2009
- हवलदार भाग सिंह (सं. 2680786एम अब जेसी-450833एन) 22 सितम्बर 2009
- हवलदार सतीश कुमार (सं. 2681105एल अब जेसी-450834डब्ल्यू) 23 सितम्बर 2009
- हवलदार बलवीर सिंह (सं. 2682910एफ अब जेसी-450835वाई) 23 सितम्बर 2009
- हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2681097एक्स अब जेसी-450836एफ) 27 सितम्बर 2009
- हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2680811ए अब जेसी-450837के) 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार जगबीर सिंह (सं. 2680513के अब जेसी-450838एम), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार मोहन सिंह (सं. 2682163एफ अब जेसी-450839पी), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार हरून अहमद (सं. 2682868एन अब जेसी-450840के), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार अली मोहम्मद (सं. 2682986एफ अब जेसी-450841एम), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार पन्ना लाल (सं. 2682553के अब जेसी-450842पी), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार कमल सिंह (सं. 2682180एफ अब जेसी-450843एक्स), 02 अक्टूबर 2009
- हवलदार धर्मेन्द्र (सं. 2683818पी अब जेसी-450844ए), 4 अक्टूबर 2009
- हवलदार राजेन्द्र सिंह मीणा (सं. 2683338एल अब जेसी-450845एच), 09 अक्टूबर 2009
- हवलदार रतन लाल (सं. 2683795वाई अब जेसी-450846एल), 14 अक्टूबर 2009
- हवलदार चमन लाल (सं. 2680516एक्स अब जेसी-450847एन), 15 अक्टूबर 2009
- हवलदार अदेश कुमार (सं. 2684491एन अब जेसी-450848डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009
- हवलदार रमेश प्रसाद (सं. 2685545डब्ल्यू अब जेसी-450849वाई), 01 नवम्बर 2009
- हवलदार दलवीर सिंह (सं. 2680588एफ अब जेसी-450850एन), 01 नवम्बर 2009
- हवलदार आस मोहम्मद (सं. 2680998एक्स अब जेसी-450851डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009
- हवलदार दावद देवशी भाई भीरा भाई (सं. 2685499एम अब जेसी-450852वाई), 01 नवम्बर 2009
- हवलदार हाकिम खान (सं. 2681073एन अब जेसी-450853एफ), 01 नवम्बर 2009
- हवलदार महावीर जाट (सं. 2682598केअब जेसी-450854के), 01 नवम्बर 2009
- हवलदार धर्म सिंह शोकीन (सं. 2682622पी अब जेसी-450855एम), 01 नवम्बर 2009
- हवलदार गोकुल सिंह राठौर (सं. 2683124पी अब जेसी-450856पी), 01 नवम्बर 2009
- हवलदार राधे श्याम सिंह (सं. 2681683ए अब जेसी-450857एक्स), 05 नवम्बर 2009

हवलदार जग पाल (सं. 2682164के अब जेसी-450858ए),
07 नवम्बर 2009

हवलदार गोपी राम ढाका (सं. 2682523एम अब जेसी-450859एच),
01 दिसम्बर 2009

हवलदार नकुम मुकेश प्रेमजी (सं. 2685699एच अब
जेसी-450860एक्स), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 2682070एम अब जेसी-450861ए),
05 दिसम्बर 2009

कुमाँऊ रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार प्रकाश चन्द्रा (सं. 4181753एक्स अब जेसी-540739एल),
24 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2009 से दी गई है)

हवलदार बसंत सिंह (सं. 4181339वाई अब जेसी-540740ए),
13 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 4181037एम अब जेसी-540741एच),
08 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार भगवत दयाल (सं. 4181792डब्ल्यू अब
जेसी-540742एल), 22 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार उदयवीर सिंह यादव (सं. 4181166एम अब जेसी-
540743एन), 08 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार गोविन्द बल्लभ (सं. 4180650एम अब जेसी-
540744डब्ल्यू), 08 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार पून सिंह काकी (सं. 4180045वाई अब जेसी-540745वाई),
19 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार केशव दत्त भट्ट (सं. 4181385एन अब जेसी-540746एफ),
15 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार धरम सिंह (सं. 4181669एक्स अब जेसी-540747के),
25 फरवरी 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार तेज बहादुर यादव (सं. 4181489पी अब जेसी-
540748एम), 25 फरवरी 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार जगत सिंह (सं. 4180061डब्ल्यू अब जेसी-540749पी),
26 फरवरी 2010/23 सितम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 23 सितम्बर 2009 से दी गई है)

हवलदार राज कुमार (सं. 4183438ए अब जेसी-540750के),
02 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 2010 से दी गई है)

हवलदार जगदीश चन्द्रा जोशी (सं. 4182337ए अब
जेसी-540751एम), 02 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 2010 से दी गई है)

हवलदार देव सिंह (सं. 4181214एफ अब जेसी-540752पी),
03 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 2010 से दी गई है)

हवलदार कमलेश चन्द्रा सिंह ऐरी (सं. 4181309एफ अब
जेसी-540753एक्स), 05 मार्च 2010/05 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार शिव शंकर (सं. 4182200एन अब जेसी-540754ए),
06 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 2010 से दी गई है)

हवलदार कुवर लाल (सं. 4183096एक्स अब जेसी-540755एच),
18 मार्च 2010/03 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 03 फरवरी 2010 से दी गई है)

नागा रेजिमेन्ट

हवलदार एन एल थुंगलुंग अनल (सं. 14702530डब्ल्यू अब जेसी-590247एच), 30 जनवरी 2010/19 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 19 अक्टूबर 2009 से दी गई है)

हवलदार डब्ल्यू एस वंगम अनल (सं. 14702610एन अब जेसी-590248एल), 30 जनवरी 2010/24 नवम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 24 नवम्बर 2009 से दी गई है)

हवलदार वाई यिमलोंग चैंग (सं. 14703386वाई अब जेसी-590249एन), 30 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2009 से दी गई है)

हवलदार रंजीत सिंह (सं. 14702005ए अब जेसी-590250एच), 30 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2009 से दी गई है)

हवलदार महेन्द्रा सिंह (सं. 14702016एम अब जेसी-590251एल), 30 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार राजेश कुमार थापा (सं. 14702026डब्ल्यू अब जेसी-590252एन), 30 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार शौकिन सिंह (सं. 14702107डब्ल्यू अब जेसी-590253डब्ल्यू), 30 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार मेडोली अंगामी (सं. 14702417एफ अब जेसी-590254वाई), 25 जनवरी 2010/04 दिसम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 04 दिसम्बर 2009 से दी गई है)

हवलदार के नन्दा केशो कबूई नागा (सं. 14702454पी अब जेसी-590255एफ), 17 फरवरी 2010/06 दिसम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 06 दिसम्बर 2009 से दी गई है)

हवलदार डी वाई थुमचिंग अनल (सं. 14702411ए अब जेसी-590256के), 25 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार मनबर सिंह (सं. 14702175के अब जेसी-590257एम), 25 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार विशाली लीनो (सं. 14703367एन अब जेसी-590258पी), 23 मार्च 2010/06 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 06 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार परमा नन्द बुडाकोटी (सं. 14702269एफ अब जेसी-590259एक्स), 26 फरवरी 2010/29 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 29 जनवरी 2010 से दी गई है)

असम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार जे केनेडि (सं. 4359586डब्ल्यू अब जेसी-549791पी), 27 जुलाई 2009/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार होमलाल शर्मा (सं. 4359787पी अब जेसी-549872पी), 19 फरवरी 2010/15 अक्टूबर 2009 *

हवलदार गुनैन्द्र नाथ (सं. 4360702ए अब जेसी-549874ए), 01 दिसम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

हवलदार स्वपन कुमार रोय (सं. 4359479पी अब जेसी-549875एच), 31 दिसम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

हवलदार ताल बहादुर थापा (सं. 4359618एन अब जेसी-549876एल), 31 दिसम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

हवलदार नरमैन्द्र राय (सं. 4359752वाई अब जेसी-54977एन), 09 मार्च 2010/03 नवम्बर 2009 *

हवलदार तुलेस्वर नाथ (सं. 4360704एल अब जेसी-549880एन), 30 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009 *

हवलदार एल नोकमन कोनयक (सं. 4357742डब्ल्यू अब जेसी-549887एक्स), 04 फरवरी 2010/01 जून 2009 *

हवलदार थियान गोउलिअन (सं. 4359650एच अब जेसी-549888ए); 23 फरवरी 2010/01 अक्टूबर 2009 *

हवलदार चेनाइ राम बोरह (सं. 2593949वाई अब जेसी-549889एच), 04 फरवरी 2010/28 दिसम्बर 2009 *

हवलदार गुंजा लाल देवरी (सं. 2592229एल अब जेसी-549890एक्स),
04 फरवरी 2010/28 दिसम्बर 2009*

हवलदार थंगतिम मांग कूकी (सं. 4360033एम अब जेसी-549891ए),
04 फरवरी 2010/28 दिसम्बर 2009*

हवलदार निग्धोउजाम देबानंदा सिंघ (सं. 4361074एच अब जेसी-
549892एच), 04 फरवरी 2010/28 दिसम्बर 2009*

हवलदार रिशि राम पौडेल (सं. 4362773ए अब जेसी-549894एन),
01 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

हवलदार तरून कुमार सोनोवाल (सं. 4360066एक्स अब जेसी-
549895डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

हवलदार राना प्रकाश नाथ (सं. 4360097एक्स अब जेसी-549896वाई),
01 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

हवलदार प्रभात बोरबरुआ (सं. 4360243एम अब जेसी-549897एफ),
15 फरवरी 2010/01 जनवरी 2010*

हवलदार मनिक चंद्र राय (सं. 4359596ए अब जेसी-549898के),
04 फरवरी 2010/01 जनवरी 2010*

हवलदार अनिल कुमार नाथ (सं. 4360695पी अब जेसी-549899एम),
07 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

हवलदार प्रमोद गुरुंग (सं. 4362958एफ अब जेसी-549990एच),
25 जनवरी 2010/08 जनवरी 2010*

हवलदार रंजीत कुमार नाथ (सं. 4360435के अब जेसी-549991एल),
01 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010*

हवलदार घना कांता दास (सं. 4360429डब्ल्यू अब जेसी-549992एन),
01 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010*

नायब सूबेदार (धर्म गुरु) के पद में

रंगरूट/धर्म गुरु (पंडित) इंद्रजीत मिश्रा (सं. 549862एल अब
जेसी-549862एल), 30 जनवरी 2010/30 जनवरी 2010*

नायब सूबेदार (लिपिक) के पद में

हवलदार (लिपिक) रामदास यादव (सं. 4359473एन अब जेसी-
549873एक्स), 04 जनवरी 2010/01 नवम्बर 2009*

हवलदार (लिपिक) अशोक कुमार (सं. 4359503ए अब जेसी-
549995एफ), 13 मार्च 2010/15 फरवरी 2010*

हवलदार (लिपिक) राजन सिंह ठाकुर (सं. 3183967डब्ल्यू अब
जेसी-549996के), 15 फरवरी 2010/15 फरवरी 2010*

हवलदार (लिपिक) गिरधारी लाल (सं. 3183968वाई अब जेसी-
549997एम), 15 फरवरी 2010/15 फरवरी 2010*

हवलदार (लिपिक) अशोक कुमार (सं. 4270502एच अब जेसी-
549998पी), 15 फरवरी 2010/15 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता)

मराठा लाईट इंफैंट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पवार उदय कुमार सर्जेराव (सं. 2786209एल अब जेसी-
460130ए), 27 जनवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार हदगल मुकुंद सुबराव (सं. 2787338एक्स अब जेसी-
460131एच), 06 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार भोसले मानसिंग शिरंग (सं. 2786946एम अब जेसी-
460132एल), 15 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 29 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार साबले प्रकाश ज्ञानु (सं. 2785356एफ अब जेसी-460133एन),
10 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार सुलतान सिंह (सं. 2783716डब्ल्यू अब जेसी-460134डब्ल्यू),
18 जनवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार विलास चौगुले (सं. 2787462वाई अब जेसी-460135वाई),
05 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 22 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश पी एम (सं. 2785026एच अब जेसी-460137के),
28 जनवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार विनोद (सं. 2784846एच अब जेसी-460139पी), 28 जनवरी
2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक/एसडी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक/एसडी) चित्तरंजन साहू (सं. 15361752एल अब
जेसी-460136एफ), 16 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक/एस डी) शीजवाल शिवाजी उत्तमराव (सं. 15362838डब्ल्यू अब जेसी-460138एम), 31 जनवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार पाटिल सचिन रावसाहेब, सेना मेडल (सं. 2799019एक्स अब जेसी-460140के), 18 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार तलानीकर संतोष भास्करराव (सं. 2787358एल अब जेसी-460141एम), 18 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार पवार जालिंदर रावसाहेब (सं. 2789568के अब जेसी-460142पी), 01 मार्च 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार जाधव हनमंत रघुनाथ (सं. 2787678ए अब जेसी-460143एक्स), 18 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार जगताप तानाजी युवराज (सं. 2789617एफ अब जेसी-460144ए), 01 मार्च 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार पडाले विष्णु दत्तोबा (सं. 2785318एल अब जेसी-460145एच), 18 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार मेमाणे शहाजी विष्णु (सं. 2785565वाई अब जेसी-460146एल), 18 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) (एसडी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक, एस डी) रनदिवे उत्तम केशो (सं. 15363018डब्ल्यू अब जेसी-460147एन), 25 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक, एस डी) गायकवाड निम्बाजी यादव (सं. 15363555एफ अब जेसी-460148डब्ल्यू), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार देशमुख संजय वसंतराव (सं. 2789071एम अब जेसी-460149वाई), 16 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार निकम अजित नारायण (सं. 2786941एन अब जेसी-460150एन), 27 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार जाधव श्याम अनिरुध (सं. 2784195एक्स अब जेसी-460151डब्ल्यू), 09 मार्च 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार डोइफोडे दादाराव दगडू (सं. 2785583एफ अब जेसी-460152वाई), 16 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार वार्धडे वाल्मिक धोंडिबा (सं. 2787704डब्ल्यू अब जेसी-460153एफ), 20 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार गंगने सदाशिव सोपान (सं. 2785676डब्ल्यू अब जेसी-460154के), 04 मार्च 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार मेट्करी संजय धोंडिबा (सं. 2785041एक्स अब जेसी-460155एम), 10 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार गुंजाल अशोक जनयाबापु (सं. 2788602एम अब जेसी-460156पी), 10 फरवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार नवले हरिदास अंकुश (सं. 2789829एम अब जेसी-460157एक्स), 22 जनवरी 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार पाटील तात्यासाहेब तुकाराम (सं. 2784813एक्स अब जेसी-460158ए), 10 मार्च 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) (एसडी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक, एस डी) इंगले दत्तात्रय लक्ष्मण (सं. 15363924एन अब जेसी-460159एच), 01 मार्च 2010

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार टेक सिंह (सं. 4468470डब्ल्यू अब जेसी-509899के), 20 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार जीडी के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 4467467के अब जेसी-509887पी), 25 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार जीडी के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 4467840वाई अब जेसी-509888एक्स), 20 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार जीडी के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार हंस राज सिंह (सं. 4465436एल अब जेसी-509890पी), 01 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार जीडी के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 4467694के अब जेसी-509891एक्स), 01 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार जीडी के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार दीदार सिंह (सं. 4472700डब्ल्यू अब जेसी-509892ए), 13 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार जीडी के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 4468418एन अब जेसी-509893एच), 24 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार जीडी के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार गुरजन्त सिंह (सं. 4470242एम अब जेसी-509894एल), 22 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार जीडी के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) (एस डी) ओम प्रकाश प्रसाद (सं. 4468819एच अब जेसी-509895एन), 01 फरवरी 2010*

*[नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी]

हवलदार (क्लर्क) कुन्दन कुमार सिंह (सं. 4468820एक्स अब जेसी-509896डब्ल्यू), 04 फरवरी 2010*

*[नायब सूबेदार (क्लर्क) (एस डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी]

हवलदार (क्लर्क) अशोक कुमार (सं. 4468827एफ अब जेसी-509897वाई), 04 फरवरी 2010*

*[नायब सूबेदार (क्लर्क) (एस डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी]

हवलदार (क्लर्क) राजेश कुमार (सं. 4468825डब्ल्यू अब जेसी-509898एफ), 08 फरवरी 2010*

*[नायब सूबेदार (क्लर्क) (एस डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी]

नायब सूबेदार (म्यूजिसियन) के रैंक में

हवलदार (म्यूजिसियन) बलबीर सिंह (सं. 4471436एफ अब जेसी-509889ए), 03 मार्च 2010*

*[नायब सूबेदार (म्यूजिसियन) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2009 से दी जायेगी]

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हनुमान सिंह (सं. 3180800एफ अब जेसी-490481के), 01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 3183214के अब जेसी-490482एम), 07 दिसम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार भूरा सिंह (सं. 3182052एक्स अब जेसी-490483पी), 22 दिसम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 3191636के अब जेसी-490484एक्स), 28 दिसम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 3181697एन अब जेसी-490485ए),
01 जनवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 3180815के अब जेसी-490486एच),
01 जनवरी 2010

हवलदार जंग बहादुर सिंह (सं. 3180996ए अब जेसी-490487एल),
01 जनवरी 2010

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 3183010एक्स अब जेसी-490488एन),
13 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार करम सिंह (सं. 3183029डब्ल्यू अब जेसी-490489डब्ल्यू),
13 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार बाबू लाल देवड (सं. 3181715एल अब जेसी-490490एल),
01 जनवरी 2010

हवलदार देशपाल सिंह (सं. 3181727ए अब जेसी-490491एन),
07 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रेशपाल सिंह (सं. 3183124एच अब जेसी-490492डब्ल्यू),
01 जनवरी 2010

हवलदार भीखा लाल जाट (सं. 3181757एक्स अब जेसी-490493वाई),
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) अतर सिंह (सं. 3180125ए अब जेसी-
490494एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार (लिपिक) अमर सिंह (सं. 15358238डब्ल्यू अब जेसी-
490495के), 10 जनवरी 2010

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जसवेर सिंह (सं. 3180905एल अब जेसी-490502पी),
07 मार्च 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार गजराज सिंह (सं. 3180657ए अब जेसी-490503एक्स),
28 फरवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रामू राम मुंड (सं. 3181813एल अब जेसी-490504ए),
12 मार्च 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार तारा चन्द (सं. 3179992एक्स अब जेसी-490505एच),
22 मार्च 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 21 मार्च 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) जय भगवान (सं. 15359002एन अब
जेसी-490506एल), 03 मार्च 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) जितेन्द्र सिंह (सं. 3180898ए अब जेसी-
490507एन), 01 मार्च 2010

हवलदार (लिपिक) गुरदीप सिंह धालीवाल (सं. 3180901पी अब
जेसी-490508डब्ल्यू), 01 मार्च 2010

हवलदार (लिपिक) जितेन्द्र कुमार गुप्ता (सं. 3180052वाई अब
जेसी-490509वाई), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह (सं. 3183251एक्स अब जेसी-490510एन),
03 मार्च 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार भूप राम (सं. 3181903एम अब जेसी-490511डब्ल्यू),
10 फरवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जीमना राम (सं. 3180796के अब जेसी-490512वाई),
03 मार्च 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार कमल सिंह (सं. 3183263एम अब जेसी-490513एफ),
21 मार्च 2010

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3181993वाई अब जेसी-490514के),
21 मार्च 2010

हवलदार आजाद सिंह (सं. 3186105एच अब जेसी-490515एम),
21 मार्च 2010

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 3182389ए अब जेसी-490516पी),
21 मार्च 2010

हवलदार राम अवतार लोयल (सं. 3179162एफ अब जेसी-490517एक्स), 01 अप्रैल 2010

हवलदार लालबीर (सं. 3180533एल अब जेसी-490518ए), 01 अप्रैल 2010

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 3181920एम अब जेसी-490519एच), 01 अप्रैल 2010

हवलदार जय सिंह (सं. 3183381ए अब जेसी-490520एक्स), 01 अप्रैल 2010

हवलदार कुमार पाल सिंह (सं. 3182472एक्स अब जेसी-490521ए), 15 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार धर्मवीर (सं. 3181592के अब जेसी-490522एच), 01 अप्रैल 2010

हवलदार बलजोर (सं. 3181779डब्ल्यू अब जेसी-490523एल), 13 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 3184431एम अब जेसी-490524एन), 01 अप्रैल 2010

हवलदार बजरंग लाल मील (सं. 3182403एफ अब जेसी-490525डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सांवर मल (सं. 3182594एफ अब जेसी-490526वाई), 01 अप्रैल 2010

एस अशरफ
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 488, दिनांक 2 अगस्त 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी हुई तिथि (पूर्वाह्न) से दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में पदोन्नति करते हैं :-

नाम, प्रयोगशाला/स्थापना, वर्तमान ग्रेड, पदोन्नत ग्रेड, पदोन्नत ग्रेड का पे बैंड और ग्रेड पे (रु.) तथा पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

के सी गोगना, डीआईपीएस, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,000/-) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

भागवत सिंह (अनु.जा.), डीआईपीएस, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,000/-) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

राजेश कुमार (2) (अनु.जा.), डीआईपीएस, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800/-) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

बी बी शर्मा
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

MINISTRY OF DEFENCE

INTEGRATED HEADQUARTERS (NAVY)

New Delhi, the 18th September 2010

No. 479, dated 28th July 2010—The following Assistants of AFHQ Civil Service have been appointed as Section Officer {Group 'B' (Gza)} by the Competent Authority in the pay scale of PB-2 (9,300—34,800) with GP Rs. 4,800/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for the period mentioned against their name, or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier:-

Shri V R Sharma, 29.05.2009 to 20.08.2009
 Shri Vinod Kumar, 29.05.2009 to 20.08.2009
 Shri Darshan Kumar, 29.05.2009 to 20.08.2009
 Smt Indrani Gupta, 29.05.2009 to 20.08.2009
 Smt Promila Jaggi, 29.05.2009 to 20.08.2009
 Shri Narender Singh, 29.05.2009 to 20.08.2009
 Shri Amrit Lal, 27.11.2009 to 26.05.2010
 Shri Chandi Ram, 27.11.2009 to 26.05.2010
 Shri Ashok Sharda, 27.11.2009 to 26.05.2010
 Shri J C Bisht, 27.11.2009 to 26.05.2010
 Smt Sashi Alagh, 27.11.2009 to 26.05.2010
 Shri M Nandan, 31.12.2009 to 26.05.2010
 Smt Shailendra Kapoor, 19.04.2010 to 18.10.2010
 Shri Ghansham Singh, 19.04.2010 to 18.10.2010

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

AK LAROYA
 Dy CAO (A)

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

No. 480, dated 28th July 2010—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date (s) mentioned against the each name:-

Maj to Lt Col (TS)

Rank & Name, Pers Number, Date of Promotion

Lt Col Geeta Rani (NR-19657M), 30.09.2009
 Lt Col Jessymol Mathew (NR-19658P), 30.09.2009
 Lt Col S Abraham (NR-19661P), 30.09.2009

Lt Col Geeta Panja (NR-19662X), 30.09.2009

Lt Col Renu Bhatia (NR-19664H), 30.09.2009

Lt Col Rajni Bhandarkar (NR-19665L), 30.09.2009

Lt Col Sreelatha P S (NR-19667W), 30.09.2009

Lt Col Maitree Das (NR-19668Y), 30.09.2009

Lt Col Moni C T (NR-19675P), 30.09.2009

Lt Col Annu Philip (NR-19677A), 30.09.2009

T PADMINI
 Maj Gen
 Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 481, dated 28th July 2010—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their names:-

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi-Substantive Major

VS-1089K, Capt Santhosh M, RVC, 13.03.2008

VS-1091F, Capt Amit, RVC, 13.03.2009

VS-1107E, Capt Krishnendu Kundu, RVC, 20.12.2009

VS-1123Y, Capt Rahul Babulal Dange, RVC, 20.12.2009

A V BAGUR
 Under Secy

ARMY BRANCH

No. 482, dated 29th July 2010—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name, Arm/Service

(IC-72151) Iqbaljit Singh, Engrs

(IC-72152) Pranay Deep, EME

(IC-72153) Abhimanyu Samyal, Engrs

(IC-72154) Sreenivas N K, EME

(IC-72156) Rupinder Singh Bhamra, Sigs

(IC-72157) Pradeep Singh, Sigs

(IC-72158) Praveen Kumar, EME

(IC-72159) Abhimanyu Rathee, Engrs

(IC-72160) Vikram Balhara, Sigs
 (IC-72161) Joy Shankar Mitra, Engrs
 (IC-72162) Enoch Daniel Gnanaolivu, Engrs
 (IC-72163) S Raja Durai, Sigs
 (IC-72164) Gursimran Deep Singh, Engrs
 (IC-72165) Ganesh Bahadur Chhetri, Inf
 (IC-72166) Lalit Keshore Chahali, Engrs
 (IC-72167) Chetan Nanda, EME
 (IC-72168) Gaurav Kumar, EME
 (IC-72169) Naveen Sharma, Engrs
 (IC-72171) Rahul Tomar, Sigs
 (IC-72172) E Iatiplang Thongni, Engrs
 (IC-72173) Shivendra Singh Attari, Engrs
 (IC-72174) Piyush Sharma, EME
 (IC-72175) Sushil Singh, EME
 (IC-72176) Anirban Basu, Engrs
 (IC-72177) Ranjith K R, Engrs
 (IC-72178) Amit Arya, Engrs
 (IC-72179) Krishna Prasad, Engrs
 (IC-72180) Sunil Bhakat, Sigs
 (IC-72181) Amar Kumar, EME
 (IC-72182) Alok Awasthi, Sigs
 (IC-72184) Pavan K V, EME
 (IC-72185) Bhupendra Charak, Sigs
 (IC-72186) Govind S, Sigs
 (IC-72187) Rajesh Semwal, EME
 (IC-72188) Aditya Kumar Bhanot, Engrs
 (IC-72189) Ram C, Engrs
 (IC-72191) G Yogendra Kumar Reddy, EME
 (IC-72193) Krishan Kumar, Sigs
 (IC-72194) Harminder Singh, Sigs
 (IC-72195) Navin Kumar Mishra, Engrs
 (IC-72196) Jeewandeep Singh Trehan, Engrs
 (IC-72197) Bhanu Sharma, Engrs
 (IC-72198) Rishi Raj Tiwari, EME

—12 Dec 2009—

(IC-66180) Ashish Agarwal, Mech Inf
 (IC-66183) Ravinder Singh, Inf
 (IC-66186) Samrat Kaushal, Arty
 (IC-66270) Milind Sharma, Arty
 (IC-66294) Sarbjeet Singh, Arty

(IC-66298) Aman Kumar, Mech Inf
 (IC-66317) Ashiq Rishabh, Mech Inf

—17 Apr 2007—

IC No., Name, Arm and Date of Subs Capt
 (IC-66055) Sarfraz Singh Sanghera, Inf, 20 Oct 2006
 IC No., Name, Arm
 (IC-66150) Anupam Sharma, Sigs
 (IC-66151) Dinesh Kumar, Engrs
 (IC-66153) N Ashok, EME
 (IC-66154) Alok Kumar, Engrs
 (IC-66156) Gaurav Thakur, Sigs
 (IC-66157) Om Prakash Yadav, Sigs
 (IC-66158) Gaurav Moudgil, Sigs
 (IC-66159) Saurabh Lohani, Sigs
 (IC-66161) Agashe Bipin Vinay, Engrs
 (IC-66163) Alankar Vilas Umdekar, Sigs
 (IC-66165) Vinay Kumar Sharma, Sigs
 (IC-66166) Deshmukh Yogendra Anil, EME
 (IC-66167) Mahesh B A, Engrs
 (IC-66168) Sandeep B G, EME
 (IC-66173) Ananthakeshava B N, Sigs

—16 Dec 2004—

SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Lt to be Capt

WS No., Name, Arm, Seniority, Course, Revised date of seniority, date of promotion for substantive Capt
 (WS-01280) Anupreksha Rawat, Sigs, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010
 (WS-01283) Neha Jain, AAD, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010
 (WS-01285) Priyanka Kandpal, AOC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010
 (WS-01287) Deepika Saini, ASC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010
 (WS-01297) Asha Kuntal, AOC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010
 (WS-01299) Sheilza Dogra, AEC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Sep 2007, 17 Sep 2009
 (WS-01303) Amanpreet Kaur, AOC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010
 (WS-01313) Charul Bhatt, JAG, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010

(WS-01314) Sujata Chaudhary, AEC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Sep 2007, 17 Sep 2009

(WS-01321) Soumita Ganguly, AEC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Sep 2007, 17 Sep 2009

(WS-01322) Sangeeta, ASC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010

(WS-01323) Vaishali Sharma, JAG, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010

(WS-01330) Baby Padmaja Thota, AOC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010

(WS-01331) Ritika Sharma, AOC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010

(WS-01343) Ritu Solanki, ASC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010

(WS-01344) Himani Luthra, AEC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Sep 2007, 17 Sep 2009

(WS-01350) Upasana Yadav, ASC, 17 Mar 2007, WSES (O)-29 (NT), 17 Mar 2008, 17 Mar 2010

(WS-01282) Charu Sharma, Sigs

(WS-01286) Tania Paul Chowdhury, Sigs

(WS-01288) Nidhi Chandel, Engrs

(WS-01290) Suman Kumari, Sigs

(WS-01291) Ghodke Madhuri Dattatraya, Sigs

(WS-01294) Syeda Firasatunnisa Begum, Sigs

(WS-01295) Bhawna Kumari, EME

(WS-01296) Deepali Negi, Sigs

(WS-01302) Kamini Pokhariya, EME

(WS-01308) Shivani Garg, Engrs

(WS-01309) Sumukhi Misri, EME

(WS-01316) Sneha Susanitty, Sigs

(WS-01318) Mandeep Kaur Mann, EME

(WS-01319) PN Sirisha, Sig

(WS-01320) Jaya Mehta, EME

(WS-01324) Ruchika, EME

(WS-01326) Aarti Prasher, Engrs

(WS-01334) Prarthana Singh, EME

(WS-01336) Reetika Malhotra, Sigs

(WS-01338) Megha Gupta, EME

(WS-01340) Menon Sunita Ramadas, Engrs

(WS-01342) Munshi Natasha Riyazahmed, Sigs

(WS-01345) Poonam Sharma, Sigs

(WS-01347) Pragya Shukla, Sigs

(WS-01349) Amrita Singh, Engrs

—20 Mar 2010—

(WS-00998) Arshpreet, ASC

(WS-00999) Reenu Tanwar, Sigs

(WS-01022) Manju Sharma, AOC

(WS-01023) Reeti, Int

(WS-01025), Asha Mehra, AOC

(WS-01031) Ritu Parmar, ASC

(WS-01033) Nirja Ojha, AEC

(WS-01037) Shikha Chauhan, AAD

(WS-01048) Taruna Thakur, AEC

(WS-01052) Jasmine Sangwan, Engrs

(WS-01056) Meenakshi Lakhera, AEC

(WS-01062) Gargi Priyadarshani Saikia, AEC

—19 Mar 2010—

JASWANT SINGH

Jt Dir

MS-8C

ARMY BRANCH

No. 483, dated 29th July 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Om Prakash (JC-146782P), 01 May 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Kalam Singh (JC-488846P), 01 Apr 2010

Nb Sub Mewa Singh (JC-841469M), 01 May 2010

Nb Sub Karna Bahadur Thapa (JC-841471K), 01 May 2010

Nb Sub Balakrishnan K (JC-841479W), 01 May 2010

Nb Sub Ram Singh Tomar (JC-145448F), 01 May 2010

Nb Sub Surendra Singh (JC-418111N), 01 May 2010

Nb Sub Vijay Kumar Pandey (JC-255301N), 01 May 2010

Nb Sub Vijay Singh (JC-256863X), 01 May 2010

Nb Sub Rajeshwar Singh (JC-220933A), 01 May 2010

Nb Sub Joginder Singh (JC-498657Y), 01 May 2010

PRADEEP KUMAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 484, dated 29th July 2010—The President is pleased to make the following promotions/appointments :—

REGULAR ARMY

CORPS OF SIGNALS

To be Subs Sub Maj (Y of S)

Sub Rahmat Hussain (JC-369560W), 01 Oct 2009

Sub J Padinhare Veedu (JC-369564M), 01 Jan 2010

Sub UKK Veettil (JC-369874X), 01 Jan 2010

Sub Satyavir (JC-369883Y), 04 Jan 2010

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Tejbir Singh (JC-369884F), 01 Jan 2010

Sub Sahdeo Prasad (JC-370166X), 01 Jan 2010

Sub Sisir Kumar Guha (JC-370172L), 06 Jan 2010

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar Major (F of S)

Sub Hare Ram Jha (JC-368528P), 01 Nov 2009

Sub Prem Pal Singh (JC-367959P), 01 Dec 2009

Sub Ram Swarup (JC-367966L), 04 Dec 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Sagat Singh Negi (JC-368552L), 01 Jan 2010

Sub Chacko AD (JC-368564A), 01 Jan 2010

Sub Ram Rattan (JC-368565H), 01 Feb 2010

Sub Poonma Ram Bishnoi (JC-368568W), 01 Feb 2010

Sub Gheesa Ram (JC-368570N), 01 Mar 2010

Sub M Chakrapani Reddy (JC-368578A), 01 Mar 2010

Sub Prakash Chand (JC-368579H), 01 Apr 2010

To be Subs Sub Maj (OP CIPHER)

Sub S Atakkandy (JC-372362W), 23 Dec 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Sub DS Yadav (JC-372495M), 07 Dec 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Tomar Randhir Singh (JC-372521H), 01 Jan 2010

Sub A Aruna Chalam (JC-362613P), 01 Feb 2010

Sub Nilkanta Das (JC-372732L), 01 Apr 2010

To be Subs Sub Maj (OSS)

Sub Jayan KN (JC-371647W), 01 Jan 2010

Sub Satpaul Sharma (JC-371653K), 01 Jan 2010

Sub Harbans Singh (JC-371751K), 01 Feb 2010

Sub Kancharla Jaya Prakash (JC-371512P), 01 Mar 2010

To be Subs Sub Maj [Clk (SD)]

Sub Omkar Singh (JC-370781P), 01 Apr 2010

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub LV Kokate (JC-371848P), 01 Feb 2010

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Alakh Nath Singh (JC-371881M), 01 Nov 2009

Sub Krishna Prasad Singh (JC-371884A), 01 Nov 2009

Sub Prem Narayan Singh (JC-371889Y), 01 Nov 2009

Sub Ram Paul Sharma (JC-371896P), 01 Nov 2009

Sub Braham Prakash (JC-372090F), 01 Nov 2009

Sub Bhoop Singh (JC-372088K), 01 Nov 2009

Sub Rajendar Singh (JC-372089M), 01 Nov 2009

Sub Des Raj (JC-372092M), 01 Nov 2009

Sub Kulwant Singh (JC-372105Y), 01 Dec 2009

Sub Raj Kumar (JC-372108M), 01 Dec 2009

Sub Hari Narayan (JC-372109P), 03 Dec 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Satnam Singh (JC-371480X), 03 Dec 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Jagjit Singh (JC-371659L), 01 Jan 2010

Sub Rang Nath Kuar (JC-371874W), 01 Jan 2010

Sub AK Mishra (JC-371875Y), 01 Jan 2010

Sub Karam Singh (JC-372119Y), 01 Feb 2010

Sub Ved Prakash Yadav (JC-372120N), 01 Feb 2010

Sub Shri Ram (JC-372127X), 01 Feb 2010

Sub Suraj Bhan Yadav (JC-372129H), 03 Mar 2010

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Preman KV (JC-372132H), 07 Feb 2010

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Sub K Subramanian (JC-372136Y), 01 Feb 2010

Sub Ram Outar (JC-372139M), 01 Feb 2010

Sub Balbir Singh (JC-372242X), 02 Mar 2010

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Vijay Kumar (JC-372245L), 01 Mar 2010

Sub Brahama Nand (JC-372247W), 01 Mar 2010

Sub Vijay Kumar Kujur (JC-372249F), 01 Mar 2010

Sub Mathew KS (JC-372534A), 01 Apr 2010

Sub Parab Subhash Bablo (JC-372556Y), 01 Apr 2010

Sub Randhir Singh (JC-372559M), 01 Apr 2010

To be Subs Subedar (GD)

Nb Sub Champa Ram Nayak (JC-375772X), 01 Feb 2008

Nb Sub Birendra Kumar Singh (JC-375773A), 01 Feb 2008

Nb Sub Chhotan Mahto (JC-375774H), 01 Feb 2008

Nb Sub Ram Bahadur (JC-375776N), 01 Feb 2008

Nb Sub Rabindra Prasad (JC-375777W), 01 Feb 2008

Nb Sub Raj Deo Verma (JC-375780W), 01 Feb 2008

Nb Sub Tek Chand (JC-375798M), 01 Feb 2008

Nb Sub Rang Lal Singh (JC-375712N), 01 Feb 2008

Nb Sub Darshan Kumar (JC-375813W), 01 Feb 2008

Nb Sub Rumel Singh (JC-375815F), 01 Feb 2008

Nb Sub Bhagwat Dayal (JC-375816K), 01 Feb 2008

Nb Sub Ganga Prasad (JC-375818P), 01 Feb 2008

Nb Sub Shiwa Kant Ojha (JC-375819X), 01 Feb 2008

Nb Sub Mayadhar Behera (JC-375820M), 01 Feb 2008

Nb Sub Balwant Singh (JC-375822X), 01 Feb 2008

Nb Sub Gulzar Singh (JC-375823A), 01 Feb 2008

Nb Sub Alakh Narain (JC-375824H), 01 Feb 2008

Nb Sub Madhusudanan K (JC-375826N), 01 Feb 2008

Nb Sub Ram Vinod Singh (JC-375827W), 01 Feb 2008

Nb Sub Anand Singh Bisht (JC-375829F), 01 Feb 2008

Nb Sub Parmeshwar Tiwari (JC-375832F), 01 Feb 2008

Nb Sub Ravindran Nath P K (JC-375833K), 01 Feb 2008

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-375834M), 01 Feb 2008

Nb Sub A N Prasad Kumar (JC-375835P), 01 Feb 2008

Nb Sub Sehdev Singh (JC-375838H), 01 Feb 2008

Nb Sub Balbir Singh (JC-375839L), 28 Feb 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sagar Mal (JC-375840A), 01 Feb 2008

Nb Sub Ram Sewak (JC-375841H), 01 Feb 2008

Nb Sub Ram Chandra (JC-375842L), 01 Feb 2008

Nb Sub Ram Babu Kushwaha (JC-375843N), 01 Feb 2008

Nb Sub Kashmir Singh (JC-375844W), 01 Feb 2008

Nb Sub Ram Prakash (JC-375915M), 01 Feb 2008

Nb Sub Krishan Lal (JC-375874N), 01 Mar 2008

Nb Sub Ram Chandra Dara (JC-375875W), 01 Mar 2008

Nb Sub Jaswant Singh (JC-375876Y), 01 Mar 2008

Nb Sub Bishamber Dayal (JC-375877F), 01 Mar 2008

Nb Sub Bachaspati Sharma (JC-375878K), 01 Mar 2008

Nb Sub Padma Nand Jha (JC-375884X), 01 Mar 2008

Nb Sub J P Pandey (JC-375885A), 01 Mar 2008

Nb Sub Gulab Singh (JC-375886H), 07 Mar 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Kushi (JC-375888N), 10 Mar 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Baljit Singh (JC-375889W), 01 Mar 2008

Nb Sub D N Tiwari (JC-375891N), 01 Mar 2008

Nb Sub Sudama Roy (JC-375892W), 01 Mar 2008

Nb Sub Raghbir Singh (JC-375895K), 01 Mar 2008

Nb Sub R K Vishnoi (JC-375896M), 01 Mar 2008

Nb Sub Ramnath Yadav (JC-375897P), 01 Mar 2008

Nb Sub Satyendra Singh (JC-375899A), 01 Mar 2008

Nb Sub B S G Rao (JC-375900K), 01 Mar 2008

Nb Sub Lallan Pandey (JC-375901M), 01 Mar 2008

Nb Sub Baljit Singh (JC-375902P), 01 Mar 2008

Nb Sub Hargovind Singh (JC-375903X), 01 Mar 2008

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-375904A), 02 Mar 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rishi Muni Sharma (JC-3756592F), 01 Apr 2008

Nb Sub Bindeshwar Prasad (JC-375906L), 01 Apr 2008
 Nb Sub Hiralal (JC-375907N), 01 Apr 2008
 Nb Sub Phul Singh (JC-375908W), 01 Apr 2008
 Nb Sub Ram Kumar (JC-375911W), 01 Apr 2008
 Nb Sub Bhola Singh (JC-375913F), 01 Apr 2008
 Nb Sub Rajender Singh (JC-375912Y), 01 Apr 2008
 Nb Sub Beant Singh (JC-375914K), 01 Apr 2008
 Nb Sub Surjit Singh (JC-375969N), 01 Apr 2008
 Nb Sub Mani Ram (JC-375967H), 01 Apr 2008
 Nb Sub C B Tripathi (JC-375968L), 01 Apr 2008
 Nb Sub Pocker T M (JC-375970H), 01 Apr 2008
 Nb Sub Binder Pal (JC-375971L), 01 Apr 2008
 Nb Sub Suresh Kumar (JC-375973W), 01 Apr 2008
 Nb Sub Ved Prakash (JC-376001P), 01 Apr 2008
 Nb Sub Junas Purty (JC-375976K), 01 Apr 2008
 Nb Sub Suresh Digambar M (JC-375977M), 01 Apr 2008
 Nb Sub Dinesh Singh (JC-375978P), 01 Apr 2008
 Nb Sub Jyoti Prokash Mandal (JC-375979X), 01 Apr 2008
 Nb Sub Khyali Ram (JC-375980M), 01 Apr 2008
 Nb Sub Vijender Kumar (JC-375981P), 01 Apr 2008
 Nb Sub D P Vijaya Kumar (JC-375982X), 01 Apr 2008
 Nb Sub Braham Pal Singh (JC-375984H), 01 Apr 2008
 Nb Sub Kuldeep Singh (JC-375985L), 01 Apr 2008
 Nb Sub Tarsem Lal (JC-375986N), 01 Apr 2008
 Nb Sub D P Das (JC-375987W), 01 Apr 2008
 Nb Sub Sasi N A (JC-375988Y), 01 Apr 2008
 Nb Sub Thulaseedharan K (JC-375989F), 01 Apr 2008
 Nb Sub Gautam Chakraborty (JC-375990W), 01 Apr 2008
 Nb Sub Sarwar Singh (JC-375991Y), 01 Apr 2008
 Nb Sub Sasidhara Kurup N R (JC-375994M), 08 Apr 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Bale Ram (JC-375995P), 01 Apr 2008
 Nb Sub Avtar Singh (JC-375996X), 01 Apr 2008
 Nb Sub Mandhir Singh (JC-375997A), 01 Apr 2008
 Nb Sub D S Khetwal (JC-375998H), 01 Apr 2008
 Nb Sub Jagmail Singh (JC-376000M), 01 Apr 2008

Nb Sub Ram Janam Singh (JC-376035H), 01 Apr 2008
 Nb Sub Sohendra Singh (JC-376036L), 01 Apr 2008
 Nb Sub Naresh Chander Singh (JC-376041W), 01 Apr 2008
 Nb Sub Yashwant Singh (JC-376042Y), 01 Apr 2008
 Nb Sub D Bahadur Pradhan (JC-376043F), 01 Apr 2008
 Nb Sub Subrata Kumar K E S (JC-376044K), 01 Jun 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Sumer Singh (JC-376047X), 01 Apr 2008
 Nb Sub Om Prakash (JC-376048A), 01 Apr 2008
 Nb Sub Rajeshwar Tiwari (JC-376049H), 01 Apr 2008
 Nb Sub Fatta Ram Bhakar (JC-376069W), 03 Apr 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Kedar Nath Pandey (JC-376075K), 01 Apr 2008
 Nb Sub Y Kedar Eswar (JC-376077P), 01 Apr 2008
 Nb Sub Yad Ram (JC-376080P), 01 Apr 2008
 Nb Sub Jagdish (JC-376081X), 01 Apr 2008
 Nb Sub Mahavir Singh (JC-376084L), 12 Apr 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Gurbachan Singh (JC-376085N), 01 Apr 2008
 Nb Sub Prema Nandan V (JC-376086W), 01 May 2008
 Nb Sub Lakshman Singh (JC-376087Y), 01 May 2008
 Nb Sub Ram Bahadur Thapa (JC-376088F), 01 May 2008
 Nb Sub Ami Lal (JC-376089K), 01 May 2008
 Nb Sub Arwind Singh (JC-376218Y), 13 May 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Gurbhajan Singh (JC-376140Y), 01 May 2008
 Nb Sub Pawan Kumar (JC-376141F), 01 May 2008
 Nb Sub S C S Kushwah (JC-376142K), 15 May 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Muraleedharan K M (JC-376145X), 01 May 2008
 Nb Sub Nil Ratan Bala (JC-376147H), 01 May 2008
 Nb Sub Satya Kumar (JC-376150H), 01 May 2008
 Nb Sub Jagdish Gill (JC-376151L), 01 May 2008

Nb Sub P K Sahu (JC-376153W), 01 May 2008

Nb Sub M D Majjuddin (JC-376155F), 01 May 2008

Nb Sub Tilak Raj (JC-376156K), 01 May 2008

Nb Sub Dharmender Singh (JC-376159X), 18 May 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sulinder Singh (JC-376160M), 01 May 2008

Nb Sub Prakash Chand (JC-376161P), 01 May 2008

Nb Sub Shree Kumar K K (JC-376162X), 01 May 2008

Nb Sub Ramanuj Verma (JC-376163A), 01 May 2008

Nb Sub R K Singh Chauhan (JC-376164H), 15 May 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Umed Singh (JC-376165L), 01 May 2008

Nb Sub Satya Pal (JC-376166N), 01 May 2008

Nb Sub Krishan Kumar (JC-376167W), 01 May 2008

Nb Sub Jaivir Singh (JC-376168Y), 05 May 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub S D Singh Chauhan (JC-376170W), 01 May 2008

Nb Sub Durga Prasad (JC-376171Y), 01 May 2008

Nb Sub Mathuresh Kumar (JC-376172F), 01 May 2008

Nb Sub Madhu Sudan Chanda (JC-376146A), 02 Nov 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nek Mohammad (JC-376148L), 02 Nov 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Devinder Prakash (JC-375665W), 02 May 2008

Nb Sub Makbool Ahmad (JC-375684F), 02 May 2008

Nb Sub M D Nurmahammad Ali (JC-375744L), 02 May 2008

Nb Sub Mohinder Pal Singh (JC-375795Y), 05 May 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Singh Dahiya (JC-375828Y), 02 May 2008

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-375831Y), 03 May 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharamvir Singh (JC-375836X), 06 May 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-375837A), 02 May 2008

Nb Sub Jagroop Singh (JC-375882M), 02 May 2008

Nb Sub L Velu (JC-375893Y), 01 Jun 2008

Nb Sub Soman K (JC-375972N), 01 Jun 2008

Nb Sub Dhruba Saha (JC-375983A), 01 Jun 2008

Nb Sub Rajender Lal Chandel (JC-376073Y), 01 Jun 2008

Nb Sub Hisam Singh (JC-376154Y), 01 Jun 2008

Nb Sub Jai Bhagwan (JC-376158P), 02 Jun 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Kanwar Narwal (JC-376173K), 01 Jun 2008

Nb Sub Rikhi Paul (JC-376174M), 01 Jun 2008

Nb Sub Ram Chandra Saroj (JC-376175P), 01 Jun 2008

Nb Sub Kanhaiya Lal Ram (JC-376177A), 01 Jun 2008

Nb Sub Pawan Kumr (JC-376178H), 01 Jun 2008

Nb Sub R Prathap Kumar (JC-376180A), 01 Jun 2008

Nb Sub Umesh Lal Singh (JC-376182L), 01 Jun 2008

Nb Sub Sunda Ram (JC-376183N), 01 Jun 2008

Nb Sub Sahib Singh (JC-376184W), 01 Jun 2008

Nb Sub J K Pathak (JC-376197N), 01 Jun 2008

Nb Sub Krishan Kumar (JC-376198W), 01 Jun 2008

Nb Sub Sona Ram Kurasra (JC-376200H), 01 Jun 2008

Nb Sub Ram Niwas Vaishnav (JC-376201L), 01 Jun 2008

Nb Sub Jagvir Singh (JC-376202N), 01 Jun 2008

Nb Sub Pramod Kumar (JC-376204Y), 01 Jun 2008

Nb Sub Rakshpal Singh (JC-376205F), 04 Jun 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raj Singh (JC-376206K), 01 Jun 2008

Nb Sub Zile Singh Dara (JC-376207M), 05 Jul 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Arvind Kumar Singh (JC-376208P), 01 Jun 2008

Nb Sub Radhe Shyam Pandey (JC-376209X), 01 Jun 2008

Nb Sub Satbir Singh (JC-376210M), 01 Jun 2008

Nb Sub Rama Shanker Yadav (JC-376211P), 01 Jun 2008
 Nb Sub Nafe Singh (JC-376212X), 02 Jun 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Hardam Singh (JC-376214H), 01 Jun 2008
 Nb Sub Mohan Das (JC-376215L), 01 Jun 2008
 Nb Sub Yogendra Singh (JC-376216N), 01 Jun 2008
 Nb Sub S K Eshak Ali (JC-376236F), 01 Jul 2008
 Nb Sub Satyapal (JC-376237K), 01 Jul 2008
 Nb Sub Surender Kumar (JC-376238M), 01 Jul 2008
 Nb Sub Mihtlesh Kumar (JC-376239P), 03 Jul 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Partap Singh (JC-376240K), 01 Jul 2008
 Nb Sub Abdur Rahman S K (JC-376241M), 01 Jul 2008
 Nb Sub Ram Chandra Singh (JC-376242P), 01 Jul 2008
 Nb Sub Ganeshjee Ojha (JC-376246L), 01 Jul 2008
 Nb Sub Siddarth Chalawadi (JC-376247N), 01 Jul 2008
 Nb Sub Bijender Singh (JC-376283Y), 01 Jul 2008
 Nb Sub V Kathir Velu (JC-376284F), 01 Jul 2008
 Nb Sub Ashok Kumar (JC-376285K), 01 Jul 2008
 Nb Sub Raj Kumar Gurjar (JC-376288X), 01-Jul 2008
 Nb Sub Palwinder Singh (JC-376289A), 01 Jul 2008
 Nb Sub Tej Kumar (JC-376290P), 01 Jul 2008
 Nb Sub Surender Singh (JC-376291X), 01 Jul 2008
 Nb Sub Ajit Singh (JC-376292A), 01 Jul 2008
 Nb Sub Balvir Giri (JC-376293H), 01 Jul 2008
 Nb Sub Paras Ram (JC-376294L), 01 Jul 2008
 Nb Sub Ram Kishan (JC-376295N), 01 Jul 2008
 Nb Sub R C Choubey (JC-376297Y), 01 Jul 2008
 Nb Sub Om Kanwar (JC-376298F), 01 Jul 2008
 Nb Sub Dilbag (JC-376299K), 01 Jul 2008
 Nb Sub Ramesh Prasad Gupta (JC-376300N), 01 Jul 2008
 Nb Sub Gurdeep Singh (JC-376301W), 01 Jul 2008
 Nb Sub Suresh Kumar (JC-376316Y), 01 Jul 2008
 Nb Sub Sreekantan Nair V (JC-376318K), 01 Jul 2008
 Nb Sub Bailappa Kajagar (JC-376319M), 01 Jul 2008
 Nb Sub Laxmi Narain (JC-376320F), 01 Jul 2008
 Nb Sub Rakeshdhar (JC-376321K), 01 Jul 2008

Nb Sub Rajender Singh (JC-376324X), 01 Aug 2008
 Nb Sub H C Misra (JC-376325A), 01 Aug 2008
 Nb Sub N P Tripathi (JC-376326H), 01 Aug 2008
 Nb Sub Ramesh Chandra (JC-376327L), 01 Aug 2008
 Nb Sub D S Rawat (JC-376328N), 01 Aug 2008
 Nb Sub K S Chouhan (JC-376329W), 01 Aug 2008
 Nb Sub Todomal Vijay K L (JC-376330L), 01 Aug 2008
 Nb Sub U C Agnihotri (JC-376331N), 01 Aug 2008
 Nb Sub Sangram Singh (JC-376332W), 01 Aug 2008
 Nb Sub Deonarayan Singh (JC-376334F), 01 Aug 2008
 Nb Sub Baldev Singh (JC-376335K), 01 Aug 2008
 Nb Sub Vinchankar Arun (JC-376336M), 01 Aug 2008
 Nb Sub Amarjit (JC-376347Y), 01 Aug 2008
 Nb Sub Omkar Patel (JC-376348F), 01 Aug 2008
 Nb Sub Om Prakash Sihag (JC-376349K), 02 Aug 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Satpal (JC-376352K), 01 Aug 2008
 Nb Sub T S Bhou (JC-376353M), 01 Aug 2008
 Nb Sub Umesh Chand (JC-376354P), 01 Aug 2008
 Nb Sub Shankara Narayanan K (JC-376357H), 01 Aug 2008
 Nb Sub Krishna Kumar Diwedi (JC-376396F), 01 Aug 2008
 Nb Sub Vijay Pratap (JC-376397K), 01 Aug 2008
 Nb Sub Rajpal Singh (JC-376401F), 02 Nov 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Ashini Kanta Deka (JC-376403M), 01 Aug 2008
 Nb Sub Shiv Ram (JC-376248W), 29 Aug 2008
 Nb Sub Ram Kumar (JC-376404P), 01 Sep 2008
 Nb Sub Gopal Singh (JC-376406A), 01 Sep 2008
 Nb Sub Tara Chand (JC-376407H), 01 Sep 2008
 Nb Sub Ranbir Singh (JC-376408L), 02 Nov 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Rajinder Chand Katoch (JC-376410H), 01 Dec 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sudheer D (JC-376411L), 01 Sep 2008

Nb Sub M K Sharma (JC-376412N), 01 Sep 2008

Nb Sub Ajay Kumar Rai (JC-376414Y), 01 Sep 2008

Nb Sub Sudesh Kumar (JC-376415F), 08 Sep 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raj Pal (JC-376417M), 01 Sep 2008

Nb Sub Suresh Singh (JC-376418P), 01 Sep 2008

Nb Sub S S Sanigrahi (JC-376419X), 01 Sep 2008

Nb Sub Narvdeswar Pandey (JC-376420M), 01 Sep 2008

Nb Sub K S Sekhawat (JC-376421P), 01 Sep 2008

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-376422X), 01 Sep 2008

Nb Sub Rajvir Singh (JC-376423A), 01 Sep 2008

Nb Sub Om Prakash (JC-376425L), 01 Sep 2008

Nb Sub Ravi Singh (JC-376426N), 01 Sep 2008

Nb Sub Duni Chand (JC-376427W), 01 Sep 2008

Nb Sub Angrez Singh (JC-376428Y), 01 Sep 2008

Nb Sub Krishan Kumar Verma (JC-376431Y), 01 Sep 2008

Nb Sub Anantabh Mishra (JC-376432F), 01 Oct 2008

Nb Sub Vijay Kumar (JC-376433K), 01 Oct 2008

Nb Sub Budhi Singh (JC-376434M), 01 Oct 2008

Nb Sub Satya Nand Yadav (JC-376451M), 02 Oct 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Laxshman Singh (JC-376456L), 01 Oct 2008

Nb Sub Ram Bharose Lal (JC-376457N), 01 Oct 2008

Nb Sub Mahadik Sahaji K (JC-376458W), 01 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharam Raj (JC-376460N), 01 Oct 2008

Nb Sub Umesh Chandra Barman (JC-376461W), 01 Oct 2008

Nb Sub Shri Bhagwan (JC-376462Y), 01 Oct 2008

Nb Sub Udaibir Singh (JC-376463F), 01 Oct 2008

Nb Sub Dharam Vir Singh (JC-376464K), 01 Oct 2008

Nb Sub R P Chaudhary (JC-376465M), 01 Oct 2008

Nb Sub Bishnu Kumar Thapa (JC-376466P), 01 Oct 2008

Nb Sub Raghunath Singh (JC-376467X), 01 Oct 2008

Nb Sub S S Narayan Rao (JC-376468A), 01 Oct 2008

Nb Sub Jagdish Kumar (JC-376469H), 01 Oct 2008

Nb Sub J P Singh (JC-376470X), 01 Oct 2008

Nb Sub Jai Kishan (JC-376471A), 01 Oct 2008

Nb Sub Animesh Biswas (JC-376475W), 01 Oct 2008

Nb Sub Indra Narain Singh (JC-376476Y), 01 Oct 2008

Nb Sub Lakhmi Chand (JC-376478K), 01 Oct 2008

Nb Sub Rajbir Singh (JC-376479M), 01 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Phool Kumar (JC-376480F), 01 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shashi Kumar Pathak (JC-376482M), 06 Jan 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Prabhat Tripathi (JC-376509Y), 01 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Godhan Singh (JC-376510N), 01 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Varinder Kumar (JC-376511W), 01 Oct 2008

Nb Sub Mohan Lal (JC-376512Y), 01 Oct 2008

Nb Sub S N Singh (JC-376513F), 01 Oct 2008

Nb Sub Radha Pati Yadav (JC-376514K), 01 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chandra Bhan Sharma (JC-376515M), 01 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhagwan Ram Mothsra (JC-376516P), 01 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Paritosh Paul (JC-376517X), 01 Oct 2008

Nb Sub Khillu Ram (JC-376518A), 01 Oct 2008

Nb Sub Lakhmi Chand (JC-376519H), 01 Oct 2008

Nb Sub Harish Chandra Singh (JC-376520X), 01 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sudhir Kumar Jha (JC-376521A), 01 Oct 2008
 Nb Sub Ram Prawesh Prasad (JC-376522H), 01 Oct 2008
 Nb Sub Ram Phool Singh (JC-376523L), 01 Dec 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Ram Kumar Singh (JC-376524N), 01 Oct 2008
 Nb Sub Umed Singh (JC-376525W), 01 Oct 2008
 Nb Sub BK Singh (JC-376526Y), 01 Nov 2008
 Nb Sub Subrata Sinha (JC-376527F), 03 Dec 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Sher Deen (JC-376528K), 01 Nov 2008
 Nb Sub Digar Singh (JC-376529M), 01 Dec 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Shamsher Singh (JC-376530F), 01 Dec 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Om Prakash (JC-376532M), 01 Dec 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Lakshmanan S (JC-376533P), 01 Nov 2008
 Nb Sub Satpal Singh (JC-376534X), 01 Dec 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Sadhu Ram Pundir (JC-376535A), 01 Nov 2008
 Nb Sub Slochan Kumar (JC-376536H), 01 Nov 2008
 Nb Sub Pritam Chand (JC-376537L), 01 Dec 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Ram Bilas Singh (JC-376539W), 01 Nov 2008
 Nb Sub Naresh Chandra (JC-375881K), 12 Nov 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 Nov 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Ram Phal (JC-376169F), 02 Nov 2008
 Nb Sub Brajendra Singh (JC-376176X), 02 Nov 2008
 Nb Sub Charan Singh (JC-376282W), 02 Nov 2008
 Nb Sub Bajrang (JC-376317F), 02 Nov 2008
 Nb Sub Raghvendra (JC-376322M), 10 Nov 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Varughese Kurian (JC-376351F), 02 Nov 2008
 Nb Sub JK Dohare (JC-376355X), 02 Nov 2008
 Nb Sub Shiv Prasad (JC-376356A), 02 Nov 2008
 Nb Sub Satya Narain Sharma (JC-376399P), 02 Nov 2008
 Nb Sub AK Sharma (JC-376413W), 01 Dec 2008
 Nb Sub Jagdish Chand (JC-376416K), 01 Dec 2008
 Nb Sub Rajinder Kumar (JC-376429F), 01 Dec 2008
 Nb Sub Dhara Singh (JC-376481K), 12 Dec 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub M Subramanian (JC-376538N), 01 Dec 2008
 Nb Sub Munna Lal (JC-376540L), 16 Dec 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Abdur Rahman (JC-376541N), 01 Dec 2008
 Nb Sub Ramashish Choudhary (JC-376542W), 01 Dec 2008
 Nb Sub Pradeep Kumar (JC-376543Y), 01 Dec 2008
 Nb Sub S Muthu Mariappan (JC-376545K), 01 Dec 2008
 Nb Sub Vishwa Karma (JC-376546M), 01 Jan 2009
 Nb Sub BS Kaswan (JC-376547P), 01 Jan 2009
 Nb Sub Udaya Shanker Singh (JC-376568L), 30 Jan 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Chhedi Lal (JC-376569N), 01 Jan 2009
 Nb Sub Rajendra Kumar (JC-376570H), 14 Jan 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Subhan Dey (JC-376571L), 01 Jan 2009
 Nb Sub Bidyadhar Barman (JC-376572N), 01 Jan 2009
 Nb Sub Vishwanath Pandey (JC-376573W), 01 Jan 2009
 Nb Sub Tilak Raj (JC-376574Y), 01 Jan 2009
 Nb Sub Rohtash Singh (JC-376575F), 01 Jan 2009
 Nb Sub Rajbir (JC-376576K), 01 Jan 2009
 Nb Sub JNS Nakhat Sinh (JC-376577M), 10 Jan 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Anup Singh (JC-376579X), 01 Jan 2009
 Nb Sub Sree Bhagwan (JC-376580M), 01 Jan 2009

- Nb Sub Bhaskar Singh (JC-376581P), 01 Jan 2009
- Nb Sub Ajay Kumar Swain (JC-376582X), 01 Jan 2009
- Nb Sub Santosh Kumar (JC-376583A), 01 Jan 2009
- Nb Sub Dinesh Kumar Singh (JC-376584H), 01 Feb 2009
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ranbir (JC-376585L), 01 Jan 2009
- Nb Sub Chandrajit Singh (JC-376586N), 01 Feb 2009
- Nb Sub Mahendra Singh (JC-376588Y), 13 Feb 2009
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub KC Sahoo (JC-376589F), 01 Feb 2009
- Nb Sub Padma Kumar A (JC-376590W), 01 Feb 2009
- Nb Sub Daya Prasad Singh (JC-376591Y), 01 Feb 2009
- Nb Sub Om Prakash (JC-376609K), 01 Feb 2009
- Nb Sub Radhe Shyam Kumhar (JC-376610Y), 01 Feb 2009
- Nb Sub Sadanandan K (JC-376611F), 01 Feb 2009
- Nb Sub Sultan Singh Yadav (JC-376612K), 01 Feb 2009
- Nb Sub Ram Niwash (JC-376613M), 22 Feb 2009
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ramhit (JC-376615X), 01 Feb 2009
- Nb Sub BRSS Singh (JC-376634H), 01 Feb 2009
- Nb Sub SK Tiwari (JC-376636N), 01 Feb 2009
- Nb Sub Narayan Dutt Sharma (JC-376638Y), 01 Feb 2009
- Nb Sub Bharat Singh (JC-376640W), 01 Feb 2009
- Nb Sub Satya Narayan Gupta (JC-376641Y), 01 Feb 2009
- Nb Sub Kurian Antony (JC-376642F), 01 Feb 2009
- Nb Sub Devendra Singh (JC-376643K), 01 Feb 2009
- Nb Sub Om Prakash Tiwari (JC-376644M), 01 Feb 2009
- Nb Sub Jaivir (JC-376645P), 01 Feb 2009
- Nb Sub Sunder Lal (JC-376548X), 15 Mar 2009
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Jagender Singh (JC-376646X), 01 Mar 2009
- Nb Sub BS Rautela (JC-376647A), 03 Mar 2009
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Pramod Kumar Pali (JC-376648H), 01 Mar 2009
- Nb Sub M Anwar Alam (JC-376649L), 01 Mar 2009
- Nb Sub Lautu Ram (JC-376650A), 01 Mar 2009
- Nb Sub Sarwan Kumar (JC-376653N), 01 Mar 2009
- Nb Sub Surendra Singh (JC-376654W), 01 Mar 2009
- Nb Sub Naresh Kumar (JC-376656F), 01 Mar 2009
- Nb Sub D L Chlotra (JC-376657K), 01 Mar 2009
- Nb Sub Khim Singh Chauhan (JC-376660K), 25 Mar 2009
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Raghubir Singh (JC-376662P), 01 Mar 2009
- Nb Sub Jai Prakash Rai (JC-376663X), 01 Mar 2009
- Nb Sub Man Singh (JC-376664A), 01 Mar 2009
- Nb Sub Pradeep Kumar Singh (JC-376665H), 01 Mar 2009
- Nb Sub L S Kushawaha (JC-376667N), 01 Mar 2009
- Nb Sub Balwant Singh (JC-376668W), 01 Mar 2009
- Nb Sub Ved Prakash (JC-376669Y), 01 Mar 2009
- Nb Sub Vijay Kumar (JC-376711M), 09 Apr 2009
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ramesh Kumar (JC-376712P), 01 Apr 2009
- Nb Sub Mahima Singh (JC-376713X), 01 Apr 2009
- Nb Sub Radha Mohan Singh (JC-376715H), 01 Apr 2009
- Nb Sub Yogendra Kumar (JC-376719Y), 01 Apr 2009
- Nb Sub Vijayan P T (JC-376720N), 08 Apr 2009
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Geeta Ram Sati (JC-376721W), 01 Apr 2009
- Nb Sub Shambhoo Nath Sharma (JC-376723F), 01 Apr 2009
- Nb Sub Purna Chandra Biswal (JC-376724K), 01 Apr 2009
- Nb Sub George E J (JC-376725M), 01 Apr 2009
- Nb Sub Harpal Singh (JC-376728A), 01 Apr 2009
- Nb Sub T Sreenivas (JC-376729H), 01 Apr 2009
- Nb Sub Ramesh Pal Singh (JC-376730X), 08 Apr 2009
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Rajender Singh (JC-376731A), 01 Apr 2009
- Nb Sub Vasu Dev (JC-376733L), 01 Apr 2009

Nb Sub Sarjivan Parmar (JC-376735W), 01 Apr 2009
 Nb Sub Satish Chandra Pal (JC-376788P), 01 Apr 2009
 Nb Sub Lalasab Fakirasab Indiginal (JC-376790M),
 01 Apr 2009
 Nb Sub Amarendra Kishor (JC-376791P), 01 Apr 2009
 Nb Sub Satya Pal Singh (JC-376793A), 01 Apr 2009
 Nb Sub Balkaran Singh (JC-376794H), 01 Apr 2009
 Nb Sub Laxman Singh (JC-376795L), 01 Apr 2009
 Nb Sub Ram Naresh Singh (JC-376796N), 01 Apr 2009
 Nb Sub Kewal Singh (JC-376797W), 01 Apr 2009
 Nb Sub Upendra Kumar Singh (JC-376798Y), 01 Apr 2009
 Nb Sub S C Srivastav (JC-376800L), 01 Apr 2009
 Nb Sub Devendra Singh (JC-376802W), 01 Apr 2009
 Nb Sub Vipran Chander (JC-376803Y), 01 Apr 2009
 Nb Sub Hare Ram Singh (JC-376804F), 01 Apr 2009
 Nb Sub Ramesh Chander (JC-376805K), 01 Apr 2009
 Nb Sub Bhumi Dev (JC-376806M), 01 Apr 2009
 Nb Sub Ashok Kumar Sharma (JC-376807P), 01 Apr 2009
 Nb Sub Jaivir Singh (JC-376808X), 01 Apr 2009
 Nb Sub Sonone Shankar Nathu (JC-376810P), 06 Apr
 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without
 effect on pay and allowances)
 Nb Sub Ranjit Kumar Mandal (JC-376844H), 01 Apr 2009
 Nb Sub Shinde Shankar Mahipat (JC-376846N), 01 Apr
 2009
 Nb Sub Yadav Ashok Laxman (JC-376847W), 01 Apr 2009
 Nb Sub Ramesh Chand (JC-376849F), 28 Apr 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without
 effect on pay and allowances)
 Nb Sub Thanjavuru S Ganesh (JC-376850W), 01 Apr 2009
 Nb Sub Giridhari Singh (JC-376851Y), 01 May 2009
 Nb Sub Sujit Kumar Debnath (JC-376852F), 01 May 2009
 Nb Sub Rajan Singh (JC-376853K), 17 May 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2009 without
 effect on pay and allowances)
 Nb Sub Bikash Chandra Bhandari (JC-376855P), 01 May
 2009
 Nb Sub J P Gupta (JC-376854M), 12 May 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2009 without
 effect on pay and allowances)

Nb Sub Bir Singh (JC-376856X), 01 Jun 2009
 Nb Sub Gurnam Singh (JC-376857A), 01 Jun 2009
 Nb Sub Ram Ashish Ram (JC-376859L), 01 Jun 2009
 Nb Sub Sunil Kumar Singh (JC-376861H), 01 Jun 2009
 Nb Sub Ravindra Pal Singh (JC-376863N), 01 Jun 2009
 Nb Sub Ashok Kumar Ghosh (JC-376864W), 01 Jun 2009
 Nb Sub Surendra Singh (JC-376865Y), 01 Jun 2009
 Nb Sub Man Mohan Tickoo (JC-376866F), 09 Jun 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without
 effect on pay and allowances)
 Nb Sub Bikram Singh (JC-376869P), 01 Jun 2009
 Nb Sub Devi Dayal Verma (JC-376870K), 01 Jun 2009
 Nb Sub Uttam Kumar Mallick (JC-376881W), 01 Jun 2009
 Nb Sub Tukheswar Gogoi (JC-376882Y), 01 Jul 2009
 Nb Sub Ram Sajiwan Mishra (JC-376884K), 01 Jul 2009
 Nb Sub Gian Chand (JC-376885M), 01 Jul 2009
 Nb Sub K D Chauhan (JC-376886P), 01 Jul 2009
 Nb Sub Lokanath Maharana (JC-376887X), 01 Jul 2009
 Nb Sub Shiv Poojan (JC-376888A), 01 Jul 2009
 Nb Sub Prasanta Mondal (JC-376889H), 01 Jul 2009
 Nb Sub Ramanand (JC-376890X), 01 Jul 2009
 Nb Sub Umesh Chauhan (JC-376891A), 01 Jul 2009
 Nb Sub Jit Singh (JC-376892H), 01 Jul 2009
 Nb Sub Trilok Chand (JC-376893L), 01 Jul 2009
 Nb Sub Net Ram (JC-376894N), 01 Jul 2009
 Nb Sub Subhash Chander (JC-376895W), 01 Jul 2009
 Nb Sub Nishan Singh (JC-376896Y), 01 Jul 2009

CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

Hav Balkar Singh (No. 14387068K now JC-300811K),
 22 Jun 2008/08 Jun 2008*
 BHM Diwan Singh (No. 14386252H now JC-300812M),
 17 Oct 2008/01 Oct 2008*
 BHM Deva Dasan M (No. 14394910Y now JC-300813P),
 23 Feb 2009/01 Dec 2008*
 BHM Balkar Singh (No. 14390212Y now JC-300814X),
 22 Feb 2009/01 Feb 2009*
 Hav Sugith Kumar R S (No. 14405581W now JC-300815A),
 09 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav Dhonnar Shivaji Vithoba (No. 14408666X now JC-300816H), 17 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav M Chandra Mohana Reddy (No. 13979079H now JC-300817L), 25 Mar 2009/24 Feb 2009*

Hav Jaya Kumar S (No. 14386208Y now JC-300818N), 04 Mar 2009/01 Mar 2009*

BHM Rajender Singh (No. 14389751H now JC-300819W), 04 Mar 2009/01 Mar 2009*

BHM Nara Singh Yadav (No. 14371648P now JC-300820L), 30 Mar 2009/05 Mar 2009*

BHM Jay Prakash (No. 15101840N now JC-300821N), 01 Apr 2009/01 Jan 2009*

Hav Nayaka Naran Bhai Chhagan Bhai (No. 14385005H now JC-300822W), 09 Mar 2009/02 Feb 2009*

Hav Jiledar Singh (No. 14388279Y now JC-300823Y), 12 Feb 2009/07 Feb 2009*

Hav Pukkla Raja Rao (No. 13979400F now JC-300824F), 25 Mar 2009

RHM Ram Siya (No. 14393019X now JC-300825K), 11 Apr 2009/01 Mar 2009*

BHM Kartar Singh (No. 14383508Y now JC-300826M), 09 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Sukhdev Singh (No. 14392820Y now JC-300827P), 21 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Mahipal Singh (No. 14392223K now JC-300828X), 12 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Surinder Singh (No. 15100763X now JC-300829A), 04 Mar 2009/01 Mar 2009*

RHM Durvijai Singh (No. 15103741K now JC-300830P), 04 Mar 2009/01 Mar 2009*

BHM Som Nath (No. 14390354W now JC-300831X), 06 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav Sukhchain Singh (No. 14386598M now JC-300832A), 06 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav A Arocikia David (No. 14403788X now JC-300833H), 04 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav Rajbrat Singh Tomar (No. 15105214F now JC-300834L), 12 May 2009/01 Jul 2008*

RHM Harish Chandra Joshi (No. 15767708L now JC-300835N), 05 May 2009/01 May 2009*

RHM Parvash (No. 14410026M now JC-300836W), 07 May 2009/01 May 2009*

RHM Subash Chandra Roul (No. 14412413A now JC-300837Y), 07 May 2009/01 May 2009*

Hav Jagjit Singh (No. 15110024Y now JC-300838F), 07 Apr 2009

BHM Narayan Dhabale (No. 14387299A now JC-300839K), 08 Aug 2008

BHM Veer Singh Bainiwal (No. 14384290A now JC-300840Y), 06 Feb 2009

Hav Ram Krishna Divadwi (No. 14386168H now JC-300841F), 21 Apr 2009

Hav Rajendra Singh (No. 15100317W now JC-300842K), 14 Mar 2009

Hav Lal Chand (No. 15105109L now JC-300843M), 29 Mar 2009

Hav Prakash Bhujel (No. 14387477X now JC-300844P), 20 Apr 2009

Hav Ram Avtar (No. 14388044M now JC-300845X), 01 Apr 2009

BHM Binod Kumar (No. 14379903L now JC-300846A), 01 Apr 2009

BHM Dandapani D (No. 14383533N now JC-300847H), 01 Apr 2009

Hav Kewal Singh (No. 14387137P now JC-300848L), 02 Apr 2009

Hav Ram Kumar Tamang (No. 14404769Y now JC-300849N), 01 Apr 2009

BHM Krishan Mohan Pandey (No. 14384902M now JC-300850H), 29 Apr 2009

Hav Subhash Chand (No. 14388781N now JC-300851L), 05 May 2009/01 Oct 2008*

RHM Vijender Singh (No. 14383411K now JC-300852N), 01 Jan 2009

Hav Amar Nath Tiwari (No. 14393659F now JC-300853W), 01 Jun 2009/01 Mar 2009*

Hav Kuldeep Chand Thakur (No. 14388254M now JC-300854Y), 01 Apr 2009

Hav Munna Lal (No. 14391693H now JC-300855F), 13 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav Harjinder Singh (No. 14396287M now JC-300856K), 03 May 2009/11 Apr 2009*

RHM Om Prakash Kushwaha (No. 14379208W now JC-300857M), 01 May 2009

Hav Surya Narayan Sah (No. 14393239F now JC-300858P), 01 May 2009

RHM Bhag Singh (No. 14401345X now JC-300859X), 01 Jun 2009

BHM A P Krishnan (No. 14494780W now JC-300860M), 01 Jun 2009

BHM Gulab Chander Singh Kushwah (No. 15101674L now JC-300861P), 01 Jun 2009

Gtd. seniority date w.e.f.

Hav Rajesh Kumar Sharma (No. 14396474L now JC-300862X), 01 Oct 2008

Hav Abhang Sanjay Vithal (No. 15106809L now JC-300863A), 01 Jun 2009

Hav Radha Krishnan A (No. 15104570P now JC-300864H), 20 May 2009

Hav Atakare Vijay Dnyanoba (No. 14402922L now JC-300865L), 01 Jul 2009

Hav Bhagwan Das (No. 14400569L now JC-300866N), 01 Jul 2009

RHM Krishana Gopal Biswas (No. 15767075H now JC-300867W), 08 Jun 2009

Hav Afsar Ali Mondal (No. 15113025M now JC-300868Y), 19 Jun 2009

Hav Reghu K N (No. 15103547P now JC-300869F), 07 Jul 2009

RHM Naveen Kumar Sharma (No. 15766270N now JC-300870W), 07 Jul 2009

Hav Mohammad Haneef (No. 14388758A now JC-300871Y), 01 May 2009/01 Sep 2008*

Hav Upendra Singh (No. 13978469Y now JC-300872F), 01 Jan 2009/20 Nov 2008*

Hav Gajendra Joshi (No. 14402820P now JC-300873K), 07 Mar 2009/01 Mar 2009*

BHM Raghubir Singh (No. 14399334K now JC-300874M), 23 May 2009/11 Mar 2009*

BHM Krishan Pratap Singh (No. 14378472X now JC-300875P), 20 Jun 2009/01 Apr 2009*

Hav Jaspal Singh (No. 15114780H now JC-300876X), 25 May 2009/04 Apr 2009*

BHM Gokul Chandra Samanta (No. 14400792P now JC-300877A), 25 May 2009/26 Apr 2009*

BHM Mahajan Vasudev Gangaram (No. 14388656K now JC-300878H), 10 Jun 2009/20 May 2009*

BHM Bijaya Kumar Sahoo (No. 14382899Y now JC-300879L), 01 Jun 2009

Hav Jagdish Chand Jat (No. 14388705F now JC-300880A), 08 Jun 2009/01 Jun 2009*

BHM Soma Sundaran M (No. 14386856F now JC-300881H), 02 Jun 2009/01 Jun 2009*

Sol GD (RT) Ajay Kumar (No. 3002129P now JC-300882L), 06 Sep 2008

Hav Sundeep Thapa (No. 14387034W now JC-300735H), 23 Dec 2008/16 Nov 2008*

Hav Sawraj Sharma (No. 14392516P now JC-300736L), 04 Dec 2008/17 Nov 2008*

Hav Babaji Charan Sahoo (No. 13978427M now JC-300737N), 18 Dec 2008/20 Nov 2008*

RHM Balvir Singh (No. 14386529W now JC-300738W), 29 Dec 2008/25 Nov 2008*

Hav Kamlesh Kumar (No. 14388353P now JC-300739Y), 27 Dec 2008/25 Nov 2008*

Hav Narayan Singh Dasila (No. 14396120H now JC-300740N), 01 Jan 2009/25 Nov 2008*

Hav Om Prakash Yadav (No. 14380035W now JC-300741W), 05 Dec 2008/01 Dec 2008*

BHM Raut Santosh Shesh Rao (No. 15105252X now JC-300742Y), 07 Jan 2009/01 Dec 2008*

Hav M D Mahaboob Subhani (No. 14394577L now JC-300743F), 19 Dec 2008/01 Dec 2008*

BHM Ashwani Kumar (No. 14389278H now JC-300744K), 29 Dec 2008/01 Dec 2008*

Hav Durgesh Pandey (No. 14386028W now JC-300745M), 05 Dec 2008/01 Dec 2008*

Hav Balwinder Singh (No. 14404912A now JC-300746P), 23 Dec 2008/01 Dec 2008*

BHM Tamminani Harinad (No. 15100448F now JC-300747X), 01 Jan 2009

RHM G N Manigandan (No. 14412018M now JC-300748A), 21 Jan 2009/14 Jan 2009*

Hav Devendra Pal (No. 14401799L now JC-300749H), 14 Jan 2009/01 Jan 2009*

BHM Rohtas Singh (No. 14385646P now JC-300750X), 13 Oct 2008/07 Sep 2008*

Hav Karuna Garan V (No. 14401102M now JC-300751A), 18 Oct 2008/01 Oct 2008*

RHM Bikram Singh (No. 15100749L now JC-300752H), 12 Dec 2008/01 Oct 2008*

RHM Mirza Rijuddin (No. 14392681A now JC-300753L), 19 Dec 2008/18 Nov 2008*

BHM Mohd Ishtaiydu Mohd Ameen (No. 15107940P now JC-300754N), 29 Dec 2008/30 Nov 2008*

RHM Sanam Sreenivasula Reddy (No. 14387349A now JC-300755W), 17 Dec 2008/01 Dec 2008*

BHM Hari Narayan Rathaur (No. 14392486H now JC-300756Y), 26 Dec 2008/01 Dec 2008*

Hav Baldev Singh (No. 14392207M now JC-300757F), 17 Dec 2008/01 Dec 2008*

BHM Roshan Lal (No. 14394400X now JC-300758K), 10 Dec 2008/01 Dec 2008*

Gtd. seniority date w.e.f.

RHM Naresh Kumar (No. 14384057M now JC-300759M),
24 Dec 2008/01 Dec 2008*

Hav Narendra Prasad Pathak (No. 15105118M now JC-300760F), 29 Dec 2008/01 Dec 2008*

Hav Satyvir Singh (No. 14399833N now JC-300761K), 22 Dec 2008/01 Dec 2008*

BHM Jaipal Singh (No. 14394022K now JC-300762M),
01 Jan 2009

BHM Damu Adi Narayana (No. 14492642W now JC-300763P), 01 Jan 2009

BHM Dharmendra Kumar Singh (No. 14391706P now JC-300764X), 01 Jan 2009

Hav G Jagannath (No. 14405178K now JC-300765A),
04 Jan 2009

Hav Daya Ram (No. 14390574A now JC-300766H), 01 Jan 2009

Hav Rajendra Singh (No. 14384762L now JC-300767L),
24 Jan 2009

Hav PM Mane (No. 14396637N now JC-300768N), 15 Jan 2009/01 Jan 2009*

RHM Nanda Lal Yadava (No. 14411721N now JC-300769W), 19 Jan 2009/14 Jan 2009*

Hav Ramesh Kumar (No. 14390459A now JC-300770L),
13 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav Deepak Kumar (No. 2887480W now JC-300771N),
13 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav Chandra Pal Singh Thakur (No. 14401817H now JC-300772W), 12 Feb 2009/01 Feb 2009*

RHM Sushil Kumar (No. 15761898M now JC-300773Y),
14 Feb 2009/01 Feb 2009*

RHM Ram Kumar (No. 14394048Y now JC-300774F),
13 Feb 2009/01 Feb 2009*

RHM Selvamoorthis S (No. 14412927X now JC-300775K),
16 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav L Phoni Bhosan Singha (No. 15109008P now JC-300776M), 07 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Ramniranjan Patel (No. 14397150M now JC-300777P),
09 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Bhagwan Sahay (No. 14378992H now JC-300778X),
09 Sep 2008/01 Sep 2008*

BHM Harish Chandra (No. 14375252H now JC-300779A),
30 Dec 2008/30 Nov 2008*

Hav Kamalan T (No. 14386026L now JC-300780P), 17 Dec 2008/01 Dec 2008*

Hav Ram Singh (No. 15104893X now JC-300781X),
30 Dec 2008/01 Dec 2008*

Hav Lalit Singh (No. 14388257A now JC-300782A),
22 Jan 2009/05 Dec 2008*

BHM Klanly Marwein (No. 14388920M now JC-300783H),
09 Jan 2009/01 Jan 2009*

BHM Krishan Lal Kumar (No. 14383897A now JC-300784L)
09 Jan 2009/01 Jan 2009

BHM Bilat Prasad Singh (No. 14379178K now JC-300785N) 01 Jan 2009

BHM Unni Krishnan T (No. 14392334F now JC-300786W),
20 Jan 2009/01 Jan 2009*

BHM G Madhu (No. 13978393K now JC-300787Y), 05 Jan 2009/01 Jan 2009*

Hav Jayabir Singh (No. 14387526P now JC-300788F),
01 Jan 2009

Hav Satvir Singh (No. 14388066L now JC-300789K),
15 Jan 2009/01 Jan 2009*

RHM Bishan Singh (No. 15102087M now JC-300790Y),
07 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav Satya Pal (No. 15100768W now JC-300791F), 10 Feb 2009/01 Feb 2009*

RHM D Devarajan (No. 14391515A now JC-300792K),
18 Feb 2009/01 Feb 2009*

BHM Girdhari Lal (No. 14395705K now JC-300793M),
11 Feb 2009/01 Feb 2009*

RHM Munna Singh (No. 14394482L now JC-300794P),
10 Feb 2009/01 Feb 2009*

BHM Azad Singh (No. 14394536P now JC-300795X),
10 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav Madhusudanan MR (No. 14394546L now JC-300796A), 10 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav Dharm Pal (No. 14405372Y now JC-300797H), 12 Feb 2009/01 Feb 2009*

Hav Bijay Bahadur (No. 14392151L now JC-300798L),
17 Feb 2009/01 Feb 2009*

RHM Amar Nath (No. 14409107A now JC-300799N),
24 Jan 2009/14 Jan 2009*

Hav Mangu Murmu (No. 15105910Y now JC-300800X),
12 Mar 2009/01 Mar 2009*

RHM Pradeep Kumar Behera (No. 14413668M now JC-300801A), 02 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Arjun Kumar Tiwari (No. 14390336N now JC-300802H), 26 Mar 2009/01 May 2008*

Hav Manohar Lal (No. 14402341N now JC-300803L),
01 Apr 2009

Hav Alankar Sharma (No. 15113976K now JC-300804N),
01 Apr 2009

Hav Sathyam A (No. 15105784X now JC-300805W),
20 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav Jadhav Ram Chandra Mansing (No. 14402994P now JC-300806Y), 01 Apr 2009

Gtd. seniority date w.e.f.

Hav Dipak Kumar Ghorai (No. 15764009P now JC-300807F), 09 Apr 2009/01 Apr 2009*

RHM Shravan Singh (No. 15765580M now JC-300808K), 06 Apr 2009/01 Apr 2009*

RHM Siva Perumal P (No. 15763980A now JC-300809M), 17 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav Ranavare Sunil Pandhari Nath (No. 15106940H now JC-300810F), 01 May 2009

A V BAGUR
Under Secy.

*(Gtd. seniority date w.e.f)

ARMY BRANCH

No. 485, dated 30 July 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Substantive Subedar

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-826178P), 01 Mar 2010

P P SINGH
Under Secy.

No. 486, dated 30 July 2010—The president is Pleased to make the following appointment/promotion (which ever is applicable):—

To be Nb Sub

Hav Mangalananda Panicker TS (No. 10359406 now TJ-5641), 106 Inf Bn (TA) Para, 12 May 2008

Hav Raji K (No. 10359412 now TJ-5642), 106 Inf Bn (TA) Para, 12 May 2008

Hav Ramadhar Tiwari (No. 10420810 now TJ-5644), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2008

Hav Rajpal Singh (No. 12690257 now TJ-5646), GH (TA) Patiala, 21 May 2008

Hav PS Rauthan (No. 12835310 now TJ-5647), 811 Engr Regt ONGC (TA), 23 May 2008

Hav Roman Boara (No. 12835371 now TJ-5648), 811 Engr Regt ONGC (TA), 23 May 2008

Hav RK Nandawal (No. 12835400 now TJ-5649), 811 Engr Regt ONGC (TA), 23 May 2008

Hav AM Puwar (No. 12835436 now TJ-5650), 811 Engr Regt ONGC (TA), 23 May 2008

Hav Chandrakanta Hazarika (No. 10245238 now TJ-5651), 166 Inf Bn (TA) H&H Assam, 30 May 2008

Hav Susil Bordoloi (No. 10245308 now TJ-5652), 166 Inf Bn (TA) H&H Assam, 30 May 2008

Hav Rachhpal Kumar (No. 10362025 now TJ-5653), 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 05 Jun 2008

Hav Ramesh Kumar (No. 10135226 now TJ-5654), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 06 Jun 2008

Hav Raj Kumar (No. 10466660 now TJ-5655), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 06 Jun 2008

Hav Shivanand Sajane (No. 10359425 now TJ-5657), 106 In Bn (TA) Para, 19 Jun 2008

Hav Mani Yolmoo (No. 10374169 now TJ-5658), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 01 Jul 2008

Hav/Clk Arvind Kumar Mishra (No. 10374257 now TJ-5659), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 01 Jul 2008

Hav Ranveer Singh (No. 10302781 now TJ-5661), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 16 Jul 2008

Hav Kuldip Singh (No. 10198036 now TJ-5662), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 16 Jul 2008

Hav N Subramanian (No. 10452586 now TJ-5663), 117 Inf Bn (TA) Guards, 25 Jul 2008

Hav Ranjeet Tamang (No. 10245312 now TJ-5669), 166 Inf Bn (TA) H&H Assam, 21 Aug 2008

Hav Navrang Lal (No. 12377304 now TJ-5670), 1031 Rly Engr (Regt) (TA), 27 Aug 2008

Hav Shiv Mangal Gautam (No. 12388837 now TJ-5671), 1031 Rly Engr (Regt) (TA), 27 Aug 2008

Hav Vikram Singh (No. 10182117 now TJ-5675), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 19 Sep 2008

Hav Randhir Singh (No. 10302825 now TJ-5677), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 19 Sep 2008

Hav Hira Lal (No. 10361912 now TJ-5678), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 18 Sep 2008

Hav Kashi Mistry (No. 12375724 now TJ-5679), 969 Rly Engr (Regt) (TA), 23 Sep 2008

Hav Pramod Kumar Singh (No. 12059660 now TJ-5680), 969 Rly Engr (Regt) (TA), 23 Sep 2008

Hav Kulwant Singh (No. 10479913 now TJ-5681), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 19 Sep 2008

Hav Pawan Kumar (No. 10480001 now TJ-5682), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 19 Sep 2008

Hav Teval Khan (No. 10479884 now TJ-5683), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 19 Sep 2008

Hav Hari Pawan Singh (No. 10480101 Now TJ-5684), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 19 Sep 2008

- Hav Akbar Singh (No. 10480129 now TJ-5685), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 19 Sep 2008
- Hav Kulwant Singh (No. 10480141 now TJ-5686), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 19 Sep 2008
- Hav Ramesh Kumar (No. 10480119 now TJ-5687), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 19 Sep 2008
- Hav Ramphal (No. 10480174 now TJ-5688), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 19 Sep 2008
- Hav/SS Vinay Kumar Gupta (No. 12377429 now TJ-5689), 1031 Rly Engr Regt (TA), 30 Sep 2008
- Hav/SM SS Rathore (No. 12208121 now TJ-5690), 1031 Rly Engr Regt (TA), 30 Sep 2008
- Hav/Dvr Sarwan Lal (No. 12311979 now TJ-5691), 1031 Rly Engr Regt (TA), 30 Sep 2008
- Hav/Dvr Raju Rajput (No. 12377235 now TJ-5692), 1031 Rly Engr Regt (TA), 30 Sep 2008
- Hav Prahlad Meena (12377406) (TJ-5693), 1031 Rly Engr Regt (TA), 30 Sep 2008
- Hav Uday Veer Singh (No. 10135125 now TJ-5694), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 14 Oct 2008
- Hav Virender Singh (No. 10466495 now TJ-5695), 156 Inf Bn (TA) H&H Punjab, 13 Oct 2008
- Hav Sudeh Kumar (No. 10198127 now TJ-5696), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 13 Oct 2008
- Hav Devendra Dutt (No. 10198114 now TJ-5697), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 13 Oct 2008
- Hav Satish Kumar (No. 10198319 now TJ-5698), 135 Inf Bn (TA) Dogra, 13 Oct 2008
- Hav Dhiraj P (No. 12208011 now TJ-5699), 1031 Rly Engr Regt (TA), 13 Oct 2008
- Hav/Guards Hitendra K Chasiya (No. 12379168 now TJ-5700), 1031 Rly Engr Regt (TA), 13 Oct 2008
- Hav/Dvr Iqbal M (No. 12216795 now TJ-5701), 1031 Rly Engr Regt (TA), 21 Oct 2008
- Hav N Marikkannan (No. 10166421 now TJ-5702), 110 Inf Bn (TA) Madras, 31 Oct 2008
- Hav Naba Chandra Singha (No. 10245199 now TJ-5703), 119 Inf Bn (TA) Assam, 31 Oct 2008
- Hav Pradyot Kishory Sinha (No. 10212584 now TJ-5704), 113 Inf Bn (TA) Rajput, 03 Nov 2008
- Hav Dadan Singh (No. 10212487 now TJ-5705), 113 Inf Bn (TA) Rajput, 03 Nov 2008
- Hav Biswajit Khatua (No. 10212975 now TJ-5706), 113 Inf Bn (TA) Rajput, 03 Nov 2008
- Hav Basappa Baraballi (No. 10420876 Now TJ-5707), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Nov 2008
- Hav Patil Prakash Shankar (No. 10437062 now TJ-5708), 116 Inf Bn (TA) Para, 24 Oct 2008
- Hav Hire Dattatrya Jibhau (No. 10437082 now TJ-5709), 116 Inf Bn (TA) Para, 24 Oct 2008
- Hav Lavkush Prasad Sharma (No. 10389945 now TJ-5717), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Nov 2008
- Hav Gokul Prasad Sahu (No. 10420819 now TJ-5712), 151 Inf Bn (TA) Jat, 21 Nov 2008
- Hav Raghubir Sharan Vishwakama (No. 10389971 now TJ-5713), 151 Inf Bn (TA) Jat, 21 Nov 2008
- Hav Bhim Singh R (No. 12263579 now TJ-5714), 1032 Rly Engr Enr (TA), 28 Nov 2008
- Hav Bijay Kumar Satapathy (No. 10260308 now TJ-5715), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2008
- Hav/Clk Markad Sainath (No. 10119995 now TJ-5717), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 18 Dec 2008
- Hav Kabal Singh (No. 10362088 now TJ-5718), 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jan 2009
- Hav Bega Ram Rewar (No. 10302905 now TJ-5719), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Dec 2008
- Hav Naresh Kumar (No. 10362012 now TJ-5723), 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jan 2009
- Hav Sidhanath Mishra (No. 10260322 now TJ-5724), 166 Inf Bn (TA) H&H Assam, 01 Jan 2009
- Hav Pavithran PK (No. 10290988 now TJ-5725), 122 Inf Bn (TA) Madras, 01 Jan 2009
- Hav Basavaraj Munavalli (No. 10420984 now TJ-5726), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Feb 2009
- Hav Phool Singh (No. 10135064 now TJ-5727), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 16 Jan 2009
- Hav Anjanee Prasad Pandey (No. 10182182 now TJ-5729), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 09 Feb 2009
- Hav Paras Ram (No. 10198122 now TJ-5730), 159 Inf Bn (TA) (H&H) Dogra, 09 Feb 2009
- Hav Lakhwinder Singh (10198162 now TJ-5731), 159 Inf Bn (TA) (H&H) Dogra, 09 Feb 2009
- Hav Surjit Singh (No. 10198202 now TJ-5732), 159 Inf Bn (TA) (H&H) Dogra, 09 Feb 2009
- Hav Baidyanath Yadaw (No. 10245255 now TJ-5734), 119 Inf Bn (TA) Assam, 20 Feb 2009
- Hav Judhisthir Kavar (No. 10245256 now TJ-5735), 119 Inf Bn (TA) Assam, 20 Feb 2009
- Hav Parashu Ram Bangthai (No. 10245229 now TJ-5736), 119 Inf Bn (TA) Assam, 20 Feb 2009
- Hav Deepal B Chavan (No. 12378817 now TJ-5737), 1031 Rly Engr Regt (TA), 24 Feb 2009
- Hav Binod Sinha (No. 10245189 now TJ-5738), 165 Inf Bn (TA) (H&H) Assam, 09 Mar 2009

Hav Ashok Kumar (No. 10198237 now TJ-5739), 159 Inf Bn (TA) (H&H) Dogra, 26 Mar 2009

Hav Satpal (No. 10314893 now TJ-5740), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 31 Mar 2009

Hav/Clk Ashok Kumar Kantak (No. 10436824 now TJ-5742), 116 Inf Bn (TA) Para, 22 Apr 2009

Hav Gurmail Singh (No. 10198157 now TJ-5743), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 27 Apr 2009

Hav Arjan Singh (No. 1198155 now TJ-5744), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 27 Apr 2009

Hav Chitapure Ismail (No. 10119840 now TJ-5749), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 14 May 2009

Hav Rajeev Kumar Dewedi (No. 10405385 now TJ-5750), 114 Inf Bn (TA) Jat, 15 May 2009

Hav Govind Prasad Tiwari (No. 10389979 now TJ-5755), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jun 2009

Hav Dharampal (No. 12031382 now TJ-5756), 1101 Rly Engr Regt (TA), 29 May 2009

Hav Harender Singh (No. 12052607 now TJ-5757), 1101 Rly Engr Regt (TA), 29 May 2009

Hav J P Uppal (No. 12371535 now TJ-5758), 1101 Rly Engr Regt (TA), 29 May 2009

Hav Member Singh (No. 12024436 now TJ-5759), 1101 Rly Engr Regt (TA), 29 May 2009

Hav Dinesh Chandra (No. 12024365 now TJ-5760), 1101 Rly Engr Regt (TA), 29 May 2009

Hav Umesh Masali (No. 10359440 now TJ-5762), 106 Inf Bn (TA) Para, 25 Jun 2009

Hav Subhash Chand (No. 10466706 now TJ-5764), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 02 Jul 2009

Hav Raja Shaker Reddy (No. 10329019 now TJ-5765), 125 Inf Bn (TA) Guards, 07 Jul 2009

Hav Niyaz Ali (No. 10466715 now TJ-5766), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Aug 2009

Hav Inder Puri (No. 10466718 now TJ-5767), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Aug 2009

Hav Prabhujit Singh Rajput (No. 12383353 now TJ-5768), 1105 Rly Engr Regt (TA), 29 Apr 2009

Hav C H Divakar (No. 12383470 now TJ-5769), 1105 Rly Engr Regt (TA), 29 Apr 2009

Hav Subodh Mithra (No. 12384826 now TJ-5768), 1105 Rly Engr Regt (TA), 29 Apr 2009

Hav K Linganna Goud (No. 12384789 now TJ-5771), 1105 Rly Engr Regt (TA), 29 Apr 2009

Hav Gopal Singh (No. 12052672 now TJ-5772), 1101 Rly Engr Regt (TA), 23 Jul 2009

Hav Vijay Kumar Uppal (No. 12085315 now TJ-5773), 1101 Rly Engr Regt (TA), 31 Jul 2009

Hav Rajendra Bhawe (No. 12372914 now TJ-5774), 1101 Rly Engr Regt (TA), 31 Jul 2009

Hav Raj Kumar Sharma (No. 12052569 now TJ-5775), 1101 Rly Engr Regt (TA), 31 Jul 2009

Hav Karan Singh (No. 12017608 now TJ-5776), 1101 Rly Engr Regt (TA), 31 Jul 2009

Hav Harish Kumar (No. 12372941 now TJ-5777), 1101 Rly Engr Regt (TA), 31 Jul 2009

Hav Jagtar Singh (No. 10480216 now TJ-5783), 152 Inf Bn (TA) Sikh, 26 Aug 2009

Hav Shesadeb Nayak (No. 10260159 now TJ-5784), 154 Inf Bn (TA) Bihar, 26 Aug 2009

Hav Naresh Kumar (No. 10362415 now TJ-5785), 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 04 Sep 2009

Hav Ashok Kumar (No. 12031403 now TJ-5794), 1101 Rly Engr Regt (TA), 10 Sep 2009

Hav Rakesh Chandra Mathur (No. 10405422 now TJ-5795), 114 Inf Bn (TA) Jat, 05 Oct 2009

Hav Sudrarsan Deb (No. 10245259 now TJ-5796), 165 Inf Bn (TA) (H&H) Assam, 01 Nov 2009

Hav Prasanta Kumar Das (No. 10274579 now TJ-5797), 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 13 Oct 2009

Hav Ramchandran V (No. 10452640 now TJ-5798), 117 Inf Bn (TA) Guards, 26 Oct 2009

Hav P Punniamoorthi (No. 10452682 now TJ-5799), 117 Inf Bn (TA) Guards, 26 Oct 2009

Hav Ganesan T (No. 10452577 now TJ-5800), 117 Inf Bn (TA) Guards, 26 Oct 2009

Hav A Gnanadurai (No. 10452677 now TJ-5801), 117 Inf Bn (TA) Guards, 26 Oct 2009

Hav Raj Kapoor Singh (No. 10182198 now TJ-5802), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 05 Nov 2009

Hav Abhay Raj (No. 10182204 now TJ-5803), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 05 Nov 2009

Hav Ravi Kant (No. 10198148 now TJ-5804), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 05 Nov 2009

Hav Sri Sher Singh Baghel (No. 10390074 now TJ-5805), 151 Inf Bn (TA) Jat, 12 Nov 2009

Hav Som Raj (No. 10198208 now TJ-5806), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 12 Oct 2009

Hav Rajeev Kumar (No. 10135430 now TJ-5807), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 12 Oct 2009

Hav Santosh Kumar Katre (No. 10227886 now TJ-5809), 118 Inf Bn (TA) Grenadiers, 12 Nov 2009

Hav Raj Kumar (No. 10479990 now TJ-5808), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 12 Nov 2009

Hav Lal Jee Yadav (No. 10182226 now TJ-5810), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 12 Nov 2009

Hav Ram Prasad Yalmoo (No. 10374262 now TJ-5811), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 16 Nov 2009

Hav Karan Singh (No. 10135184 now TJ-5812), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 16 Nov 2009

Hav Pradip Das (No. 10212879 now TJ-5813), 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Jan 2010

Hav Pawan Kumar (No. 10466703 now TJ-5816), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Jan 2010

Hav Mangat Lal (No. 10198259 now TJ-5817), 159 Inf Bn (TA) (H&H) Dogra, 01 Jan 2010

Hav Subhash Singh (No. 10135191 now TJ-5818), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 06 Jan 2010

Hav Arun Kumar N (No. 10291087 now TJ-5819), 122 Inf Bn (TA) Madras, 08 Jan 2010

Hav Donwade Mahadeo Mallappa (No. 10150025 now TJ-5820), 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 08 Jan 2010

Hav/Clk G Babu (No. 10328982 now TJ-5821), 125 Inf Bn (TA) The Guards, 05 Feb 2010

Hav Ravi Nath Pal (No. 10182275 now TJ-5822), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 02 Feb 2010

Hav Shamsher Masih (No. 10198186 now TJ-5823), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 03 Feb 2010

Hav Kapoor Singh (No. 10135212 now TJ-5824), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 03 Feb 2010

Hav Basappa B Enagi (No. 10420977Y now TJ-5825), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 08 Jan 2010

Hav Ningapa Ganagi (No. 10420987H now TJ-5826), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 08 Jan 2010

Hav Jagjit Singh (No. 10480132M now TJ-5827), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 08 Feb 2010

Hav Swarn Kumar (No. 10362155W now TJ-5828), 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 12 Feb 2010

Hav Mohan Lal (No. 10362216A now TJ-5829), 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 12 Feb 2010

Hav Kadam Mahadeo (No. 10119849W now TJ-5830), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 06 Jan 2010

Hav Patil Baban Narayan (No. 10150072M now TJ-5831), 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 25 Feb 2010

Hav Manoharon Thottathan (No. 10291063P now TJ-5832), 122 Inf Bn (TA) Madras, 18 Feb 2010

Hav Dibyasingh Jena (No. 10260208N now TJ-5833), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 09 Mar 2010

Hav Dharambir (No. 10466538 now TJ-5834), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 09 Mar 2010

Hav Babu Lal Gurjar (No. 10315062N now TJ-5835), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 09 Mar 2010

Hav Nirpen Hazarika (No. 10245307Y now TJ-5836), 119 Inf Bn (TA) Assam, 09 Mar 2010

Hav Lakshya Kumar Saikia (No. 10245322N now TJ-5837), 119 Inf Bn (TA) Assam, 09 Mar 2010

Hav Karan Chand (No. 10362060N now TJ-5838), 162 Inf Bn (TA) Jak LI, 17 Mar 2010

Hav Gobinda Sinha (No. 10245283A now TJ-5839), 119 Inf Bn (TA) Assam, 17 Mar 2010

Hav Sri Sant Kumar Pandey (No. 10390016A now TJ-5840), 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Apr 2010

Hav Arvind Singh Chauhan (No. 10405620L now TJ-5841), 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Apr 2010

Hav Baban Singh (No. 10260132Y now TJ-5842), 164 Inf Bn (TA) (H&H) Naga, 30 Mar 2010

Hav Maha Singh (No. 10466724H now TJ-5843), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 May 2010

Hav Madan Lal Jat (No. 10302952P now TJ-5844), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 15 Apr 2010

Hav Bhawani Singh (No. 10303000F now TJ-5845), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 15 Apr 2010

Hav Gurnaib Singh (No. 10480213 now TJ-5846), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 26 Apr 2010

Hav Shaikh Babulal Budhan (No. 10437141 now TJ-5847), 116 Inf Bn (TA) Para, 26 Apr 2010

Hav Torawane Kishor Navalrao (No. 10437155 now TJ-5848), 116 Inf Bn (TA) Para, 26 Apr 2010

Hav S Natarajan (No. 10166579 now TJ-5849), 110 Inf Bn (TA) Madras, 10 May 2010

JAI RAJ
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 487, dated 30th July 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Parshotam Singh (No. 3987024W now JC-521097M),
30 Jan 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
08 Nov 2009 without effect on pay and allowance)

Hav Pawan Singh (No. 3987051A now JC-521098P),
30 Jan 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
15 Dec 2009 without effect on pay and allowance)

Hav Vishwa Jeet (No. 3987941A now JC-521099X), 18 Feb
2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jan 2010 without effect on pay and allowance)

Hav Gopal Singh (No. 3989416H now JC-521100F), 29 Jan
2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
05 Jan 2010 without effect on pay and allowance)

Hav Kishori Lal (No. 3987694X now JC-521101K), 17 Feb
2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
07 Jan 2010 without effect on pay and allowance)

Hav Rattan Chand (No. 3988511H now JC-521102M),
31 Jan 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
25 Jan 2010 without effect on pay and allowance)

Hav Rachhpal Singh (No. 3986914K now JC-521103P),
19 Feb 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
29 Jan 2010 without effect on pay and allowance)

Hav Ashwani Kumar Sharma (No. 3988135A now JC-
521104X), 01 Feb 2010+

Hav Khem Dass (No. 3988661Y now JC-521105A), 01 Feb
2010+

Hav Paramjit Singh (No. 3989717M now JC-521106H),
03 Mar 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Feb
2010 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Cik)

Hav (Cik) Navadeep Saikai (No. 3988787Y now JC-
521107L), 01 Feb 2010+

JAK LI

To be Nb Sub (GD CAT)

Hav Ali Akhter Hussain Shah (No. 9095760Y now JC-
593826A), 03 Feb 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Nov 2009)

Hav Kuldeep Singh (No. 9088433L now JC-593827H),
13 Dec 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009)

Hav Subash Chander Sharma (No. 9088444X now JC-
593828L), 07 Dec 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009)

Hav Manohar Lal (No. 9088276K now JC-593829N),
15 Feb 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Jan 2010)

Hav Mohd Mushtaq (No. 9089043P now JC-593830H),
06 Feb 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2010)

Hav Kuldeep Kumar (No. 9088090A now JC-593831L),
08 Feb 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Jan 2010)

Hav Nam Sagar (No. 9088302A now JC-593832N), 09 Feb
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010)

Hav Subash Chander Passula (No. 9088355W now JC-
593833W), 09 Feb 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010)

Hav Nand Lal (No. 9088308M now JC-593834X), 01 Feb
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010)

Hav Layaqat Ali (No. 9089237X now JC-593835F), 13 Feb
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010)

THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Gurmeet Singh (No. 2478868M now JC-430623M),
01 Feb 2010

Hav Gurmukh Singh (No. 2478867K now JC-430624P),
01 Feb 2010

Hav Ranjeet Singh (No. 2478891A now JC-430625X), 01 Feb
2010

Hav Vinod Kumar (No. 2479610L now JC-430626A), 01 Feb 2010

Hav Narinder Singh (No. 2479634P now JC-430627H), 01 Feb 2010

Hav Tarseem Lal (No. 2480179K now JC-430628L), 01 Feb 2010

Hav Malkiat Singh (No. 2479544N now JC-430629N), 01 Feb 2010

Hav Man Singh (No. 2479430H now JC-430630H), 12 Jan 2010

(Gtd ante dt seniority wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Tejpal Singh (No. 2479585X now JC-430631N), 01 Feb 2010

Hav Mohinder Lal (No. 2480190H now JC-430632N), 11 Jan 2010

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Karam Chand (No. 2480210L now JC-430633W), 01 Feb 2010

Hav Naib Singh (No. 2479487X now JC-430617Y), 14 Jan 2010

(Gtd ante dt seniority wef 04 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bir Singh Sadyal (No. 2479632K now JC-430618F), 01 Jan 2010

Hav Sodagar Singh (No. 2480159W now JC-430619K), 01 Jan 2010

Hav Rajneesh Kumar (No. 2480538M now JC-430620Y), 01 Feb 2010

THE MAHAR REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Davinder Kumar Thakial (No. 4559318W now JC-570429P), 09 Jul 2009@

@(Gtd seniority without effect on pay and allowances wef 30 Mar 2009)

Hav Joginder Singh (No. 4559605A now JC-570430K), 09 Jul 2009#

@(Gtd seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2009)

Hav Mukesh Kumar (No. 4559774F now JC-570431M), 13 Jul 2009\$

\$(Gtd seniority without effect on pay and allowances wef 30 Apr 2009)

Hav Prem Singh (No. 10389902X now JC-570432P), 20 Jul 2009%

%(Gtd seniority without effect on pay and allowances wef 14 May 2009)

Hav Ramesh Kumar (No. 4564923N now JC-570433X), 16 Nov 2009&

&(Gtd seniority without effect on pay and allowances wef 07 Feb 2009)

Hav Vidhaya Nand Yadav (No. 4560893K now JC-570434A), 23 Nov 2009*

*(Gtd seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2009)

Hav Ram Ratan Yadav (No. 4561514P now JC-570435H), 11 Dec 2009@@

@@(Gtd seniority without effect on pay and allowances wef 25 Nov 2009)

Hav Dhanvij Bandu Rama (No. 4558989N now JC-570436L), 18 Dec 2009##

##(Gtd seniority without effect on pay and allowances wef 08 Nov 2009)

Hav Bishwanath Sarkar (No. 4561275L now JC-570437N), 01 Jan 2010

Hav Ved Prakash (No. 4561288H now JC-570438W), 04 Jan 2010\$\$

Hav Ajit Singh (No. 4560250M now JC-570439Y), 04 Jan 2010\$\$

\$\$ (Gtd seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2009)

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Yaswent Singh (No. 2682424K now JC-450800H), 28 Sep 2008

Hav Iqbal Husain (No. 2680809H now JC-450801L), 10 Jan 2009

(Gtd seniority wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Chander Bhan (No. 2884385Y now JC-450802N), 05 Mar 2009

Hav Satbir Singh (No. 2681299Y now JC-450803W), 01 Jul 2009

Hav Hastimal Jat (No. 2682345P now JC-450804Y), 23 Jul 2009

Hav Jaibir (No. 2681554A now JC-450805F), 27 Sep 2009

(Gtd seniority wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rathod Ashok Kumar Bhaya Bhai (No. 2685693F now JC-450806K), 01 Aug 2009

Hav Ashok Kumar (No. 2680754K now JC-450807M), 01 Aug 2009

Hav Aman Singh Rathore (No. 2682212Y now JC-450808P), 12 Aug 2009

Hav Chandra Singh (No. 2681253W now JC-450809X), 20 Aug 2009

Hav Kuldeep Singh (No. 2681358A now JC-450810M), 23 Aug 2009

Hav Narender Singh Gill (No. 2681840F now JC-450811P), 01 Sep 2009

Hav Kanzariya Popat Bhikha (No. 2685823Y now JC-450812X), 01 Sep 2009

Hav Muktar Ahmed (No. 2680412W now JC-450813A), 01 Sep 2009

Hav Chun Singh (No. 2678627W now JC-450814H), 02 Sep 2009

Hav Raj Kumar Naresh (No. 2682397L now JC-450815L), 03 Sep 2009

Hav Hakam Ali Khan (No. 2683156X now JC-450816N), 06 Sep 2009

Hav Sarwar Khan (No. 2683319A now JC-450817W), 07 Sep 2009

Hav Krishan Chand (No. 2681091W now JC-450818Y), 07 Sep 2009

Hav Aram Singh (No. 2681256K now JC-450819F), 08 Sep 2009

Hav Liyakat Ali (No. 2680172K now JC-450820W), 09 Sep 2009

Hav Ramvir (No. 2681925X now JC-450821Y), 10 Sep 2009

Hav Mahabir Singh (No. 2681609Y now JC-450822F), 10 Sep 2009

Hav Patel Vinod Kumar Dharma Bhai (No. 2684895W now JC-450823K), 13 Sep 2009

Hav Poonj Raj Singh (No. 2682332X now JC-450824M), 13 Sep 2009

Hav Vinod Kumar (No. 2680704Y now JC-450825P), 13 Sep 2009

Hav Nisaruddin Ansari (No. 2677917F now JC-450826X), 14 Sep 2009

Hav Karan Singh (No. 2681304Y now JC-450827A), 15 Sep 2009

Hav Ibrahim Khan (No. 2682976X now JC-450828H), 01 Oct 2009

(Gtd seniority wef 15 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar (No. 2680777L now JC-450829L), 17 Sep 2009

Hav Ram Sawroop (No. 2682560A now JC-450830A), 18 Sep 2009

Hav Rajender Singh (No. 2682147K now JC-450831H), 22 Sep 2009

Hav Bachiter Singh (No. 2680591F now JC-450832L), 22 Sep 2009

Hav Bhag Singh (No. 2680786M now JC-450833N), 22 Sep 2009

Hav Satish Kumar (No. 2681105L now JC-450834W), 23 Sep 2009

Hav Balvir Singh (No. 2682910F now JC-450835Y), 23 Sep 2009

Hav Balbir Singh (No. 2681097X now JC-450836F), 27 Sep 2009

Hav Om Prakash (No. 2680811A now JC-450837K), 01 Oct 2009

Hav Jagbir Singh (No. 2680513K now JC-450838M), 01 Oct 2009

Hav Mohan Singh (No. 2682163F now JC-450839P), 01 Oct 2009

Hav Harun Ahamad (No. 2682868N now JC-450840K), 01 Oct 2009

Hav Ali Mohammad (No. 2682986F now JC-450841M), 01 Oct 2009

Hav Panna Lal (No. 2682553K now JC-450842P), 01 Oct 2009

Hav Kamal Singh (No. 2682180F now JC-450843X), 02 Oct 2009

Hav Dharmendra (No. 2683818P now JC-450844A), 04 Oct 2009

Hav Rajender Singh Meena (No. 2683338L now JC-450845H), 09 Oct 2009

Hav Ratan Lal (No. 2683795Y now JC-450846L), 14 Oct 2009

Hav Chaman Lal (No. 2680516X now JC-450847N), 15 Oct 2009

Hav Adesh Kumar (No. 2684491N now JC-450848W), 01 Nov 2009

Hav Ramesh Prasad (No. 2685545W now JC-450849Y), 01 Nov 2009

Hav Dalvir Singh (No. 2680588F now JC-450850N), 01 Nov 2009

Hav As Mohammad (No. 2680998X now JC-450851W), 01 Nov 2009

Hav Dhavad Devshi Bhai Bhira Bhai (No. 2685499M now JC-450852Y), 01 Nov 2009

Hav Hakim Khan (No. 2681073N now JC-450853F), 01 Nov 2009

Hav Mahavir Jat (No. 2682598K now JC-450854K), 01 Nov 2009

Hav Dharam Singh Shokin (No. 2682622P now JC-450855M), 01 Nov 2009

Hav Gokul Singh Rathore (No. 2683124P now JC-450856P), 01 Nov 2009

Hav Radhya Shyam Singh (No. 2681683A now JC-450857X), 05 Nov 2009

Hav Jag Pal (No. 2682164K now JC-450858A), 07 Nov 2009

Hav Gopi Ram Dhaka (No. 2682523M now JC-450859H), 01 Dec 2009

Hav Nakum Mukesh Premji (No. 2685699H now JC-450860X), 01 Dec 2009

Hav Rajvir Singh (No. 2682070M now JC-450861A), 05 Dec 2009

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Prakash Chandra (No. 4181753X now JC-540739L), 24 Dec 2009/01 Dec 2009*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Basant Singh (No. 4181339Y now JC-540740A), 13 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Narender Kumar (No. 4181037M now JC-540741H), 08 Feb 2010/01 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhagwat Dayal (No. 4181792W now JC-540742L), 22 Feb 2010/01 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Udaivir Singh Yadav (No. 4181166M now JC-540743N), 08 Feb 2010/01 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Govind Ballabh (No. 4180650M now JC-540744W), 08 Feb 2010/01 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Puran Singh Karki (No. 4180045Y now JC-540745Y), 19 Feb 2010/01 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Keshav Datt Bhatt (No. 4181385N now JC-540746F), 15 Feb 2010/01 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dharam Singh (No. 4181669X now JC-540747K), 25 Feb 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Tej Bahadur Yadav (No. 4181489P now JC-540748M), 25 Feb 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jagat Singh (No. 4180061W now JC-540749P), 26 Feb 2010/23 Sep 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar (No. 4183438A now JC-540750K), 02 Mar 2010/01 Mar 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jagdish Chandra Joshi (No. 4182337A now JC-540751M), 02 Mar 2010/01 Mar 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Deb Singh (No. 4181214F now JC-540752P), 03 Mar 2010/01 Mar 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kamlesh Chandra Singh Airi (No. 4181309F now JC-540753X), 05 Mar 2010/05 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Shankar (No. 4182200N now JC-540754A), 06 Mar 2010/01 Mar 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kuwar Lal (No. 4183096X now JC-540755H), 18 Mar 2010/03 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

The Naga Regiment

Hav N L Thunghlung Anal (No. 14702530W now JC-590247H), 30 Jan 2010/19 Oct 2009*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav W S Wangam Anal (No. 1470610N now JC-590248L),
30 Jan 2010/24 Nov 2009*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Nov
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Y Yimlong Chang (No. 14703386Y now JC-590249N),
30 Jan 2009/01 Dec 2009*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ranjit Singh (No. 14702005A now JC-590250H), 30
Jan 2010/01 Dec 2009*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Singh (No. 14702016M now JC-590251L),
30 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar Thapa (No. 14702026W now
JC-590252N), 30 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Saukin Singh (No. 14702107W now JC-590253W),
30 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Medonellie Angami (No. 14702417F now JC-590254Y),
25 Jan 2010/04 Dec 2009*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Dec
2009 without effect on pay and allowances)

Hav K Nanda Kesho Kabui Naga (No. 14702454P now
JC-590255F), 17 Jan 2010/06 Dec 2009*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Dec
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Dythumching Anal (No. 14702411A now JC-590256K),
25 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Manbar Singh (No. 14702175K now JC-590257M),
25 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Visalie Leno (No. 14703367N now JC-590258P),
23 Mar 2010/06 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jan
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Parma Nand Budakoti (No. 14702269F now
JC-590259X), 26 Feb 2010/29 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Jan
2010 without effect on pay and allowances)

THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav J Kenedy (No. 4359586W now JC-549791P), 27 Jul
2009/01 Nov 2008*

Hav Hom Lal Sharma (No. 4359787P now JC-549872P),
19 Feb 2009/15 Oct 2009*

Hav Gunendra Nath (No. 4360702A now JC-549874A),
01 Dec 2009/01 Nov 2009*

Hav Swapan Kumar Roy (No. 4359479P now JC-549875H),
31 Dec 2009/01 Nov 2009*

Hav Tal Bahadur Thapa (No. 4359618N now JC-549876L),
31 Dec 2009/01 Nov 2009*

Hav Narmendra Ray (No. 4359752Y now JC-549877N),
09 Mar 2010/03 Nov 2009*

Hav Tuleswar Nath (No. 4360704L now JC-549880N),
30 Dec 2009/01 Dec 2009*

Hav L Nokman Konyak (No. 4357742W now JC-549887X),
04 Feb 2010/01 Jun 2009*

Hav Thian Goulian (No. 4359650H now JC-549888A),
23 Feb 2010/01 Oct 2009*

Hav Chenai Ram Borah (No. 2593949Y now JC-549889H),
04 Feb 2010/28 Dec 2009*

Hav Gunja Lal Dewri (No. 2592229L now JC-549890X),
04 Feb 2010/28 Dec 2009*

Hav Thangtim Mang Kuki (No. 4360033M now JC-
549891A), 04 Feb 2010/28 Dec 2009*

Hav Ningthoujam Debananda Singh (No. 4361074H now
JC-549892H), 04 Feb 2010/28 Dec 2009*

Hav Rishi Ram Paudel (No. 4362773A now JC-549894N),
01 Jan 2010/01 Jan 2010*

Hav Tarun Kr Sonowal (No. 4360066X now JC-549895W),
01 Jan 2010/01 Jan 2010*

Hav Rana Prakash Nath (No. 4360097X now JC-549896Y),
01 Jan 2010/01 Jan 2010*

Hav Prabhat Borborua (No. 4360243M now JC-549897F),
15 Feb 2010/01 Jan 2010*

Hav Manik Chandra Ray (No. 4359596A now JC-549898K),
04 Feb 2010/01 Jan 2010*

Hav Anil Kumar Nath (No. 4360695P now JC-549899M),
07 Jan 2010/01 Jan 2010*

Hav Promod Gurung (No. 4362958F now JC-549990H),
25 Jan 2010/08 Jan 2010*

Hav Ranjit Kumar Nath (No. 4360435K now JC-549991L),
01 Feb 2010/01 Feb 2010*

Hav Ghana Kanta Das (No. 4360429W now JC-549992N),
01 Feb 2010/01 Feb 2010*

Rect/RT (Pandit) Indrajeet Mishra (No. 549862L now JC-
549862L), 30 Jan 2010/30 Jan 2010*

Hav/Clk Ramdas Yadav (No. 4359473N now JC-549873X),
04 Jan 2010/01 Nov 2009*

Hav/Clk Ashok Kumar (No. 4359503A now JC-549995F),
13 Mar 2010/15 Feb 2010*

Hav/Clk Rajen Singh Thakur (No. 3183967W now JC-
549996K), 15 Feb 2010/15 Feb 2010*

Hav/Clk Girdhari Lal (No. 3183968Y now JC-549997M),
15 Feb 2010/15 Feb 2010*

Hav/Clk Ashok Kumar (No. 4270502H now JC-549998P),
15 Feb 2010/15 Feb 2010*

*(Seniority wef without effect on pay and allowances)

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Pawar Uday Kumar Sarjerao (No. 2786209L now JC-
460130A), 27 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Aug 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Hadgal Mukund Subarao (No. 2787338X now JC-
460131H), 06 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Aug 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Bhosale Mansing Shrirang (No. 2786946M now JC-
460132L), 15 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Sep 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Sabale Prakash Dnyanu (No. 2785356F now JC-
460133N), 10 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Sultan Singh (No. 2783716W now JC-460134W),
18 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Oct 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Vilas Chougule (No. 2787462Y now JC-460135Y),
05 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Suresha P M (No. 2785026H now JC-460137K),
28 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Nov 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Vinod (No. 2784846H now JC-460139P), 28 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav (Clk, SD) Chittaranjan Sahoo (No. 15361752L now
JC-460136F), 16 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Nov 2009
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk, SD) Shejwal Shivaji Uttamrao (No. 15362838W
now JC-460138M), 31 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav Patil Sachin Ravasaheb SM (No. 2799019X now JC-
460140K), 18 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 May 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Talanikar Santosh Bhaskarrao (No. 2787358L now JC-
460141M), 18 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Pawar Jalindar (No. 2789568K now JC-460142P),
01 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Jadhav Hanamant Raghunath (No. 2787678A now
JC-460143X), 18 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Oct 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Jagatap Tanaji Yuvaraj (No. 2789617F now JC-
460144A), 01 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Nov 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Padale Vishnu Dattoba (No. 2785318L now JC-
460145H), 18 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Dec 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Memane Shahaji Vishnu (No. 2785565Y now JC-
460146L), 18 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Jan 2010
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav (Clk, SD) Randive Uttam Keshao (No. 15363018W now JC-460147N), 25 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk, SD) Gaikwad Nimbaji Yadao (No. 1536555F now JC-460148W), 01 Mar 2010

To be Nb Sub (GD)

Hav Deshmukh Sanjay Vasantao (No. 2789071M now JC-460149Y), 16 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Nikam Ajit Narayan (No. 2786941N now JC-460150N), 27 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jadhav Shyam Anirudha (No. 2784195X now JC-460151W), 09 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Doiphode Dadarao Dagadu (No. 2785583F now JC-460152Y), 16 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Warghade Valmik Dhondiba (No. 2787704W now JC-460153F), 20 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gangne Sadashiv Sopan (No. 2785676W now JC-460154K), 04 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Metkari Sanjay Dhondiba (No. 2785041X now JC-460155M), 10 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gunjal Ashok Janyabapu (No. 2788602M now JC-460156P), 10 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Nawale Haridas Ankush (No. 2789829M now JC-460157X), 22 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Tatyasaheb Tukaram (No. 2784813X now JC-460158A), 10 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav (Clk, SD) Ingale Dattatrya Laxman (No. 15363924N now JC-460159H), 01 Mar 2010

THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Tek Singh (No. 4468470W now JC-509899K), 20 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Jul 2008)

Hav Balwinder Singh (No. 4467467K now JC-509887P), 25 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Nov 2008)

Hav Darshan Singh (No. 4467840Y now JC-509888X), 20 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Jun 2009)

Hav Hans Raj Singh (No. 4465436L now JC-509890P), 01 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Oct 2009)

Hav Baljit Singh (No. 4467694K now JC-509891X), 01 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 07 Nov 2009)

Hav Didar Singh (No. 4472700W now JC-509892A), 13 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 10 Dec 2009)

Hav Gurdeep Singh (No. 4468418N now JC-509893H), 24 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 19 Dec 2009)

Hav Gurjant Singh (No. 4470242M now JC-509894L), 22 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Jan 2010)

To be Nb Sub (Clk) (SD)

Hav (Clk) Om Prakash Prasad (No. 4468819H now JC-509895N), 01 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) wef 01 Feb 2010]

Hav (Clk) Kundan Kumar Singh (No. 4468820X now JC-509896W), 04 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) wef 01 Feb 2010]

Hav (Clk) Ashok Kumar (No. 4468827F now JC-509897Y),
04 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) wef 01 Feb 2010)

Hav (Clk) Rajesh Kumar (No. 4468825W now JC-509898F),
08 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) with effect from 01 Feb 2010)

To be Naib Subedar (Musn)

Hav (Musn) Balbir Singh (No. 4471436F now JC-509889A),
03 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Musn) with effect from 14 Aug 2009)

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Hanuman Singh (No. 3180800F now JC-490481K),
01 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Narender Kumar (No. 3183214K now JC-490482M),
07 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bhoora Singh (No. 3182052X now JC-490483P),
22 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Satish Kumar (No. 3191636K now JC-490484X),
28 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rajpal Singh (No. 3181697N now JC-490485A),
01 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Devendra Singh (No. 3180815K now JC-490486H),
01 Jan 2010

Hav Jang Bahadur Singh (No. 3180996A now JC-490487L),
01 Jan 2010

Hav Surendra Kumar (No. 3183010X now JC-490488N),
13 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Karam Singh (No. 3183029W now JC-490489W),
13 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Babu Lal Dedar (No. 3181715L now JC-490490L),
01 Jan 2010

Hav Deshpal Singh (No. 3181727A now JC-490491N),
07 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Reshpal Singh (No. 3183124H now JC-490492W),
01 Jan 2010

Hav Bheekha Lal Jat (No. 3181757X now JC-490493Y),
01 Feb 2010

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Atar Singh (No. 3180125A now JC-490494F),
01 Jan 2010

Hav/Clk Amar Singh (No. 15358238W now JC-490495K),
10 Jan 2010

To be Nb Sub

Hav Jasver Singh (No. 3180905L now JC-490502P),
07 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gajraj Singh (No. 3180657A now JC-490503X),
28 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ramu Ram Mund (No. 3181813L now JC-490504A),
12 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Tara Chand (No. 3179992X now JC-490505H), 22 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Jai Bhagwan (No. 15359002N now JC-490506L),
03 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Jugendra Singh (No. 3180898A now JC-490507N),
01 Mar 2010

Hav/Clk Gurdip Singh Dhaliwal (No. 3180901P now JC-490508W), 01 Mar 2010

Hav/Clk Jitendra Kumar Gupta (No. 3180052Y now JC-490509Y), 01 Mar 2010

Hav Dharmendra Singh (No. 3183251X now JC-490510N),
03 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhura Ram (No. 3181903M now JC-490511W),
10 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010
without effect on pay and allowances)

Hav Jeemana Ram (No. 3180796K now JC-490512Y),
03 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Feb 2010
without effect on pay and allowances)

Hav Kamal Singh (No. 3183263M now JC-490513F),
21 Mar 2010

Hav Surendra Singh (No. 3181993Y now JC-490514K),
21 Mar 2010

Hav Ajad Singh (No. 3186105H now JC-490515M),
21 Mar 2010

Hav Bahadur Singh (No. 3182389A now JC-490516P),
21 Mar 2010

Hav Ram Awtar Loyal (No. 3179162F now JC-490517X),
01 Apr 2010

Hav Lalbeer (No. 3180533L now JC-490518A), 01 Apr
2010

Hav Raghuveer Singh (No. 3181920M now JC-490519H),
01 Apr 2010

Hav Jai Singh (No. 3183381A now JC-490520X), 01 Apr
2010

Hav Kumar Pal Singh (No. 3182472X now JC-490521A),
15 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010
without effect on pay and allowances)

Hav Dharamvir (No. 3181592K now JC-490522H), 01 Apr
2010

Hav Baljor (No. 3181779W now JC-490523L), 13 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010
without effect on pay and allowances)

Hav Paramjit Singh (No. 3184431M now JC-490524N),
01 Apr 2010

Hav Bajrang Lal Meel (No. 3182403F now JC-490525W),
04 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010
without effect on pay and allowances)

Hav Sanwar Mal (No. 3182594F now JC-490526Y), 01 Apr
2010

S ASHRAF
Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 488, dated 02 Aug 2010—The President is pleased to
promote the following officers from existing grade wef the
date (F/N) as mentioned against each :—

Name, Lab/Estt, Existing Grade, Promoted to, Pay Band
+ Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.) and Date of charge
Assumption in the promoted grade

KC Gogna, DIPAS, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-)
GP + 6,600/-, 01 Sep 2009

Bhagwat Singh, DIPAS, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—
39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2009

Rajesh Kumar (2), DIPAS, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—
34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2009

B B SHARMA
Jt. Director (Pers-1)